सुप्रभात
रांची, शुक्रवार
02.06.2023
* नगर संस्करण । पेज : 12

धरती आबा की ऊर्जावान भूमि से प्रकाशित लोकप्रिय दैनिक

# खबर मन्त्र

सबकी बात सबके साथ

khabarmantra.net ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी, संवत 2080 मूल्य : ₹ 3 । वर्ष : 10 । अंक : 317 12 उर्वशी रौतेला ने 190 करोड़ में खरीदा बंगला

न्यूज डायरी

### कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 83.50 रुपये सस्ता

नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने महीने के पहले दिन कॉमर्शियल गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 83 .50 रुपये तक की कटौती की है। पिछले महीने कॉमर्शियल सिलेंडर करीब 172 रुपये सस्ता हुआ था। नयी दरें गुरुवार (1 जून 2023) से लागू हो गयी है।

### खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में विशाल को कांस्य

रांची। एसएस मेमोरियल कॉलेज के छात्र विशाल बहादुर ने लखनऊ में हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कांस्य पदक जीता है। ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में यह मेडल मिला है।

### बीएयू में प्लेसमेंट मेला और इंडस्ट्री मीट आज से

रांची। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) में पहली बार दो दिवसीय प्लेसमेंट मेला एवं इंडस्ट्री मीट-2023 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह शुक्रवार को दिन में 11:00 बजे से बीएयू के कृषि संकाय स्थित प्रेक्षागृह में होगा। इस कार्यक्रम में बीएयू के अधीन सभी महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राएं हिस्सा ले सकेंगे। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विशिष्ट अतिथि नाबार्ड के महाप्रबंधक गौतम सिंह होंगे।

### केमिकल फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, एक की मौत

कोडरमा। तिलैया थाना अंतर्गत गझंडी रोड स्थित कोडरमा केमिकल फैक्ट्री में गुरुवार की शाम हुए ब्लास्ट में तीन मजदूर घायल हो गये, जबकि एक की मौत हो गयी। घटना के बाद आनन-फानन में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा घायलों को उपचार के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। मृतक का नाम नागेश्वर यादव (गोहाल, पिपचो, जयनगर) है। घायलों में रौशन कुमार (ग्राम बेहराडीह, शर्माटांड़, जयनगर), सौरव नंदी (पुरुलिया, पश्चिम बंगाल) एवं केदार विश्वकर्मा (गौशाला रोड, झुमरी तिलैया शामिल हैं।

### परमाणु मिसाइल अग्नि-1 ने लगाया सटीक निशाना

नयी दिल्ली। भारत ने गुरुवार को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल प्रक्षेपण किया। परमाणु मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में 1000 किमी दूर बड़ी सटीकता के साथ अपने नियोजित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा।

गहना आभूषण

| | | |
|---|---|---|
| सोना (बिक्री) | : | 57,800 रु./10 ग्राम |
| चांदी | : | 77,000 रु./प्रति किलो |

# बिजली दर में 5 से 15 पैसे प्रति यूनिट की हुई बढ़ोतरी

## विद्युत नियामक आयोग ने नयी दर को दी मंजूरी, 1 जून 2023 से लागू

■ जेबीवीएनएल का दावा, 2022 में 2500 करोड़ और 2023 में 7400 करोड़ का हुआ नुकसान

खबर मन्त्र संवाददाता

**रांची।** झारखंड में बिजली की नयी दर लागू हो गयी। 1 जून 2023 से बिजली की नयी दर के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करना होगा। झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने 6.50 फीसदी टैरिफ वृद्धि को मंजूरी दे दी है। जबकि, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) की ओर से दिये प्रस्ताव में 20 फीसदी वृद्धि की मांग की गयी थी। बिजली की नयी दर में 5 से 15 पैसे प्रति यूनिट की हुई बढ़ोतरी हुई है।

झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार को राज्य में नयी बिजली दरों का एलान किया। आयोग के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोग के अध्यक्ष अमिताभ गुप्ता ने नयी दरों की घोषणा की। इसके तहत अब ग्रामीण इलाकों में घरेलू बिजली की दर 5.80 रुपये प्रति यूनिट होगी। जबकि, शहरी क्षेत्र में घरेलू बिजली चार्ज की दर 6.30 रुपये प्रति यूनिट होगी। इसी प्रकार, घरेलू एचटी की दर 6.15 रुपये निर्धारित की गयी है। नयी टैरिफ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के उपभोक्ताओं के लिए मान्य है। जेबीवीएनएल ने इस संबंध में आयोग को टैरिफ पीटिशन सौंपा था। इसमें घाटे को दर्शाते हुए दर बढ़ाने की अनुमति देने का आग्रह किया गया था।

### बिल भुगतान पर उपभोक्ताओं को मिलेगी विशेष छूट

नियामक आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता ने कहा कि नयी टैरिफ वृद्धि आंशिक रूप से की गयी है। इसमें उपभोक्ताओं का खास ख्याल रखा गया है। अगर उपभोक्ता बिल तिथि के 5 दिनों के भीतर भुगतान करता है, तो उपभोक्ता को बिल के भुगतान पर 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। इसके अलावा, ऑनलाइन या किसी डिजिटल मोड के माध्यम से किये गये देय तिथि के भीतर बिल भुगतान पर राशि पर 1 प्रतिशत छूट की अनुमति दी गयी है, जिसकी अधिकतम सीमा 250 रुपये होगी। इसके साथ ही, लोड फैक्टर रिबेट उन सभी उपभोक्ताओं को दिया जायेगा, जिनका लोड फैक्टर 65 प्रतिशत से अधिक होगा और जिसकी अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत होगी।

#### 2019 की दरें

घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं से 5.72 रुपये लिये जाते हैं। घरेलू शहरी उपभोक्ता से 6.25 प्रति यूनिट, घरेलू एचटी से 6.25 रुपये, कॉमर्शियल ग्रामीण से छह रुपये प्रति यूनिट, कॉमर्शियल शहरी से 6.25 रुपये प्रति यूनिट, कृषि कार्यों के लिए 5 रुपये प्रति यूनिट, एलटीआइएसएस से 5.75 प्रति केवीएच और एचटीआइएस 5.50 प्रति केवीएच लिया जाता रहा है। अब इन दरों में बदलाव होगा। वहीं, उपभोक्ताओं को 100-200 यूनिट उपभोग पर सब्सिडी प्रति यूनिट 2.75 रुपये और 201- 400 यूनिट पर सब्सिडी प्रति यूनिट 2.05 रुपये मिल रही है।

#### तीन साल बाद बढ़ी बिजली दरें

पिछले तीन साल से राज्य में बिजली की दरें घोषित नहीं की गयी थीं। वर्ष 2020 में कोविड महामारी को देखते हुए आयोग ने बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया। ऐसे में वर्ष 2019 का दर अब तक मान्य है। वहीं, वर्ष 2020 के बाद से नियामक आयोग में अध्यक्ष और सदस्य पद खाली हो गया, जिससे बिजली दर निर्धारण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी।

#### निगम ने बताया नुकसान का आंकड़ा

जेबीवीएनएल की ओर से दिये प्रस्ताव में 20 फीसदी वृद्धि की मांग की गयी थी। प्रस्ताव में बिजली वितरण निगम ने बताया है कि निगम सालाना 7400 करोड़ रुपये के नुकसान में है। वर्ष 2020 में ये घाटा 2200 करोड़ रुपये था। वर्ष 2021 में 2600 करोड़ और वर्ष 2022 में 2500 करोड़ रुपये का घाटा बताया गया है। हालांकि, जनसुनवाई के दौरान लोगों ने निगम के दावों को झूठ बताया। साथ ही, बिजली दरों में वृद्धि नहीं करने की अपील की गयी।

**200 पन्नों में आयोग ने दिया है फैसला :** लंबी सुनवाई के बाद करीब 200 पन्नों में आयोग द्वारा दिये गये निर्णय में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कई तरह के सुझाव भी दिये गये हैं। आयोग का यह निर्णय जेबीवीएनएल द्वारा 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में दिये गये प्रस्ताव पर सुनवाई के बाद आया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता, सदस्य अतुल कुमार और महेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आयोग 2022-23 और 2023-24 के प्रस्ताव को संयुक्त रूप से सुनवाई के बाद आगे का निर्णय लेगा।

सीएम हेमंत सोरेन ने की योजनाओं की समीक्षा, कहा

## प्रगति व गुणवत्ता का होगा लाइव वेरीफिकेशन, अधिकारी रहें तैयार

खबर मन्त्र ब्यूरो

...और क्या बोले सीएम हेमंत

- योजनाओं में ऐसी कोई लापरवाही न बरतें, जिससे गुड गवर्नेंस पर आंच आये
- अधिकारी फील्ड विजिट कर योजनाओं की जमीनी हकीकत की लें जानकारी, प्रॉपर मॉनीटरिंग हो
- बजटीय प्रावधानों के अनुकूल योजनाओं में गति लायें, कार्य धरातल पर उतरे, सरकार संकल्पित

**रांची।** गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि योजनाएं तय समय पर पूरी हों। योजनाओं में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाये। विशेषकर, विभिन्न विभागों के लिए जो बजटीय प्रावधान हैं, उसके अनुरूप कार्यों में गति होनी चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को पूरी जवाबदेही और गंभीरता से कार्य करना होगा। यह कहना था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। वह गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव के साथ उच्च स्तरीय बैठक में जोहार परियोजना पोर्टल पर अपलोड योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। आज जोहार परियोजना पोर्टल की पहली समीक्षा हुई। इसमें कई बदलाव करने की जरूरत है। इस सिलसिले में आगे जो भी बैठक होगी, उसने मंत्री गण भी मौजूद रहेंगे, ताकि इसकी हर स्तर पर विस्तृत समीक्षा की जा सके।

**विभागों में तालमेल हो :** मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित कई योजनाएं कई विभागों से जुड़ी होती हैं। ऐसे में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल हो, ताकि उसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सके। उन्होंने विभागीय सचिवों से कहा कि वे तमाम योजनाओं की प्रॉपर मॉनीटरिंग करें, ताकि उसमें अगर किसी प्रकार का व्यवधान या समस्या आये, तो उसका समाधान निकाला जा सके। इसका यह फायदा होगा कि योजनाएं समय पर पूरी हो सकेंगी।

**सभी पदाधिकारी योजनाओं का आकलन करें :** मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने विभागीय सचिवों को कहा कि वे अपने-अपने विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का आकलन करते हुए उसकी विस्तृत समीक्षा करें, ताकि उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो और तमाम चीजें सुचारूपूर्वक आगे बढ़ सकें। दरअसल, कई योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं। योजनाओं में विलंब होने से उसकी लागत भी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए योजनाओं की लगातार निगरानी होनी चाहिए।

**साइट से प्रगति की जानकारी ली जायेगी :** मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं या नहीं, योजनाओं की प्रगति किस स्तर पर है, गुणवत्ता के साथ कार्य हो रहे हैं या नहीं, इसका अब लाइव वेरिफिकेशन किया जायेगा। सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत तमाम योजनाओं की साइट से उसकी प्रगति की जानकारी ली जायेगी। (संबंधित खबर पेज 2 पर देखें।)

## चुटूपालू घाटी में ट्रेलर का कोहराम बाइक सवार एक युवक की मौत

>> कार पर सवार तीन लोग घायल

खबर मन्त्र संवाददाता

**रामगढ़।** रांची-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग-33 पर रामगढ़ के चुटूपालू घाटी में एक ट्रेलर ने गुरुवार को कोहराम मचा दिया। अनियंत्रित ट्रेलर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी और फिर घाटी में डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। इस हादसे में बुलेट बाइक पर सवार बादल करमाली की मौत हो गयी। वह रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो क्षेत्र का रहने वाला था। वह गुरुवार की सुबह रांची से अपने घर लौट रहा था। इस हादसे में कार पर सवार तीन लोग घायल हो गये हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस हादसे में ट्रेलर पर लदा सरिया फोरलेन पर दोनों ओर बिखर गया। इस हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग -33 पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना प्रभारी रोहित कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस ने काफी मशक्कत कर सड़क पर बिखरे हुए सरिया को हटवाया और दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को भी सड़क के किनारे किया। इसके बाद राजमार्ग 33 पर आवागमन शुरू हुआ। इस दौरान लगभग पांच घंटे तक सड़क जाम रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई।

थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि अनियंत्रित ट्रेलर ने घाटी में एक स्विफ्ट डिजायर कार, एक बुलेट बाइक, एक टाटा 407 और एक ट्रेलर को जोरदार टक्कर मारी। इसके अलावा, डिवाइडर पर लगे बिजली के कई खंभों को भी अनियंत्रित ट्रेलर ने उखाड़ दिया। सरिया लदा ट्रेलर रांची की ओर से रामगढ़ की तरफ आ रहा था। घाटी में घुसते ही वह अनियंत्रित हो गया। दुर्घटना प्रशासन द्वारा चिह्नित ब्लैक स्पॉट के पास हुई है।

### नप का प्रधान लिपिक रिश्वत लेते गिरफ्तार

**विश्रामपुर।** पलामू भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नगर परिषद विश्रामपुर के प्रधान लिपिक (बड़ा बाबू) अनिल चंद्रवंशी व चालक जितेंद्र बहेलिया को 10 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। ज्ञात हो कि रेहला थाना क्षेत्र के ग्राम कधवन निवासी ओंकारनाथ सिंह को नगर परिषद विश्रामपुर में वेलकम बोर्ड निर्माण के लिए टेंडर मिला था। इसकी प्राक्कलित राशि 10 लाख 46 हजार 300 रुपये थी। इस एवज में संवेदक ओंकारनाथ ने नगर परिषद विश्रामपुर में 41,688 रुपये अग्रिम जमानत राशि जमा की थी। कार्य पूर्ण होने के बाद ओंकारनाथ जमानत राशि पाने के लिए नगर परिषद विश्रामपुर कार्यालय का चक्कर लगाते रहे। अंत में नप के बड़ा बाबू अनिल चंद्रवंशी ने कहा कि साहब 10 हजार मांग रहे हैं। बिना दिये काम नहीं होगा। ओंकारनाथ ने इसकी लिखित सूचना एसीबी पलामू को दी। एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज कर सत्यापन के लिए जांच की, तो वादी की सूचना सत्य पायी गयी। इसके बाद एसीबी की टीम ने धावा बोला।

अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान पहुंचे रांची

## आज हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे दिल्ली-पंजाब के सीएम

खबर मन्त्र ब्यूरो

**रांची।** दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान और सांसद संजय सिंह गुरुवार की रात रांची पहुंचे। तीनों मुख्यमंत्री रात को होटल रेडिशन ब्लू में रुके हैं। वे शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। मुख्यमंत्री से मिलकर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के खिलाफ चलाये जानेवाले अभियान में सहयोग की अपील करेंगे।

इधर, मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली सूचना के अनुसार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एवं पंजाब के सीएम मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में दोपहर 2 बजे संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करेंगे। मालूम हो कि केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली, बिहार और बंगाल के सीएम के साथ 20 से अधिक राजनीतिक पार्टी के नेताओं को एकजुट करने का प्रयास चल रहा है। उनकी बैठक पटना में 12 जून को प्रस्तावित है।

इधर, झारखंड और दिल्ली में जारी इडी की कार्रवाई के बीच केजरीवाल और सीएम हेमंत सोरेन की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दोनों की इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

## दो लाख का इनामी नक्सली राजेश उरांव मुठभेड़ में ढेर

खबर मन्त्र संवाददाता

**गुमला।** दो लाख के इनामी नक्सली राजेश उरांव को गुमला पुलिस ने गुरुवार को आंजन रोड में मुठभेड़ में मार गिराया। उसे तीन-चार गोली लगने की बात कही जा रही है। मृत नक्सली घाघरा प्रखंड के हुटार गांव का रहने वाला था। पुलिस ने घटनास्थल से एक लोडेड रायफल व कारतूस बरामद किया है। जानकारी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी कमांडर रंथू उरांव का दस्ता आंजन क्षेत्र में भ्रमणशील है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते गुमला पुलिस की टीम आंजन गांव पहुंची। पुलिस वहां सर्च अभियान चला रही थी। इस दौरान पुलिस को देखकर राजेश उरांव ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा लेते हुए जवाबी फायरिंग की। (शेष पेज 11 पर)

**चाईबासा : नक्सलियों की साजिश विफल, चार आइइडी बरामद**

**चाईबासा।** पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत तुंबाहाका गांव जाने वाले रास्ते में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश को सुरक्षा बलों ने गुरुवार को फिर एक बार विफल कर दिया। सुरक्षा बलों ने चार आइइडी (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बरामद किया है। सभी आइइडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। बरामद आइइडी में 50 किलो का एक, पांच किलो का एक, आठ-आठ किलो के दो विस्फोटक शामिल हैं। एसपी आशुतोष शेखर ने गुरुवार को बताया कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछु, चमन, कांडे, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील है। सुरक्षा बलों को लक्षित कर हानि पहुंचाने के उद्देश्य से आइइडी लगाया गया था। लेकिन, सुरक्षाबलों ने चार शक्तिशाली आइइडी को बरामद किया और सभी को डिफ्यूज कर दिया। इलाके में सर्च अभियान जारी है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को भी नक्सलियों ने सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए सात आइइडी लगाया था, जिसे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया था।

बिहार, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, बंगाल और यूपी से आगे निकला राज्य

## आइआइटियन देने में 8वें पायदान पर झारखंड

■ हर साल राज्य के 1.22% बच्चों को आइआइटी में मिलता है दाखिला

सुधीर

**रांची।** झारखंड के बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। यहां के बच्चे काफी प्रतिभाशाली और हर क्षेत्र में आगे हैं। खासकर, पढ़ाई के क्षेत्र में तो यहां के बच्चे रोज कमाल कर रहे हैं। आइआइटियन देने के मामले में भी झारखंड के बच्चों ने अपने पड़ोसी राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश (यूपी) को पीछे छोड़ दिया है। झारखंड आइआइटियन देने में पूरे देश में 8वें पायदान पर खड़ा है। यह झारखंड के लिए बड़े ही गर्व की बात है। हेमंत सरकार ने उच्च शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए राज्य के बच्चों को विदेश भेजने तक की व्यवस्था कर दी है।

### विदेशों में भी लहरा रहे झारखंड का परचम

#### आइआइटी में दाखिले का प्रतिशत

| राज्य | प्रतिशत | राज्य | प्रतिशत | राज्य | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| लद्दाख | 2.96 | गुजरात | 0.7 | पश्चिम बंगाल | 0.74 |
| जम्मू कश्मीर | 0.34 | मध्य प्रदेश | 1.42 | झारखंड | 1.22 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.6 | महाराष्ट्र | 1.55 | बिहार | 0.92 |
| पंजाब | 0.78 | गोवा | 1.07 | सिक्किम | 0.0 |
| चंडीगढ़ | 12 | कर्नाटक | 0.9 | असम | 0.48 |
| उत्तराखंड | 1.79 | केरला | 0.54 | मेघालय | 0.1 |
| हरियाणा | 2.77 | तमिलनाडु | 0.6% | त्रिपुरा | 0.55 |
| दिल्ली | 5.2 | आंध्र प्रदेश | 0.6 | मिजोरम | 0.4% |
| उत्तर प्रदेश | 1.06 | तेलंगाना | 4.69 | मणिपुर | 0.07 |
| राजस्थान | 3.18 | छत्तीसगढ़ | 0.76 | मेघालय | 0.1 |
| | | ओड़िशा | 0.55 | अरुणाचल प्रदेश | 1.15 |

राज्य के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हरेक साल यहां के 1.22% बच्चों को आइआइटी के बेहतर कॉलेजों में दाखिला मिलता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेहतर पैकेज के साथ न सिर्फ देश में, बल्कि विदेशों में भी झारखंड का परचम लहरा रहे हैं। बताते चलें कि देश भर में लगभग हर साल 16,00,000 से ज्यादा बच्चे आइआइटी की परीक्षा देते हैं। इनमें से सिर्फ 16,000 बच्चों का ही चयन आइआइटी कॉलेज में हो पाता है। इसमें झारखंड के बच्चों की हिस्सेदारी 1.22% होती है। यानि कि हरेक साल झारखंड से 196 बच्चों को देश के बेहतर आइआइटी कॉलेजों में दाखिला मिलता है। झारखंड के लिए यह आंकड़ा विद्यार्थियों के बीच मनोबल बढ़ाने वाला है।

## रामगढ़ : जबरन दोस्ती को लड़की के गले पर रखा चाकू, गिरफ्तार

खबर मन्त्र संवाददाता

**रामगढ़।** देश में लव जिहाद को लेकर चर्चा काफी जोरों पर है। ऐसे ही एक मामले में रामगढ़ में भी एक मुस्लिम युवक ने बुधवार की रात एक हिंदू लड़की से दोस्ती करने के लिए रात के अंधेरे में उसके गले पर चाकू रख दिया। लड़की ने किसी तरह अपनी जान बचायी और भागकर थाने पहुंची। इस संबंध में रामगढ़ थाना में युवती ने प्राथमिकी दर्ज करायी है। रामगढ़ थाना केस संख्या 135/23 धारा 452, 341, 323, 354 , 308 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना रामगढ़ शहर के सौदागर मोहल्ला में घटी है। पीड़िता ने प्राथमिकी में लिखा है कि सौदागर मोहल्ला के आरजू मंसूरी अपने कुछ लोगों के साथ रात नौ बजे के लगभग मेरे घर में घुस आया। आरजू मंसूरी अपने लोगों के साथ मुझसे जबरदस्ती दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा। (शेष पेज 11 पर)

लव जिहाद

### रांची मामले की जांच को मुंबई गयी पुलिस

**रांची।** राजधानी रांची में लव जिहाद के मामले की जांच करने रांची पुलिस गुरुवार को मुंबई गयी है। मुंबई में रहने वाली मॉडल से रांची पुलिस पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी लेगी। साथ ही मॉडल का बयान दर्ज करेगी। भागलपुर की रहने वाली एक मॉडल ने रांची के एक मॉडलिंग स्कूल के संचालक तनवीर अख्तर पर धोखा देने, शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और यौन शोषण का आरोप लगाया है। उसने मुंबई के वर्सोवा थाने में मंगलवार को तनवीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। एफआइआर को मुंबई पुलिस ने झारखंड ट्रांसफर कर दिया। गोंदा थाना में केस दर्ज हुआ है। जांच की जिम्मेदारी एसआइ विवेक कुमार के पास है। पुलिस आरोपी तनवीर अख्तर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश में है।

## सीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की, कहा

# अधिकारी योजनाओं की टाइमलाइन बनायें

### सीएम हेमंत सोरेन ने वर्क कल्चर में सुधार करने की दी नसीहत

खबर मन्त्र संवाददाता

**रांची।** मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तमाम योजनाओं की टाइमलाइन तय करें। इसके तहत योजनाओं का डीपीआर बनाने, टेंडर प्रक्रिया शुरू करने, काम की शुरूआत और उसके पूर्ण होने का समय निर्धारित हो। अगर योजनाओं में विलंब होता है तो किस स्तर पर कितना विलंब हुआ, इसकी भी रूपरेखा तय होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं और पूरी जवाबदेही के साथ काम करें।

**अधिकारी फील्ड विजिट करें, जमीनी हकीकत को भी देखें :** मुख्यमंत्री ने विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को कहा कि वे हर महीने अपना शेड्यूल तय करें। इसमें कम से कम 3 से 4 दिन फील्ड विजिट को शामिल करें ताकि साइट पर उन्हें योजनाओं की जमीनी हकीकत पता चले।

बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव, प्रधान सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव प्रशांत कु सिंह, सचिव विनय चौबे, के. रवि कुमार, मनीष रंजन, राजेश कुमार शर्मा, अमिताभ कौशल, सुनील कुमार, राहुल पुरवार, कृपानंद झा, प्रवीण टोप्पो, जीतेंद्र कुमार सिंह, विप्रा भाल, मनोज कुमार आदि पदाधिकारी थे।

### जलापूर्ति योजनाओं में तय मानकों का पालन हो

मुख्यमंत्री ने कहा की जलापूर्ति योजनाओं के लिए जो पाइप लाइन बिछाई जा रही है उसको लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं। जहां पाइपों की क्वालिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं उसे बिछाने में मानकों का पालन नहीं हो रहा है। इससे जलापूर्ति योजना कैसे सफल होगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पाइप लाइन बिछाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। इसमें जो भी मानक तय किए गए हैं, उसका पूरा पालन किया जाना चाहिए।

### जन कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है लेकिन, कई बार इसमें असमानताएं देखने को मिलती हैं। जरूरतमंदों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। अधिकारी इसे गंभीरता से लें और योजनाओं को जरूरतमंदों और लाभुकों तक पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित करें।

### मुख्य रूप से इन परियोजनाओं की हुई उच्चस्तरीय समीक्षा

सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, 3800 मेगावाट पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन हेतु संचरण योजना, बोरियो (होल ब्लॉक) अंडर होल गोड्डा आरडब्ल्यूएसएस, साहेबगंज जिला अंतर्गत गुमानी बराज योजना, गोड्डा एवं सुंदर पहाड़ी रूरल पाइप वॉटर सप्लाई स्कीम सहित झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वॉटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट मेदिनीनगर निगम, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखंड अंतर्गत सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, कांटा टोली (रांची) फ्लाईओवर निर्माण परियोजना, सरैयाहाट प्रखंड सरैयाहाट ग्रामीण जलापूर्ति योजना, बाघमारा रूरल वॉटर सप्लाई स्कीम, बरलंगा- नेमरा-कसमार-खैराचातर पथ निर्माण कार्य, धोबा-धोबिन-खरपोश-बेनिसागर पथ निर्माण कार्य, रांची जिला अंतर्गत नेवरी विकास विद्यालय से बूटी मोड़, कोकर चौक-कांटा टोली- नामकोम आरओबी तक पथ निर्माण कार्य, साहिबगंज जिला अंतर्गत रांगा सिमरा-हिरन-डुमील श्रीरामपुर-इलाकी भोरबंध- सिमलघाब पथ निर्माण कार्य योजनाओं सहित कई विभिन्न योजनाओं के कार्य प्रगति में तेजी एवं योजनाओं को ससमय पूर्ण करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया।

**जोहार परियोजना पोर्टल पर अपलोड योजनाएं :** 30 मई 2023 तक जोहार परियोजना पोर्टल पर 1138 योजनाओं की जानकारी है। इसमें 931 योजनाओं का शिलान्यास हो चुका है जबकि, 207 योजनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं 595 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है।

### थोड़ी बहुत गलतियां तो होती हैं तो उसे सुधारें

मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की इतनी बड़ी व्यवस्था में योजनाओं के क्रियान्वयन में थोड़ी बहुत गलतियां तो होती ही रहती हैं लेकिन, इसकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि गुड गवर्नेंस पर असर पड़े। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर कहीं गलतियां हो रही हैं, तो उसपर नजर रखने की जरूरत है और उसका समाधान निकालने की दिशा में त्वरित पहल होनी चाहिए।

## लोगों को बिजली का झटका ट्रैरिफ में 6.5% की बढ़ोतरी

खबर मन्त्र संवाददाता

**रांची।** राज्य में 1 जून 2023 यानी आज से बिजली की नयी दर के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करना होगा। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा दिए गए 17% वृद्धि प्रस्ताव को ठुकराते हुए 6.50% टैरिफ वृद्धि की मंजूरी दी है। बिजली की दर में वृद्धि सभी तरह के उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है, जिससे 379.91 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व बिजली वितरण निगम को प्राप्त होगा।

| | |
|---|---|
| **बढ़ा हुआ रेट :** घरेलू ग्रामीण उपभोक्ता को अब देना होगा 5.80 रुपया प्रति यूनिट के साथ 50 रुपया फिक्स चार्ज | **पहले का रेट :** घरेलू ग्रामीण उपभोक्ता को पहले देना होता था 5.75 रुपया प्रति यूनिट के साथ 20 रुपया फिक्स चार्ज |
| **बढ़ा हुआ रेट :** घरेलू शहरी उपभोक्ता को अब देना होगा 6.30 रुपया प्रति यूनिट के साथ 100 रुपया फिक्स चार्ज | **पहले का रेट :** घरेलू शहरी उपभोक्ता को पहले देना होता था 6.25 रुपया प्रति यूनिट के साथ 75 रुपया फिक्स चार्ज |
| **बढ़ा हुआ रेट :** घरेलू एचटी उपभोक्ता को अब देना होगा 6.15 रुपया प्रति यूनिट के साथ 150 रुपया फिक्स चार्ज | **पहले का रेट :** घरेलू एचटी उपभोक्ता को पहले देना होता था 6.00 रुपया प्रति यूनिट के साथ 100 रुपया फिक्स चार्ज |
| **बढ़ा हुआ रेट :** कॉमर्शियल ग्रामीण उपभोक्ता (5 केवी से अधिक) को अब देना होगा 5.80 रुपया प्रति यूनिट के साथ 100 रुपया फिक्स चार्ज | **पहले का रेट :** कॉमर्शियल ग्रामीण उपभोक्ता(5 केवी से अधिक) को पहले देना होता था 5.75 रुपया प्रति यूनिट के साथ 50 रुपया फिक्स चार्ज |
| **बढ़ा हुआ रेट :** कॉमर्शियल शहरी उपभोक्ता (5 केवी से अधिक) को अब देना होगा 6.15 रुपया प्रति यूनिट के साथ 150 रुपया फिक्स चार्ज | **पहले का रेट :** कॉमर्शियल शहरी उपभोक्ता(5 केवी से अधिक) को पहले देना होता था 6.00 रुपया प्रति यूनिट के साथ 100 रुपया फिक्स चार्ज |

## खबर एक नजर में

### जैक बोर्ड : स्कूटनी के लिए आवेदन 6 जून से

**रांची।** झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कॉपी रिचेक करने के लिए आवेदन करने की तिथि जारी कर दी है। विद्यार्थी स्कूटनी के लिए 6 जून से 21 जून तक आवेदन दे सकते हैं। मैट्रिक के विद्यार्थियों को 450 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा, जबकि इंटरमीडिएट के छात्रों को 750 रुपये आवेदन शुल्क देने होंगे। विद्यार्थी जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर आवेदन कर सकते हैं। जैक द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, स्कूटनी केवल परीक्षा केंद्र में हुई कॉपी की होगी। प्रैक्टिकल या इंटरनल कॉपी को रिचेक नहीं कर सकते हैं।

### बुनकर जोड़ो सम्मेलन में शामिल होंगे अनवर अहमद

**रांची।** भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दी छोटनगपुर हैंडलूम एंड खादी वीवर्स लिमिटेड के चेयरमैन और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अनवर अहमद अंसारी महाराष्ट्र के मालेगांव जा रहे हैं। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के केंद्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। इस से पहले पिछले माह 29 मई को राँची के इरबा में भारत जोड़ो बुनकर संवाद की शुरूआत हुई थी।

### राज्यपाल से मिला प्राथमिक शिक्षक संघ का दल

**रांची।** झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं से राज्यपाल को अवगत कराया और अपनी मांगों के समर्थन में सहयोगा मांगा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि राज्यपाल ने मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में हरिद्वार महतो, जितेंद्र दुबे और नंदकिशोर तिवारी शामिल थे।

### राजधर्म निभायें मुख्यमंत्री : बाबूलाल मरांडी

**रांची।** भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में लव जेहादियों की हिम्मत बढ़ गई है। सजा काट के आने के बाद भी न प्रशासन का डर है और न ही फिर से पकड़े जाने का। ट्विट करते हुए बाबूलाल ने कहा कि 14 जनवरी को अरमान खान ने लव जिहाद में रामगढ़ की ममता की निर्ममता से हत्या कर दी। हत्या के बाद अरमान का भाई आरजू खान ममता की बहन को जान से मारने की धमकी देने लगा। इस मामले में काफी दबाव के बाद आरजू की गिरफ्तारी हुई। अब वही आरजू जेल से निकलकर फिर से एक लड़की पर जबरन दोस्ती करने का दबाव बनाते हुए 31 मई की रात 8 अपराधियों के साथ जबरन उसके घर घुसा और उसे जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। राज्य में ऐसी घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि झारखंड में बड़े पैमाने पर ऐसा षड्यंत्र चल रहा है, इन षड्यंत्रों को रोकने की दिशा में वे अपना राजधर्म निभायें।

### पीआइबी रांची में अब्दुल हमीद ने किया योगदान

**रांची।** भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी अब्दुल हमीद ने गुरुवार को पत्र सूचना कार्यालय रांची में संयुक्त निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। हमीद इससे पूर्व आकाशवाणी रांची में समाचार सेवा प्रभाग के प्रमुख के रूप में पदस्थापित थे। भारतीय सूचना सेवा में 35 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में श्री हमीद ने दिल्ली, कोलकाता, गंगटोक, गुवाहाटी, इंफाल और रांची में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रमुख विभागों पीआइबी, आकाशवाणी, प्रकाशन विभाग, दूरदर्शन और सीबीसी में अपनी सेवाएं दी हैं। पीआईबी रांची के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने कहा कि श्री हमीद की योग्यता एवं अनुभव का लाभ पीआईबी, रांची को मिलेगा। इस मौके पर पीआईबी रांची के कार्यालय प्रमुख ओंकार नाथ पांडेय और क्षेत्रीय प्रसार अधिकारी गौरव कुमार पुष्कर भी मौजूद थे।

### पासवा का आज से पुरी में राष्ट्रीय अधिवेशन

रांची। पासवा का चार दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 2 जून से 5 जून के बीच ओड़िशा के पुरी में होने जा रहा है। देशभर के चुनिंदा 400 निजी विद्यालयों के प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल होंगे जबकि झारखंड के विभिन्न जिलों से 17 डेलीगेट्स अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। अधिवेशन में शामिल होने के लिए झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव एवं झारखंड प्रदेश पासवा अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे सेवा विमान से गुरुवार को पुरी के लिए प्रस्थान किये। पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमायल अहमद के नेतृत्व में पूरे देशभर के प्रतिनिधियों के साथ शिक्षाविदों की विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे, पासवा के प्रदेश सलाहकार रोहित प्रियदर्शी उरांव, प्रदेश महासचिव नीरज सहाय, बच्चन पाण्डेय, बेबी सिंह,सुनीता सिन्हा,आशा पाण्डेय, प्रवीण प्रकाश सिंह,इयान कुमार, अल्ताफ अंसारी, मो .नेशार, ज्ञानेश्वर दयाल, मींकू कुमार, धीरेन्द्र राम, बिपीन कुमार, राशीद अंसारी भी पुरी के लिए प्रस्थान कर गए हैं।

## आज व कल विकसित स्थल महासंपर्क अभियान के बनेंगे केंद्र बिंदु : भाजपा

खबर मन्त्र ब्यूरो

**रांची।** भाजपा का महा जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ हो चुका है। महा जनसंपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक सह प्रदेश महामंत्री डॉ प्रदीप वर्मा ने बताया कि 2और 3 जून को प्रदेश के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में मोदी सरकार और प्रदेश के विकसित प्रमुख स्थल जिसे भाजपा ने विकास तीर्थ कहा है, का भ्रमण करेंगे। डॉ वर्मा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश 3 जून को रांची विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित बिरसा मुंडा पार्क, जेल रोड के कार्यक्रम में अपराह्न 3 बजे शामिल होंगे जबकि प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह 3 जून को लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर 11 बजे पूर्वाह्न आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।

इसके अलावा 3 जून को ही 11 बजे पूर्वाह्न केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खरसावां विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खुंटपानी में हर घर नल जल योजना स्थल के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी 3 जून को ही कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज करमा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रदेश महामंत्री डॉ प्रदीप वर्मा 3 जून को खिजरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित हुंडरू ब्रिज स्थल पर कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि 2 जून को पूर्वाह्न 11 बजे प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय हटिया विधानसभा क्षेत्र के नगड़ी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रदेश महामंत्री एवम सांसद आदित्य साहू ने गुरुवार को 11 बजे खिजरी विधानसभा क्षेत्र के ओरमांझी स्थित अनगड़ा ब्रिज पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।

## स्थानीय खेलों को प्रोत्साहन : स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव ने जारी किया आदेश

# सरकारी स्कूलों में गुलेल और कंचा जैसे खेल को मिलेगा बढ़ावा : के रवि कुमार

खबर मन्त्र ब्यूरो

**रांची।** झारखंड के सरकारी स्कूलों में गुलेल और कंचा जैसे खेल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसका आदेश शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने जारी किया है। इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को भी दे दी गयी है। राज्य के सभी सरकारी विद्यालय एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षण में खेल एवं शारीरिक शिक्षा संबंधी गतिविधियों को सम्मिलित करने के लिए आदर्श दिनचर्या तैयार की गयी है। नई शिक्षा नीति-2020 के आलोक में बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनके बौद्धिक स्तर को ऊंचा करने के लिए इसे तैयार किया गया है। यह आदेश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, मॉडल विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में भी लागू होगा।

**सुबह 8.45 बजे विद्यालय प्रबंधन द्वारा लंबी घंटी लगाना सुनिश्चित करें :** कक्षा संचालन के लिए सुबह 8.45 बजे विद्यालय प्रबंधन द्वारा लंबी घंटी लगाना सुनिश्चित होगा। इसी तरह ग्रीष्मकालीन कक्षाओं के समय यथा 1 अप्रैल से 30 जून में प्रातः 6.45 बजे लंबी घंटी लगायी जाएगी। प्रत्येक कक्षा के बाद छोटी घंटी लगाना सुनिश्चित करेंगे। प्रातः कालीन प्रार्थना सभा सुबह 9 से 9.15 होगा। ग्रीष्मकालीन कक्षाओं के समय प्रार्थना सभा सुबह 7 बजे 7.15 बजे तक होगा। विद्यालय की प्रार्थना सभा में सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य है। विद्यालय की दिनचर्या में बुधवार एवं शनिवार को शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक घंटी दिया जाएगा। इस समयावधि में पीटी, ड्रील, एरोबिक्स, योग इत्यादि गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। जारी आदेश में कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन सभी गतिविधियों में विद्यालय के सभी शिक्षकों को शामिल होना सुनिश्चित करेंगे। सभी शुक्रवार व शनिवार में से किसी एक दिन एक घंटी पुस्तकालय के लिए होगा।

**खेल के लिए ये प्रावधान :** विभिन्न खेलों के अतिरिक्त एक विद्यालय एक खेल विधा के अंतर्गत उस क्षेत्र में लोकप्रिय खेल (जैसे गुमला, सिमडेगा जिला में हॉकी) को आवश्यक रूप से खेल की घंटियों में शामिल होगा। विद्यालय द्वारा चयनित खेल ओलंपिक, राष्ट्रमंडल व एशियन प्रतियोगिताओं के लिए खेलों की सूची में शामिल होगा। विद्यालयों में पारंपरिक क्षेत्रीय खेलों (जैसे गुलेल, कंचा, कितकित, सेकोर, लट्टू, गोटी आदि) को भी बढ़ावा दिया जायेगा। उपरोक्त खेल गतिविधियां विद्यालय के शारीरिक शिक्षा शिक्षक, नोडल शिक्षक और प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक की देखरेख में संचालित होंगे। सभी विद्यालय कक्षा एक से 12 तक के विद्यार्थियों का हेल्थ कार्ड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण की अध्यतन स्थिति विद्यालय के रिकॉर्ड में होगा।

## सहायक अध्यापक संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली का विरोध शुरू

# झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा- टेट की परीक्षा लें और शिक्षकों को ₹4200 का ग्रेड-पे ही दें

खबर मन्त्र ब्यूरो

**रांची।** झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय महतो ने इस नियुक्ति नियमावली का विरोध किया है। संजय महतो ने कहा कि विगत कई वर्षों से टेट परीक्षा नहीं होने से लाखों छात्र-छात्राएं इस नियुक्ति से वंचित हो जायेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पहले सरकार टेट परीक्षा लें, उसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो। शिक्षकों की नियुक्ति पुराने वेतनमान 9300-34800 और ग्रेड पे 4200 पर ही की जाये।

ये है झारखंड कैबिनेट का फैसला : द्वारा झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में सहायक अध्यापक संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति व सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी गयी है। अब, राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में लगभग 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सहायक आचार्य की नियुक्ति पुराने वेतनमान 9300-34800 और ग्रेड पे 4200 पर नहीं होगी। इनकी नियुक्ति 5200-20200 के वेतनमान और 2400-2800 के ग्रेड पे पर होगी। इस आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति होने वाले सहायक आचार्य को 26 हजार रुपये और मध्य विद्यालयों में नियुक्ति होने वाले सहायक आचार्य को 28 हजार रुपये वेतन मिलेगा, जबकि पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षकों को नियुक्ति के समय 40 हजार रुपये मिलते थे। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। आज तक झारखंड अलग राज्य बनने के बाद मात्र दो बार वर्ष 2013 एवं 2016 में टेट परीक्षा ली गई है, जबकि झारखंड में प्रत्येक वर्ष टेट परीक्षा लेनी है।

## आइएएस राजीव अरुण एक्का प्रकरण की जांच के लिए एक्शन मोड में आयोग

खबर मन्त्र संवाददाता

**रांची।** आइएएस राजीव अरुण एक्का प्रकरण की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग एक्शन में है। झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीके गुप्ता को झारखंड सरकार ने एक्का द्वारा अपने पद के कथित दुरूपयोग मामले की जांच का दायित्व दिया है। इस क्रम में आयोग के स्तर से लोगों से सहयोग मांगा गया है। आयोग के सचिव अखलेश कुमार सिन्हा ने सूचना जारी कर कहा है कि महत्वपूर्ण पद पर रहते राजीव अरुण एक्का ने कथित तौर पर अनाधिकृत रूप से आधिकारिक दस्तावेजों पर अनाधिकृत व्यक्ति की कथित उपस्थिति में हस्ताक्षर किये। कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकरण में कोई जानकारी रखते हों, वे आयोग को सहयोग करें। अपना लिखित पक्ष 15 जून 2023 तक आयोग के पते पर भेज सकते हैं। लिखित तौर पर जरूरी सूचनाएं (मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, डाक का पूरा पता) और एफिडेविट डाक से या हाथों हाथ आबकारी भवन कांके रोड, रांची- 834008 के पते पर उपलब्ध करा सकते हैं।

## झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने रांची आये दिल्ली और पंजाब के सीएम

# विपक्षी एकता के लिए राष्ट्रीय राजनीति में हेमंत सोरेन का कद बढ़ा, कई मायने में बनायी अलग पहचान

सत्येन्द्र

**रांची।** पहले हिमाचल प्रदेश और बाद में कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष में उम्मीद की बड़ी किरण जगा दी है। पीएम मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद कर्नाटक के लोगों ने भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया। इस बदलाव ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष में उम्मीद की किरण जगा दी है। इसका असली चेहरा 20 मई को बेंगलुरू के कांति राव स्टेडियम में हुए सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में भी देखने को मिला। समारोह में नीतीश, तेजस्वी जैसे एंटी बीजेपी लॉबी के बड़े नेता के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी भी राष्ट्रीय राजनीति में कुछ अलग ही संकेत दे रही थी। वहीं कांग्रेस भी विपक्षी एकजुटता दिखाने के साथ-साथ खुद को बड़े भाई की भूमिका में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंच पर देश के बड़े विपक्षी नेताओं के साथ हेमंत सोरेन के मौजूद होने के कई मायने निकाले जा रहे हैं।

इधर ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के तहत दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री क्रमशः अरविंद केजरीवाल और भागवत मान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने गुरुवार को रांची पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्र द्वारा अधिसूचना लाकर दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती करने के खिलाफ हेमंत सोरेन से मदद मांगना भी भरतीय राजनीति में बढ़ते कद का प्रतीक माना जा रहा है। इस संबंध में रजनीतिक विशलेषकों का कहना है कि हेमंत सोरेन राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। जिसका नतिजा 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।

ज्ञात हो कि कर्नाटक के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेस ने गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विशेष तौर पर न्यौता भेजा था। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए थे। यह बताने के लिए काफी है कि हेमंत सोरेन का राजनीतिक कद कितना बड़ा हो गया है। इसका इंडिकेशन 10 मई को ही मिल गया था, जब उनसे मिलने खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनके आवास आ पहुंचे थे। करीब एक घंटे की चर्चा के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि 2024 का चुनाव विपक्ष मिलकर लड़ेगा और परिणाम पूरा देश देखेगा। उस वक्त सीएम हेमंत ने भी खुलकर कह दिया था कि वह अभिभावक तुल्य नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करने को तैयार हैं। अब सवाल उठता कि क्या वाकई हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बना ली है या वे जरूरत का हिस्सा भर हैं। आखिर वह भाजपा विरोधी विपक्षी एकता में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, जबकि कई बार उनकी पार्टी खुद भाजपा के साथ झारखंड की सत्ता में रह चुकी है।

इस संबंध में झारखंड की राजनीति के जानकारों का मानना है कि हेमंत सोरेन का बेंगलुरू जाना नैतिकता का हिस्सा है, क्योंकि वह कांग्रेस के बूते झारखंड के सीएम बने हुए हैं। इसलिए इस आमंत्रण से यह आकलन करना कि हेमंत सोरेन का कद राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा हुआ है, यह मुनासिब नहीं लगता। रही बात नीतीश कुमार की उनसे मुलाकात की तो उन्हें लगता है कि इस मुलाकात के पीछे नीतीश कुमार की मंशा झारखंड में जदयू के लिए जगह तलाशने की थी। क्योंकि कुछ दिन पहले ही जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह भी आकर सीएम हेमंत से मिल चुके थे।

वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि हेमंत सोरेन ने अपनी राजनीतिक कुशलता से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर ली है। उनके पहल के बगैर झारखंड में विपक्षी एकता की कल्पना भी नहीं हो सकती क्योंकि यहां झामुमो का एक परंपरागत वोट बैंक हैं। आदिवासियों के बीच शिबू सोरेन की अलग पहचान है। हेमंत सोरेन राज्य के दूसरे ऐसे सीएम हैं जो रघुवर दास के बाद सबसे ज्यादा समय से सत्ता संभाले हुए हैं। वो भी कांग्रेस और राजद के सहयोग से।

राजनीतिक जानकारों का कहना झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। इनमें 12 पर एनडीए (11 पर भाजपा और एक पर आजसू) का कब्जा है। सिर्फ दो सीटें सत्तारूढ़ गठबंधन के पास है। इसलिए यह राज्य 2024 के चुनाव के लिहाज से बेहद मायने रखता है। इस स्थिति में भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों को हेमंत सोरेन को साथ लेकर चलना राजनीतिक मजबूरी भी है।

## जल संकट : मत्स्य विभाग परिसर में गर्मी से तालाब सूखा

तस्वीर : समीर

विश्व दुग्ध दिवस पर श्रीनगर में जुटे कई राज्यों के कृषि मंत्री

# झारखंड में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार करे मदद : बादल

**राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा- केंद्र झारखंड की भौगोलिक स्थिति के आधार पर सुविधा दे**



**खबर मन्त्र ब्यूरो**

**रांची।** विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर गुरुवार को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की अध्यक्षता में बैठक हुई। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल एवं विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे।

श्री बादल ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य तय करे। दुग्ध उत्पादन सहित अन्य योजनाओं के लिए और देश के विभिन्न राज्यों को भी वहां के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर एक लक्ष्य दे, जिससे हम बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति बहुत ही खराब है। बैंक सपोर्ट नहीं करते हैं, इसे लेकर केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए।

श्री बादल ने कहा कि झारखंड में प्रति व्यक्ति 200 ग्राम दुग्ध उत्पादन होता है, जो काफी कम है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कहा कि कि हमें केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार से झारखंड को अलग हुए दो दशक से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज तक सुधा डेयरी के तीन प्लांट का स्वामित्व झारखंड को नहीं मिला। बिहार के किसानों का दूध आज भी यहां के डेयरी प्लांट में आता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से दोनों राज्यों के बीच चल रहे इस मामले को सुलझाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि 2014 में हेमंत सोरेन की सरकार में एनडीडीवी से एमओयू किया था, जो 2024 तक है। मुख्यमंत्री पशुधन स्कीम के तहत हम 75 प्रतिशत से लेकर 90 फीसदी तक सब्सिडी अपने किसान भाइयों को देते हैं। हमारा राज्य आदिवासी बहुल राज्य है। हम लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने इस वर्ष दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 92 लाख लीटर रखा है।

मंत्री श्री बादल ने केंद्रीय मंत्री के सामने झारखंड सरकार के द्वारा 226 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने का मामले को भी रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र की टीम झारखंड के दौरे पर आई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, केंद्र सरकार सूखा राहत का पैसा देगी तो इससे लाखों पशुपालकों का कल्याण होगा। उन्होंने निवेदन किया कि आप इसे दिलाने में हमारी मदद करें। उन्होंने कहा कि एनडीडीवी, जो मिल्क प्राइस तय करती है, उसे मॉनिटर करने की आवश्यकता है। हमारे राज्य में ऐसी गायें हैं, जो 1 से 2 लीटर दूध देती है, बाहर से लाकर किसानों को हम गाय देते हैं, तो किसान उसके चारे की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, जबकि हम गाय के चारा में भी ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देते हैं। उन्होंने कहा कि दूध की कीमत स्थिर रहे इसके लिए भौगोलिक क्षेत्रफल को देखते हुए तकनीकी पहलू को शिथिल किया जाए, ऐसा करने से किसानों को ज्यादा लाभ होगा।

राज्य के कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे यहां पशुओं को होने वाली बीमारी के जांच के लिए डायग्नोसिस लैब तक नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से झारखंड में ऐसे लैब की स्थापना की मांग की। मॉडर्न 24/7 रेफरल अस्पताल खोलने में हमें हर प्रकार का सपोर्ट चाहिए। कार्यक्रम के दौरान कृषि निदेशक चंदन कुमार भी मौजूद थे।

## खबर एक नजर में

### नमो क्रिकेट कैंप का हुआ उद्घाटन



**रांची।** राजधानी में 10 दिवसीय नमो क्रिकेट कैंप का आयोजन किया गया है। कांके के बुकरू स्थित शारदा ग्लोबल स्कूल में गुरुवार को कैंप का उद्घाटन सांसद संजय सेठ और विधायक समरी लाल ने किया। सांसद ने कहा कि गर्मी छुट्टी में बच्चों के समय का सदुपयोग हो, इसी सोच के साथ कैंप का आयोजन किया गया है। कहा कि गांव के बच्चों को भी शहर जैसी सुविधा मिले इसके लिए आने वाले दिनों में गांवों में भी प्रशिक्षण कैंप लगाया जाएगा। नमो क्रिकेट कैंप के संयोजक संजय पोद्दार ने बताया कि कैंप का संचालन भूतपूर्व रणजी खिलाड़ी प्रदीप खन्ना के निर्देशन में हो रहा है।

### सीएमपीडीआइ में हैकथॉन का आयोजन आज

**रांची।** कोयला मंत्रालय के निदेर्शानुसार सीएमपीडीआई द्वारा लोडिंग उपकरण (शॉवेल/एक्सकेवेटर्स) की पेलोड मॉनिटरिंग और ऑपरेटर के केबिन में प्रदर्शन, खुली खानों में धूल के शमन का अनुकूलन, पायलट 5 जी एप्लिकेशन के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन और कोयला उद्योग के लिए उपयोग मामले, कोयला ग्रेड निगरानी प्रणाली के कुशल-दक्ष प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी एवं संरचनाओं में दरारों (क्रैक्श) के प्रसार पर विस्फोटन के प्रभाव का पता लगाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विषयों पर हैकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। इस हैकथॉन में भाग लेने के लिए भारत और विदेशों से संभावित स्टार्ट-अप, अनुसंधानिक संगठन एवं शैक्षणिक संस्थानों आदि को आमंत्रित किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रतिभागियों को कार्यक्रम से परिचित कराने के लिए आज दो जून को पूर्वाह्न 11 बजे से एक वेबिनार आयोजित किया गया है।

### सीसीएल में प्रतियोगिता का आयोजन

रांची। सीसीएल में पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जायेगा। इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्यालय में सीसीएल एवं इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस, रांची, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में ऑन स्पॉट चित्रकला, निबंध एवं स्लोगन लेखन तथा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान विषय पर दो सत्रों में आयोजित इस प्रतियोगिता के प्रथम सत्र में केवल सीसीएल में कार्यरत कर्मियों के लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया। इसमें तीन आयु वर्ग- प्रेप से कक्षा 2 तक, कक्षा 3 से कक्षा 7 एवं कक्षा 8 से कक्षा 12 के बच्चों ने पर्यावरण को समर्पित रचनात्मक चित्रकला प्रस्तुत किया। बच्चों को मिशन लाइफ पर एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया तथा शपथ दिलायी गयी। दूसरे सत्र में सीसीएल कर्मियों ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पुरस्कृत किया गया। इस अवसर विशेष पर प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभागाध्यक्ष (पर्यावरण) राज कुमार और संगीता उपस्थित थी। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 5 जून को सम्मानित किया जायेगा।

### आशा लकड़ा की माता के निधन पर शोक

**रांची।** प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री एवं रांची की निवर्तमान महापौर आशा लकड़ा की माता के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और कहा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति तथा सभी परिजनों को धैर्य और साहस प्रदान करें। नेता विधायक दल एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ईश्वर से माता जी की आत्मा को श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। इनके अलावा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री एवम सांसद आदित्य साहू, डॉ प्रदीप वर्मा, बालमुकुंद सहाय,सहित अन्य ने भी दिवंगत आत्मा की शांति केलिए ईश्वर से प्रार्थना की।

### भाजमो का 6 जून से समाधान यात्रा

**जनता की परेशानियों को दूर करने की पहल**

**रांची।** राजधानी रांची में जनता की परेशानियों को देखते हुए भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने समाधान यात्रा निकलने का निर्णय लिया है। मोर्चा यात्रा वार्ड पार्षदों से मिलकर समस्याओं को जानेगा। एक माह से शहर में जो नगर निगम की व्यवस्था थी, जो जनप्रतिनिधि पार्षद थे, उनकी सेवा समाप्त हो गई, नया चुनाव नहीं हो पाया है। ऐसी परिस्थिति में धीरे-धीरे पानी की समस्याएं सफाई की समस्याएं, जनता को परेशान कर रही है। जन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनतंत्र मोर्चा के कार्यकर्ता 6 जून से 1 माह तक 53 नगर निगम के वार्डो में दौरा करेंगे और जो निवर्तमान पार्षद हैं, उनसे मिलकर छोटी और बड़ी सभी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। जो जनता से ताल्लुक रखता है, और जनता की आवाज बनकर नगर निगम के पदाधिकारी से मिलेंगे और अन्य विभागों में जहां जनता का कार्य होता हो वहां मिलेगा समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार तक और विभागों तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे और जनता की परेशानियों को बताएंगे। बिजली की व्यवस्था चरमरा सी गई है प्रदेश में पानी की व्यवस्था का भी वही हाल है लोग भटक रहे हैं कानून दिन प्रतिदिन खराब हो रही है महिलाओ लड़कियों से चैन लूट, तो कहीं पर पर्स की लूट मनचलों से महिलाएं परेशान है। बरसात आने वाली है जलजमाव ना हो इसकी व्यवस्था सरकार को पहले करनी चाहिए नालियों की सफाई नालों की सफाई और बिजली विभाग भी अपने तारों को ठीक कर ले मरम्मत कर लें ताकि थोड़ी हवा में बिजली गुल ना हो जाए।

### मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले सेल के अध्यक्ष



**रांची।** मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी।

# लव जिहाद मामले की जांच करने मुंबई गयी रांची पुलिस

**खबर मन्त्र ब्यूरो**

**रांची।** रांची में स्थित यश मॉडलिंग कंपनी के संचालक तनवीर अख्तर खान पर एक मॉडल ने धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाये हैं। रांची पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मॉडल द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए रांची पुलिस की एक टीम गुरुवार को मुंबई पहुंची है। जानकारी के अनुसार मुंबई में रहने वाली मॉडल से पुछताछ के बाद मॉडल का बयान भी दर्ज करने का काम करेगी। संभवाना है कि बयान दर्ज करने के बाद रांची पुलिस शुक्रवार को रांची वापस लौट सकती है। गौरतलब है कि मूल रूप से बिहार के भागलपुर की रहने वाली मॉडल ने तनवीर अख्तर खान पर कई गंभीर आरोप लगाये हैं।

### मॉडल ने क्या लगाया है आरोप

मॉडल ने आरोप लगाया है कि तनवीर ने यश नाम बताकर उसे धोखा दिया। वह धर्म बदलकर शादी करना चाहता है। उसने मुंबई आकर जान लेने की कोशिश भी की। मानवी ने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया है। इसमें मानवी ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपना धर्म नहीं बदलूंगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मुझे इस हैवान से बचायें। कल को वो क्या करेगा, मुझे नहीं पता। मैं हिंदू हूं, कभी मुस्लिम से शादी नहीं करूंगी।

### गोंदा थाना में तनवीर खान पर मामला दर्ज

मुंबई के वसोर्वा थाने में दर्ज जीरो एफआईआर के आधार पर रांची के गोंदा थाना में बुधवार को तनवीर अख्तर खान पर धर्म परिवर्तन कराने और जबरन शादी का दबाव बनाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। जिसके बाद गोंदा पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मॉउल का बयान दर्ज करने के लिए गोंदा पुलिस की एक टीम गुरुवार को मुंबई पहुंचकर बयान लेने की प्रक्रिया में जुट गयी है। ज्ञात हो कि अपने एफआईआर में महिला मॉडल ने यह भी जिक्र किया है कि उसके पास कई ऐसे सबूत हैं, जो तनवीर के खिलाफ हैं। उन सारे सबूतों को भी रांची पुलिस इकट्ठा करेगी ताकि जांच में और सहयोग मिल सके।

## लव जिहाद के खिलाफ सड़क पर उतरे कई हिंदू संगठन, आरोपी तनवीर की गिरफ्तारी की मांग

**खबर मन्त्र ब्यूरो**

**रांची।** झारखंड में लव जिहाद की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विभिन्न हिन्दू संगठनों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया और प्लाजा सिनेमा के पास प्रदर्शन कर आरोपी तनवीर की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इस मौके पर हिन्दू संगठन से जुड़े भैरो सिंह ने कहा कि हिंदू समाज की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। नाम बदलकर उन्हें प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है। विरोध करने पर हत्या की जा रही है। उन्होंने दुमका की अंकिता हत्याकांड और 28 मई को दिल्ली में साक्षी की साहिल द्वारा बेरहमी की गई हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इतना होने के बावजूद हिन्दू समाज के लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। राज्य सरकार भी इस पर रोक लगाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

**जागरुक करने के बाद भी लव जिहाद में फंस जाती हैं लड़कियां**

प्लाजा सिनेमा के सामने प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि जागरूकता फैलाने के बाद भी हिंदू लड़कियां लव जिहाद में फंस जाती हैं। यह समाज की विफलता है। हम सभी समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। लड़कियों और महिलाओं को यह फिल्म दिखायी जा रही है, ताकि उन्हें जागरूक किया जा सके। बता दें कि मुंबई में रहने वाली एक मॉडल ने रांची स्थित यश मॉडलिंग के संचालक तनवीर अख्तर खान पर कई गंभीर आरोप लगाये हैं।

## गृहणी से उद्यमी बनीं रश्मि चौधरी

**खबर मन्त्र संवाददाता**

**रांची।** उद्यमिता का कोई अनुभव न होने के बाद भी रश्मि ने पति की असमय मौत के बाद उनका लॉजिस्टिक्स का व्यवसाय चलाने का फैसला किया। विलक्षण प्रतिभा की धनी दो बच्चों की अकेली मां रश्मि चौधरी अमेजन डिलीवरी सर्विस पार्टनर हैं। उन्होंने न केवल अपने स्वर्गीय पति के लॉजिस्टिक्स व्यवसाय को अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ाया, बल्कि अपने व्यवसाय में वृद्धि और विस्तार भी किया। रश्मि के पति को लॉजिस्टिक्स उद्योग में 18 साल से ज्यादा समय का अनुभव था और वो हमेशा अपने उद्यम को सफल बनाना चाहते थे। कोविड-19 के कारण उनकी मौत हो गयी। इसके बाद रश्मि अपने दो बच्चों के साथ अपने पति का व्यवसाय संभालने के लिए अकेली रह गयीं। उसने अपने सौ से ज्यादा कर्मचारियों और डिलीवरी एसोसिएट्स के परिवारों के बारे में भी सोचा, जो रोजी-रोटी के लिए स्वास्तिक एंटरप्राइज पर आश्रित थे।

## संयुक्त ट्रेड यूनियन ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

**खबर मन्त्र संवाददाता**

**रांची।** महिला कुश्ती खिलाड़ियों पर हुए पुलिस हमले और अयोध्या की छात्रा अनन्या की बलात्कार और हत्या के खिलाफ कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजभूषण की गिरफ़्तारी की मांग को लेकर गुरुवार को संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने अलबर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्षन में इंटक, सीटू, ऐक्टू, एटक एआईयूटीयूसी से जुडे मजदूर कर्मचारी महिलायें बड़ी संख्या में शामिल हुए।

एटक के प्रदेश महासचिव अशोक यादव ने कहा कि देश में भाजपा सरकार द्वारा बलात्कारियों को राजनितिक संरक्षण दिया जा रहा है। केंद्र सरकार को अब बताना होगा कि वे बेटियों के पक्ष में हैं या दुष्कर्मियों के पक्ष में।

ऐक्टू के प्रदेश महासचिव शुभेंदु सेन ने कहा कि भाजपा राज में दुष्कर्म की घटनाओं की बाढ़ आ गयी है। यह आरएसएस की दिशा में देश को चलाने की सरकार की नीतियों की देन है। कुश्ती खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलने तक आंदोलन जरी रहेगा।

सीटू नेता अनिर्बान बॉस ने कहा कि क्या महिला सम्मान और सशक्तिकरण ऐसे ही होगा।

विरोध प्रदर्शन को इंटर के सचिव संजीव सिन्हा, रेशमा खातून, एआईटीयूसी के मिंटू पासवान, बगाईचा के फॉदर टॉम, ऐक्टू के भुवनेश्वर केवट, सुदामा खलखो, भीम साहू, तारामणि साहू, इकबाल हसन, सीटू के एसके रॉय, नवीन चौधरी, बिना लिंडा, शान्ति सेन, बैंक फेडरेशन नेता अभिजीत मल्लिक, एटक से सुनील साह, अलोका कुजूर, अजय सिंह, इंटक के जॉन पॉल आदि मुख्य रुप से उपस्थित थे।

रांची विवि में सीयूइटी के जरिये ही होगा एडमिशन

# बिना एनटीए सीयूइटी स्कोर के रांची विश्वविद्यालय में नहीं होगा दाखिला

**सुधीर**

**रांची।** नयी शिक्षा नीति लागू होने के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों में बिना सीयूईटी स्कोर के दाखिला मुश्किल हो गया है। रांची विवि ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना एनटीए सीयूईटी स्कोर के उनके यहां दाखिला नहीं मिलेगा। वहीं डीएसपीएमयू और सिदो कान्हू जैसे विश्वविद्यालयों में सीयूईटी के साथ-साथ चांसलर पोर्टल से भी दाखिले लिये जायेंगे। बातचीत के क्रम में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत सीयूईटी के द्वारा ही स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन होगा। अगर इसके बाद राज्य सरकार का आदेश आता है, तो आगे का काम किया जाएगा। वैसे एक कमेटी गयी है, जो दाखिले की मोनेटरिंग करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार की सहमति के बाद चांसलर पोर्टल से भी दाखिले लिये जायेंगे।

### तीन से पांच गुना अधिक देना पड़ रहा आवेदन शुल्क

देश में नयी शिक्षा नीति लागू होने के बाद से झारखंड के अन्य विश्वविद्यालयों में भी सीयूईटी द्वारा ही नामांकन होना है। इससे गरीब परिवार के छात्रों की परेशानी बढ़ गयी है। सीयूईटी के लिए तीन से पांच गुना अधिक आवेदन शुल्क लग रहा है। साथ ही झारखंड से बाहर के केंद्र पर परीक्षा देनी पड़ रही है। छात्रों का कहना है कि पहले से उन्हें पता नहीं था। इस कारण एनटीए की ओर से आयोजित सीयूईटी में शामिल नहीं हो सके। अब, जब दाखिले की बारी अयी है तो एनटीए-सीयूईटी का स्कोर मांग जा रहा है।

### डीएसपीएमयू और सिदो कान्हू में सीयूइटी के बिना भी नामांकन होगा

नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों में सीयूईटी के जरिये स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन होना है। लेकिन सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय (एसकेएमयू), दुमका में बिना सीयूईटी के भी चांसलर पोर्टल से नामांकन हो पायेगा। एसकेएमयू के रजिस्ट्रार डॉ. एसके सिंह ने बताया कि जो छात्र सीयूईटी परीक्षा में नहीं बैठे है, वे चांसलर पोर्टल से नामांकन करवा सकते हैं। छात्र जब चांसलर पोर्टल से नामांकन के लिए आवेदन करेंगे, तब उन्हें ऑप्शन दिया जाएगा। जो छात्र सीयूईटी परीक्षा में बैठे हैं, वे सीयूईटी का अपना स्कोर डालेंगे। वहीं जो छात्र सीयूईटी में नहीं बैठे हैं, वे परीक्षा में प्राप्त अंक डालेंगे। नामांकन दोनों माध्यमों से होगा। वहीं, डीएसपीएमयू के वीसी डॉ टीके शांडिल्य का भी कहना है कि पहली बार एनटीए की ओर से सीयूईटी का आयोजन किया गया है। इसलिए इस बार बच्चों को सीयूईटी के स्कोर के अलावा चांसरलर पोर्टल से भी दाखिला लेने की छूटी दी गयी है।

## झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने सीएम से मिलकर जताया आभार

**राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली (भर्ती पद्धति) 2016 निरस्त किये जाने पर जतायी खुशी**

**खबर मन्त्र ब्यूरो**

**रांची।** झारखंड पुलिस एसोसिएशन का डेलिगेशन गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला और उनके प्रति आभार जताया। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली 2016 को निरस्त किये जाने के निर्णय का एसोसिएशन ने स्वागत किया है। मौके पर झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि कैबिनेट की बैठक में राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली 2016 निरस्त किए जाने के फैसले से तमाम पुलिसकर्मी काफी खुश हैं। इस निर्णय से 1200 पुलिस कर्मियों का प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश एवं पुरानी पेंशन की सौगात दी है, इस हेतु तहे दिल से पूरी पुलिस एसोसिएशन आपको धन्यवाद देती है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी 15 तारीख को आयोजित होने वाले पुलिस महाधिवेशन में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने पुलिसकर्मियों के कई समस्याओं का निराकरण करने का काम किया है। राज्य पुलिस कर्मियों की मांगों पर उचित निर्णय लेते हुए पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मियों के भी चेहरे पर मुस्कान हो यह हमारी सरकार की सोच है। आने वाले समय में भी राज्य हित एवं जनहित से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।

मौके पर झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, महामंत्री अक्षय राम, उपाध्यक्ष अखिलेश्वर पांडे, अरविंद यादव सहित बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस उपस्थित थे।

# दिव्यांगों में प्रतिभा की कमी नहीं, उनकी क्षमता को पहचानें और कार्य करने को प्रेरित करें : राज्यपाल

## सुनीता अग्रवाल की गणेश वंदना से हुई कार्यक्रम की शुरूआत, रतन लाल अग्रवाल ने बजाये शंख

**खबर मन्त्र ब्यूरो**

**रांची।** झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती। यह शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे है। वास्तव में कई दिव्यांग व्यक्तियों ने विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कौशल और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया है। दिव्यांगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमें उनमें निहित अद्वितीय क्षमताओं को पहचान कर उनके अनुरूप कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। राज्यपाल गुरुवार को रांची के श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति केंद्र के नये भवन का उद्घाटन के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सर्वप्रथम दिव्यांग शब्द के उपयोग का सुझाव दिया था। हम इस पहल के लिए प्रधानमंत्री के आभारी हैं। उन्होंने दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की है। हमारे प्रधानमंत्री दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं।

राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांगों ने रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए खेल से लेकर कला, शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक में अपनी क्षमता साबित की है। हमने पैरालंपिक में एथलीटों द्वारा उल्लेखनीय प्रदर्शन को देखा है। उनके दृढ़ संकल्प और अद्वितीय कौशल ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। साथ ही कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी दिव्यांगजनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पेंटिंग, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य या कविता के माध्यम से उनकी रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। राज्यपाल ने सहायता समिति के कार्यों की सराहना भी की। यहां बता दें कि कार्यक्रम की शुरूआत लायन सुनीता अग्रवाल की गणेश वंदना और रतन लाल अग्रवाल की शंख ध्वनि से हुई। मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार, रांची सांसद संजय सेठ, कांके विधायक समरी लाल, डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय के अलावे श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के कोर सदस्य रतन लाल अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद थे।

# झारखंड कला जतरा में डोकरा शिल्प प्रशिक्षण शिविर संपन्न

**खबर मन्त्र ब्यूरो**

**रांची।** संस्कृति कार्य निदेशालय पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार एवं कलाकृति आर्ट फाउंडेशन के द्वारा झारखण्ड कला जतरा-फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी के अंतर्गत तीन दिवसीय निशुल्क डोकरा कला शिल्प प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट्स डोरंडा के प्रांगण में किया गया था। इस कार्यशाला के संयोजक धनंजय कुमार ने बताया कि इस कार्यशाला मे झारखंड के विभिन्न जिलों से युवाओं को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला में प्रतिभागियों ने डोकरा शिल्प की बारीकियों को सिखा जैसे मिप्ती से मूर्ति बनाना, मोम के धागे से फिर उन मूर्तियों को सजाना और उसके उपरांत उसे पीतल में ढलाई करना। युवाओं को डोकरा कला के क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के सम्भावनाओं के बारे मे भी अवगत कराया। उन्होंने बताया की झारखण्ड कला जतरा पहली बार आयोजित की जा रही है, जिसमें डोकरा आर्ट, क्ले मॉडलिंग एंड कास्टिंग, मूर्तिकला, झारखंड की लोक चित्रकला सोहराय, राज्य स्तरीय चित्रकला शिविर चित्रकला एवं कला जतरा मेला का आयोजन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अजय, रजनी , हर्ष, आरती, रिचा , मनस्वी, शिखा, शीतल ने सहयोग किया।

## झारखंड में अधिकतम पारा फिर 42 डिग्री से. के पार पहुंचा

**खबर मन्त्र संवाददाता**

**रांची।** रांची समेत पूरे राज्य में गर्मी फिर सताने लगी है। तेज धूप और गर्म हवा से तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सात जून तक मौसम शुष्क बना रहेगा। गर्म हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। मॉनसून के आने तक राज्य के मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के सबसे अधिक उच्चतम तापमान 42.6 डिग्री से. गिरिडीह में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री से. बोकारो थर्मल में दर्ज किया गया।

## आर्टिस्ट काजल सिंह ने वृद्धा आश्रम में मनाया अपना जन्मदिन

**रांची।** मौर्य टेलिविजन आर्टिस्ट काजल सिंह ने अपना जन्मदिन वृद्धा आश्रम में सभी बुजुर्गों के साथ मनाया। इस अवसर पर बुजुर्गों ने काजल को उनके जन्मदिन पर बेहतर स्वास्थ्य और कामयाबी के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहने का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में सेक्रेटरी वृद्धा आश्रम एस एल गुप्ता तथा रूबी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। श्री गुप्ता ने काजल को आशीर्वाद तथा शुभकामनाएं दी। मौके पर काजल के साथ मुकेश नेहा तथा साबिर हुसैन व अलमा हसन आदि शामिल थीं।

# आरयू के एनएसएस स्वयंसेवकों ने निकाली पर्यावरण जागरुकता रैली

**खबर मन्त्र ब्यूरो**

**रांची।** रांची विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई के तत्वावधान में पर्यावरण जागरुकता पखवाड़ा अंतर्गत गुरुवार को मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यावरण जागरुकता कार्यक्रम हुआ। इसका आयोजन आरयू के बेसिक साइंस बिल्डिंग परिसर में किया गया। स्वयंसेवकों को कुलसचिव डॉ मुकुंद चंद्र मेहता ने मिशन लाइफ की शपथ दिलाई। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ अजीत कुमार सिन्हा ने एनएसएस को निर्देश देते हुए कहा कि पर्यावरण संकट एक वैश्विक समस्या है। इसके लिए सभी को आगे आना होगा। आरयू के कुलसचिव डॉ मुकुंद चंद्र मेहता ने कहा कि मिशन लाइफ का उद्देश्य आम लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाना है। हमें पर्यावरण को बचाने के लिए सामूहिक एवं सार्थक प्रयास करना होगा। आरयू के वोकेशनल कोर्सेज की उपनिदेशक डॉ स्मृति सिंह ने कहा कि पर्यावरण संकट से उबरने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। सिंगल प्रयोग प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव, साईकल, ई बाइक, ई कार जैसे परिवहन के स्थायी साधनों की जानकारी, पानी की बबार्दी के बारे में जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है।

# मेगा जन सुरक्षा एवं वित्तीय समावेशन से सशक्तिकरण शिविर का आयोजन

**खबर मन्त्र संवाददाता**

**रांची।** बैंक ऑफ इंडिया राँची अंचल द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति-झारखंड के तत्वावधान में ग्राम पंचायत सपारोम, नगड़ी राँची में मेगा जन सुरक्षा एवं वित्तीय समावेशन से सशक्तिकरण शिविर का आयोजन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रजनीश कर्नाटक की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। श्री मनोज कुमार, महाप्रबंधक, राष्ट्रीय बैंकिंग समूह-झारखंड ने बताया कि पूरे झारखंड राज्य के सभी 24 जिलों में आज 758 पंचायतो में मेगा जन सुरक्षा एवं वित्तीय समावेशन से सशक्तिकरण शिविर लगाया गया जिसमें 8348 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 12365 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 4557 अटल पेंशन योजना, 5734 प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए और 401 खातों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रखे जाएंगे।

श्री रजनीश कर्नाटक, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सभी ग्राहकों से अवाह्न किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल अपने तक सीमित न रखें और इसे गांव-गांव तक जन-जन तक पहुंचाएं। बैंक के हर योजना का भरपूर लाभ लें। मौके पर श्री सुबोध कुमार, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति-झारखंड और श्री संजीव कुमार सिंह, बैंक ऑफ इंडिया, राँची अंचल ने भी विचार रखा। कार्यक्रम का संचालन, संयोजन निखिलेश कुमार सिंह, अनुराग वर्मा, और राजेश यादव द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन नरेंद्र कुमार दास, उप आंचलिक प्रबंधक द्वारा किया गया। बताते चलें कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई थी। मौके पर माधुरी कुमारी, चंद्र देव, पास्कल होरो, स्नेहा कच्छप और बड़ी संख्या में आम लोग उपस्थित थे।

## जीवन में मानव सेवा के लिए ईश्वरीय बुलाहट को समझें : बिशप बास्के

**खबर मन्त्र संवाददाता**

**रांची।** एचपीडीसी सभागार चर्च रोड बहुबाजार में गुरुवार को संत बरनाबास हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज एवं संत बरनाबास स्कूल ऑफ नर्सिंग जीएनएम के फ्रेशर्स की लैंप लाईटिंग प्रोग्राम तथा ऑथ टेकिंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर सीएनआई छोटानागपुर डायोसिस के बिशप बी०बी० बास्के ने बतौर मुख्य अतिथि फ्रेशर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में मानव सेवा के लिए ईश्वरीय बुलाहट को समझने की आवश्यकता है। उसी बुलाहट में स्वयं से सवाल करें कि क्या आप चाहते हैं कि आप का कार्य विशेष मायने रखे। अपने कार्य या समर्पित सेवा से अपनी अलग पहचान बनाना चाहते है या फिर आप अपने जीवन व कार्य सेवा से दूसरों के लिए एक छाप छोड़ना चाहते हैं, तो पवित्र शास्त्र बाईबल के तीन अहम सिद्धांतो को जीवन में अपनाएं। जिसमें अपने कार्य को परमेश्वर की बुलाहट के रुप में देखें। कार्यों को बतौर ईश्वर की सेवा करें और दूसरों के लिए काम करें। साथ ही यह भी खास मायने रखता है कि आप के काम करने का तरीका क्या है। ईमानदारी से काम करते हुए परमेश्वर की महिमा करें ।

इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगो में उपाध्यक्ष रेव्ह सिकंदर नाग, डायसिस सचिव रेव्ह जोलजस कुजूर, सीडीईएएस सेक्रेटरी रेव्ह सामुएल भुईंयं, स्कूल इंस्पेक्टर रेव्ह डेविड, प्रोपर्टी मैनेजर रेव्ह सामुएल नाग व मेडिकल सुपरिटेन्डेंट डॉ. केनेथ सोय मुरूम शामिल थे।

# लोहरदगा में नदिया हिंदू उच्च विद्यालय का नाम बदलना दुर्भाग्यपूर्ण : पेरेंट्स एसोसिएशन

**खबर मन्त्र ब्यूरो**

**रांची।** झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने लोहरदगा में नदिया हिंदू उच्च विद्यालय का नाम बदले जाने के फैसले की निंदा की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एवं प्रवक्ता संजय सर्राफ ने कहा कि इस फैसले से सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ अभिभावकों एवं आम जनता में आक्रोश है। सरकार नदिया हिन्दू उच्च विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय की सूची में डालकर इसका नाम मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय करने जा रही है।

**मुख्यमंत्री से मिलेगा एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल**

अजय राय ने कहा है कि नदिया हिन्दू उच्च विद्यालय की स्थापना आजादी से पहले 1931 में की गई थी। स्कूल की स्थापना घनश्याम दास बिड़ला और स्थानीय लोगों ने मिलकर की थी। इस विद्यालय में स्थापना समय से ही हिंदू-मुस्लिम एवं सभी धर्मों के लोग एक साथ आपसी भाई-चारे के साथ पढ़ते हैं। तत्कालीन बिहार सरकार ने जब स्कूल का अधिग्रहण कर इसे सरकारी विद्यालय के रूप में मान्यता दी, तो नाम नहीं बदलने की शर्त पर ही विद्यालय को स्थानीय लोगों ने सरकार को सौंपा था। लेकिन अब हेमंत सरकार ने राज्य में 80 स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा दिया है। ऐसे में इन सभी स्कूलों का पुराना नाम हटाकर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय किया जाना है। यहां लोगों की मांग है कि इस स्कूल का नाम मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय नदिया की जगह नदिया हिन्दू मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय किया जाए। इस संबंध में झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं झारखंड शिक्षा सचिव से मिलेगा। विद्यालय का नाम नहीं बदलने का आग्रह करेगा।

# बहावलपुरी पंजाबी समाज की त्रिदिवसीय योग कार्यशाला शुरू

**खबर मन्त्र संवाददाता**

**रांची।** बहावलपुरी पंजाबी समाज एवं बहावलपुरी पंजाबी समाज महिला समिति की ओर से गुरुवार को 01 जून से 03 जून तक तीन दिवसीय योग कार्यशाला की शुरूआत कृष्णा नगर कॉलोनी स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर के हॉल में की गयी। इस कार्यशाला में हार्ट फुलनेस इंस्टिट्यूट के प्रशिक्षित योग साधकों में मनोज तिवारी, मुकेश तनेजा, दीपांकर एवं सुनंदा चौहान द्वारा योगा का अभ्यास कराया गया। आज के योग शिविर में डॉ सतीश मिढ़ा, ललित किंगर, कवलजीत मिढ़ा, अशोक काठपाल, मोहन खीरबाट, सुरजीत मुंजाल, उमंग मनूजा, राज काठपाल, बिमला किंगर, कमलेश मिढ़ा, रवि नागपाल, ज्योति मिढ़ा, ऋचा मिढ़ा, किरण गेरा, मीना गिरधर, अंजना गिरधर,सिम्पल वाधवा समेत अन्य शामिल हुए। शिविर के संचालन में हार्ट फुलनेस इंस्टीट्यूट के अनूप चौहान, ब्रदर पी.सी चौहान, ब्रदर विनय साहू तथा सिस्टर उज्ज्वल ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई।

## बीआईटी लालपुर के नए भवन में लिफ्ट का हुआ उद्घाटन

**रांची।** बीआईटी मेसरा, लालपुर सेंटर के नवनिर्मित भवन में गुरुवार को लिफ्ट का उद्घाटन डायरेक्टर डॉ. वंदना भट्टाचार्य ने किया। उन्होंने कहा कि बीआईटी पढ़ाई के साथ-साथ आधारभूत संरचना व सुविधाओं पर भी पूरा ध्यान रखता है। निर्माण विभाग के संयोजक डॉ प्रदीप मुंडा ने बताया कि छात्र-छात्राओं की बेहतर सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था के लिए बीआईटी प्रबंधन लगातार अग्रसर है। मौके पर संजय , श्राबुनि मुखोपाध्याय, शांतनु, मनोज कुमार, अजय , सुनील, दिनेश महतो मौजूद थे।

## मेडिका के नौवें वर्षगांठ पर पौधरोपण का आयोजन

**रांची।** भगवान महावीर मेडिका सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल की नवीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इसके तहत मंगलवार को पौधरोपण किया गया। पौधरोपण खिजुर टोला बड़गांई स्थित आरटीसी कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ विजय मिश्रा ने कहा कि जीवन के लिए पेड़-पौधों का होना जरूरी है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन के लिए 10 पौधा लगाना ही चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिये यह बेहद जरूरी है। उन्होंने पौधों के संरक्षण पर भी बल दिया। न्यूरो साइंसेज विंग के निदेशक डॉ गणेश झा ने कहा कि आने वाले समय मे जल व वातावरण की समस्या होने वाली है। इस समस्या से बचने के लिए पौधरोपण ही एकमात्र सहारा है। एवीपी अनिल कुमार ने कहा कि 50 से अधिक पौधों को लगाया गया।

## रांची यूथ फेलोशिप के वीबीएस के छठे दिन का कार्यक्रम संपन्न

**रांची।** जीईएल चर्च रांची हेडक्वार्टर कांग्रिगेशन के यूथ विंग रांची यूथ फेलोशिप के तत्वावधान में बेथेसदा गर्ल्स हाई स्कूल के सभागार में 27 मई से 04 जून तक आयोजित अवकाशकालीन बाईबल पाठशाला( वीबीएस) का छठा दिन गुरुवार को संपन्न हुआ। वीबीएस के छठे दिन इसमें कुल 700 बच्चों की उपस्थिथि और भागीदारी रही। जिसमें बच्चों को शिक्षित करने तथा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनमें छुपी प्रतिभाओं को निखारने के लिए शिक्षक व कमिटी को मिलाकर कुल 120 से अधिक युवक युवतियां शामिल थे। पाठशाला के छठे दिन आज गेम के बहुत सारे इवेंट हुए। जिसमें सभी बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। जिसमें टॉफी रेस, बैलून रेस, चम्मच रेस, म्यूजिकल चेयर आदि शामिल थे।

## राजकुमार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत होने पर समाज ने दी बधाई

**रांची।** झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष एवं विभिन्न संस्थाओं में सफलतापूर्वक जिम्मेवारीयां निभा चुके समाजसेवी राजकुमार केडिया को अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन, रांची जिला मारवाड़ी सम्मेलन, अग्रवाल सभा एवं मारवाड़ी सहायक समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाईया व शुभकामनाएं दी है।

## रांची के 64 उर्दू शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति, वरीयता सूची जारी

**खबर मन्त्र ब्यूरो**

**रांची।** जिले में कार्यरत 64 उर्दू शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी। इसको लेकर रांची जिला शिक्षा अधीक्षक ने वरीयता सूची जारी की है। बताते चलें कि शिक्षकों की नियुक्ति तिथि, विद्यालय में योगदान देने की तिथि और लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त शिक्षकों के मेधा क्रमांक के आधार पर 64 उर्दू शिक्षकों की वरीयता सूची बनायी गयी है।

**प्रोन्नति और अन्य समस्याओं को लेकर विभागीय समिति का हुआ था गठन**

बताते चलें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसी साल फरवरी में प्राथमिक शिक्षकों के हितों को लेकर आदेश जारी किये थे। इसके बाद आठ फरवरी को रांची व अन्य जिलों में प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियां की जांच व आवश्यक सुझाव देने के लिए विभागीय समिति का गठन किया गया था। विभाग ने गठित विभागीय समिति से प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित विभिन्न समस्याओं की रिपोर्ट मांगी थी।

**राज्य में 4,401 पद स्वीकृत, कार्यरत केवल 702**

मालूम हो कि झारखंड में उर्दू शिक्षक के 4,401 पद स्वीकृत हैं, लेकिन केवल 702 पदों पर ही उर्दू शिक्षक कार्यरत हैं। अभी भी 3699 पद रिक्त पड़े हैं। योग्य शिक्षक नहीं मिलने के कारण उर्दू शिक्षक के इतने अधिक पद खाली रह गये थे। आजतक इन रिक्त पदों पर नियुक्ति ही नहीं हुई है।

# वार्ड 7 के गाड़ीगांव, पाहन टोली में अर्बन हेल्थ सेंटर शुरू

## रांची नगर निगम प्रशासक शशि रंजन ने 5 अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का किया उद्घाटन

**खबर मन्त्र संवाददाता**

**रांची।** 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में रांची नगर निगम के 24 जगहों पर अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का संचालन किया जाना है। इस क्रम में रांची नगर निगम के प्रशासक शशि रंजन ने वार्ड 7 के गाड़ीगांव पाहन टोली में अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। निगम के प्रशासक ने कहा कि रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कुल पांच अर्बन एवं वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है एवं जल्द ही शेष 19 अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि नगर निगम के अंतर्गत अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का संचालन कुल 24 स्थलों पर किया जाना है। आम नागरिक यहां सामान्य बिमारियों के इलाज लिए आ सकते हैं। इन सभी केन्द्रों पर सारी स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि रांची नगर निगम क्षेत्र में रिम्स एवं सदर अस्पताल में शहर के आम लोगों के अलावा भी अलग-अलग जिलों से इलाज के लिए आते हैं एवं ऐसी परिस्थिति में प्रायः यह देखा जाता है कि उक्त अस्पतालो में भीड़ हो जाती है लेकिन शहर में ऐसे केंद्र खुल जाने के बाद अपने ही वार्ड में आम नागरिक सामान्य रोग का इलाज करा पाएंगे और इससे रांची नगर निगम का उद्देश्य पूरा होगा। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि अपने आस-पड़ोस के लोगों को इस केन्द्र के बारे बताएं ताकि लोग यहां आकर अपना इलाज करा सकें।

मौके पर उप प्रशासक रजनीश कुमार, सहायक प्रशासक ज्योति कुमार सिंह, सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉ किरण कुमारी, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ विनोद कुमार एवं डीआरसीएचओ असीम कुमार मांझी एवं रांची नगर निगम रांची के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

### अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में ये सुविधाएं होंगी

- गर्भावस्था और बच्चे के जन्म से पूर्व व जन्म के बाद देखभाल।
- नवजात और शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवा।
- बालपन और किशोर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।
- परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक सेवाएं व अन्य प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों सहित संचारी रोगों का प्रबंधन, गैर संचारी रोगों की जांच रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन।
- नेत्र संबंधी और ईएनटी समस्याओं की देखभाल।
- बनियादी मौखिक स्वास्थ्य देखभाल, बुजुर्ग और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।
- आपातकालीन चिकित्सा सेवा तथा मानसिक स्वास्थ्य रोगों की जांच।

स्पीड न्यूज

## नागपुरी शोध संस्थान में पांच पुस्तकों का होगा लोकार्पण

**पिठोरिया।** नागपुरी संस्थान शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र पिठोरिया में आगामी चार जून को सुजीत कुमार केशरी की पांच पुस्तकें कहानी पिठोरिया की, ऐतिहासिक गांव सुतियांबेगढ़, सब कुछ लुटा तो लुटाना सीखा, अब टूटे तारों से कौन करेगा प्यार चारों झारखंड झरोखा रांची से प्रकाशित व भारतीय संस्कृति में अंक का महत्व नागपुरी संस्थान पिठोरिया द्वारा प्रकाशित का लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉ उमेशनंद तिवारी और डॉ हरीश कुमार चौरसिया उपस्थित रहेंगे।

## नामकुमः फार्मेसी के 13 परीक्षार्थियों को जेल

**नामकुम।** राजाउलातु के वाईबीएन यूनिवर्सिटी में वुधवार की शाम उग्र परीक्षार्थियों द्वारा हंगामा, तोड़फोड़ एवं पत्थरबाजी करने के मामले में पुलिस ने 13 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है। थानेदार ने बताया कि बुधवार शाम 12 परीक्षार्थियों को हिरासत में लिया गया था। वहीं गुरुवार को एक अन्य को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को कोविड जांच कराकर गुरुवार को जेल भेज दिया गया। गुरुवार को वाईबीएन यूनिर्वसिटी के परीक्षा केंद्र एवं आसपास में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनात किया गया था। गुरुवार को भी परीक्षार्थियों नें परीक्षा देकर निकलने के दौरान भवन के शीशो तोड़ डाले।

# रातू अंचल में धड़ल्ले से बिक रही भूदान की जमीन

### गैर कानूनी है जमीन की खरीद-फरोख्त, संदिग्ध है अंचल की भूमिका

शेख मुजिबुल

**रातू।** अंचल में जमीन माफिया हावी हैं। इसमें सफेदपोश के अलावा सरकारी सेवक भी संलिप्त हैं। वह विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों से मिलकर गैर मजरुआ तथा भूदान जमीन की धड़ल्ले से खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। अंचल कार्यालय की भूमिका संदिग्ध बतायी जा रही है। राजस्व कर्मचारियों की तो बल्ले-बल्ले है। भूदान जमीन की खरीद-बिक्री गैर कानूनी है, जिसका उल्लेख दान पत्र में है, किंतु नियमों की अनदेखी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की चाभी है। उनकी नाक के नीचे सरकारी और भूदान की जमीन की खरीद-बिक्री दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले की गंभीरता को देखते हुये सीओ से रिपोर्ट मांगी जायेगी। आनाकानी करने की स्थिति में सूचना के अधिकार का सहारा लिया जायेगा। इससे परत- दर-परत खामियां सामने आयेंगी। कई लोगों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जमीन में रुपये लगाने वालों को पछतावा ही हाथ लगेगा।

### बिक्री के लिये कौन दोषी

गैर मजरुआ और भूदान जमीन की खरीद-बिक्री के लिये कौन जिम्मेवार हैं। अगर रैयत दोषी है, तो अंचल कार्यालय की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। माफिया, कर्मचारी और सीओ से मिलकर सारा खेल कर रहे हैं। सवाल यह है कि सीओ के रहते भूदान की जमीन कैसे बेची जा सकती है।

### कैसे हो रहा है दाखिल-खारिज

अंचल में मूल रैयतों के पास बिक्री के लिये जमीन बची नहीं है। अगर बची भी है तो जरूरत के हिसाब से वह बेच रहे हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि गैर मजरुआ और भूदान की जमीन किन नियमों के तहत बेची और खरीदी जा रही है। सीओ दाखिल-खारिज कैसे कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि पंजी-टू में छेड़छाड़ किया जा रहा है। इस छेड़छाड़ से जमीन खरीदने-बेचने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

## पिर्रा में नकद समेत जेवरात की चोरी

**रातू।** थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थम नहीं रही है। इससे न केवल आम नागरिक भयभीत हैं, बल्कि पुलिस की नींद भी उड़ गयी है। मंगलवार की रात अपराधियों ने पिर्रा भवानी नगर स्थित वैष्णवी मंदिर के समीप रहने वाले विजय पाठक के बंद घर को निशाना बनाया। दीवान में रखे 55 हजार नकद समेत लाखों के जेवरात लेकर रफू-चक्कर हो गये। पुलिस ने घटनास्थल का कॉल डंप कराया। फिंगर प्रिंट दस्ते की मदद ली गयी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रेमा कुमारी के बयान पर रातू थाने में केस दर्ज हुआ है।


**प्ररूप संख्या आईएनसी-26**

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार, (क्षेत्रीय निदेशक), पूर्वी क्षेत्र कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कोलकाता के समक्ष,

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

**ऐशलेशा कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

(CIN: U27102JH2005PLC011699)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: मैसर्स होटल लि लैक (ऐशलेशा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इकाई) चक्रधरी प्लॉट नं. 1736, वार्ड नं. 01, लाइन टैंक रोड, रांची, झारखंड–834001 में है, के मामले में

....याचिकाकर्त्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "झारखंड राज्य" से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" में स्थानांतरित करने के लिए 20 मार्च, 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, निजाम पैलेस, II एमएसओ बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, 234/4, एजेसी बोस रोड, कोलकाता पश्चिम बंगाल–700020 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

मैसर्स होटल लि लैक (ऐशलेशा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इकाई) चक्रधरी प्लॉट नं. 1736, वार्ड नं. 01, लाइन टैंक रोड, रांची, झारखंड–834001

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

**ऐशलेशा कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

हस्ता/–

नारायण महतो (निदेशक)

डीआईएन : 06795423

पता: पुत्र सुकुल महतो, खोरहा टोली महतो कोचा, पीओ जी.पी.ओ. पीएस. सदर, कोकर, रांची, झारखंड–834001

दिनांक : 02.06.2023

स्थान : रांची



**दक्षिण पूर्व रेलवे - निविदा**

निविदा सूचना संख्या: डीआरएमईएनजीजी आरएनसी-37-42-2023, दिनांक: 31.05.2023। भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से मंडल रेल प्रबंधक/अभियांत्रिकी, दक्षिण पूर्व रेलवे, रांची-834003 द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। क्रम संख्या: 1। सूचना संख्या: डीआरएम ईएनजीजीआरएनसी-37-2023। कार्य का नाम: सैटेलाइट डिपो, हटिया में ट्रैक मशीन रखरखाव डिपो के लिए एक स्टैबलिंग लाइन का प्रावधान। निविदा मूल्य: ₹ 43,54,903.20। बयाना राशि: ₹ 87,100। क्रम संख्या: 2। सूचना संख्या: डीआरएमईएनजीजी आरएनसी-38-2023। कार्य का नाम: एडीईएन/आरएनसी के न्यायक्षेत्र के अधीन मूरी यार्ड, रांची सेटलमेंट तथा हटिया सेटलमेंट को छोड़कर किमी. 428/12 से हटिया एवं रांची यार्ड सहित हटिया से मूरी खंड के लिए 01.07.2023 से 30.06.2025 तक की अवधि के दौरान जोनल कार्य। निविदा मूल्य: ₹ 1,27,55,584.64। बयाना राशि: ₹ 2,13,800। क्रम संख्या: 3। सूचना संख्या: डीआरएमईएनजीजी आरएनसी-39-2023। कार्य का नाम: एडीईएन/आरएनसी के न्यायक्षेत्र के अधीन रांची यार्ड एवं सेटलमेंट को छोड़कर आरएनसी-एलएडी-बीआईसीआई-टीओआरआई खंड के लिए 01.07.2023 से 30.06.2025 तक की अवधि के दौरान जोनल कार्य। निविदा मूल्य: ₹ 1,26,25,126.20। बयाना राशि: ₹ 2,13,100। क्रम संख्या: 4। सूचना संख्या: डीआरएमईएनजीजीआरएनसी-40-2023। कार्य का नाम: एडीईएन/मूरी के न्यायक्षेत्र के अधीन मूरी यार्ड एवं सेटलमेंट को छोड़कर बरकाकाना (छोड़कर) से कोटशिला (छोड़कर) खंड के लिए 01.07.2023 से 30.06.2025 तक की अवधि के दौरान जोनल कार्य। निविदा मूल्य: ₹ 1,69,30,006.50। बयाना राशि: ₹ 2,34,700। क्रम संख्या: 5। सूचना संख्या: डीआरएमईएनजीजीआरएनसी-41-2023। कार्य का नाम: एडीईएन/मूरी के न्यायक्षेत्र के अधीन मूरी यार्ड एवं सेटलमेंट खंड के लिए 01.07.2023 से 30.06.2025 तक की अवधि के दौरान जोनल कार्य। निविदा मूल्य: ₹ 2,33,15,192.60। बयाना राशि: ₹ 2,66,600। क्रम संख्या: 6। सूचना संख्या: डीआरएमईएनजीजीआरएनसी-42-2023। कार्य का नाम: एडीईएन/मूरी के न्यायक्षेत्र के अधीन मूरी से चाण्डिल (छोड़कर) (मूरी यार्ड एवं सेटलमेंट को छोड़कर) खंड के लिए 01.07.2023 से 30.06.2025 तक की अवधि के दौरान जोनल कार्य। निविदा मूल्य: ₹ 1,09,35,211.22। बयाना राशि: ₹ 2,04,700। निविदा बंद होने की तारीख और समय: 22.06.2023 को अपराह्न 3:00 बजे (क्रम संख्या 1 से 6 प्रत्येक के लिए)। ऑनलाइन निविदा के लिए निविदादाता वेबसाइट www.ireps.gov.in देख सकते हैं। (PR-238)


# तालाब से किसानों को मछली, बत्तख पालन और सिंचाई में होंगी सहुलियत

### निधि खरे ने सेमरा गांव में तालाब का किया निरीक्षण

खबर मन्त्र संवाददाता

**इटकी।** गुरुवार को उपभोक्ता व संरक्षण मामले के केंद्रीय सचिव निधि खरे ने अमृत सरोवर योजना के तहत इटकी प्रखंड के सेमरा गांव स्थित तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने तालाब परिसर में पौधरोपण भी किया। मौके पर ग्रामीणों से संवाद करते हुए सचिव ने तालाब के उपयोग और इसके फायदे की जानकारी ली। पानी पंचायत के सदस्य हेमंत लकड़ा, भास्कर तिर्की, नीलिमा तिर्की, रीता कुजुर व विराज कुजुर ने तालाब में मछली पालन, बत्तख पालन और खेतों की सिंचाई और इससे होने वाले फायदे की विस्तार से जानकारी दी। मौके पर निधि खरे ने ग्रामीणों को जल संचय व जल संरक्षण की शपथ दिलायी। इसके बाद अधिकारियों ने गांव के एक किसान सुनील तिर्की के बिरसा हरित आम बागवानी का भी अवलोकन किया और पौधरोपण किया। इससे पूर्व अतिथियों का पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।

### निरीक्षण में थे शामिल

दौरे में उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव, वैज्ञानिक सुधांशु कुमार मोहंती, बीडीओ गौतम प्रसाद साहू, सीओ रश्मि लकड़ा, उप प्रमुख परवेज आलम, मुखिया रमेश महली, भूमि संरक्षण अभियंता आलोक कुमार, बीटीएम सुमन बारला, बीपीओ संजय कुमार सिंह, जेएसएलपीएस की बीपीएम सुजाता सोनी, रीतेश कुमार, मेरी प्रतिभा टुडू, मजाज अहमद, शैम्पू प्रसाद, राजन किस्पोट्टा सहित अन्य शामिल थे।

# विधायक ने समस्याओं के निष्पादन का कराया करार

### जनता दरबार

खबर मन्त्र संवाददाता

**अनगड़ा।** विधायक राजेश कच्छप ने प्रखंड सभागार में जनता दरबार लगा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों से जनता की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने का अधिकारियों से करार करवाए। इस दौरान समस्याओं का विधायक ने जनता की समस्याओं के प्रति गम्भीर मुद्रा में दिखे। विधायक ने जनता दरबार में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग कर एक दिन का वेतन काटने का भी निर्देश दिया। विधायक ने भू राजस्व, पेयजल, विधुत विभाग, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि से जुड़े जनता की समस्याओं से रू-ब-रू हुए। अंचल अधिकारी और अंचल कर्मियों से रैयतों के ऑन लाईन में खाता खेसरा एवं नाम में की गई गड़बड़ी को रैयतों को बिना परेशान किए तत्काल सुधार करने का निर्देश दिया। विधायक ने कहा कि बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जो अपनी जमीन का ऑन लाईन खाता प्लॉट में सुधार करवाने में असफल होकर थक हार जाने के बाद बिचौलिए अथवा जमीन दलालों के पास औने-पौने दाम में बिक्री के लिए मजबूर हो जाते हैं। सीओ पुष्पक रजक ने राजस्व कर्मचारियों को प्रत्येक बुधवार को पंचायत में बैठने तथा रैयतों से मिलकर उनकी भूमि संबंधी ऑन लाईन गड़बड़ी का निराकरण करने का निर्देश दिया। हेसल मुखिया ने खेल मैदान पर रेंजर द्वारा बाधा उत्पन्न करने का मामला उठाया।

# शराब मानव के समग्र विकास में बाधक: सुबोध लकड़ा

### महिलाओं ने शराबबंदी अभियान को सफल बनाने का लिया संकल्प

खबर मन्त्र संवाददाता

**बेड़ो।** बेड़ो प्रखंड के नहरटोली गांव में गुरुवार को 10 पड़हा के बैनर तले पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 10 पड़हा अध्यक्ष सुबोध लकड़ा की अध्यक्षता में पड़हा समाज की बैठक हुई। इसमें पड़हा समाज की सहमति और आह्वान पर महिलाओं ने जनहित में चलाए जा रहे शराब बंदी अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। बैठक में सर्वसम्मति से पड़हा समाज के लोगों के व्यापक कल्याण, उत्थान और प्रगति के लिए शराबबंदी का निर्णय लिया गया। नहरटोली गांव में शराब बनाने और बेचने पर पाबंदी लगाई गई। साथ ही यहां शराब बनाते और बेचते हुए पकड़े जाने पर सामाजिक दंड के रूप में पांच हजार की राशि निर्धारित की गई। इसका उल्लंघन करने पर जूर्माना की अतिरिक्त राशि बढ़ाने पर बल दिया गया। इस दौरान गांव के चौराहे पर सामूहिक रूप से एक बोर्ड लगाया गया। मौके पर 10 पड़हा अध्यक्ष सुबोध लकड़ा ने कहा कि पड़हा समाज की सहमति से जनहित में शराब बंदी अभियान को सफल बनाने का बीड़ा महिलाओं ने उठाया है। शराब मानव समाज के समग्र विकास में बाधक रहा है। यह मानव समाज के तन-मन और धन को निचोड़कर जीवन को तबाह कर रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की।स

**झारखण्ड सरकार**

**श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग**

**अवर प्रादेशिक नियोजनालय, हजारीबाग**

दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला – 2023

दिनांक :– 03.06.2023, स्थान :– अवर प्रादेशिक नियोजनालय, हजारीबाग

अवर प्रादेशिक नियोजनालय, हजारीबाग द्वारा दिनांक 03.06.2023 को अवर प्रादेशिक नियोजनालय, आई० टी० आई० परिसर, सिन्दूर हजारीबाग में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेला में निजी क्षेत्र के निम्नलिखित प्रतिष्ठानों ने उपस्थित रहने की सहमति प्रदान की है –

| Count er No | Name and Address of the Employer | Name of the Post | No of Vacancy | Qualification | Experience | Salary | Age (Min – Max) | Job Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIC of India, Hazaribagh | RCA ( Rural Career Agent) | 50 | 10 th, 12th | ---- | 5000 + Commission + Reward | 18 + | |
| 2 | Jay Bharat Maruti Automotive Ahemdabad | Welders & Fitters | 210 | 10th, ITI | ---- | 17200 Overtime 50rs Par hours | 18 - 35 | |
| | | Electrician | | 10th , 12th. ITI | ---- | 17000 Overtime 50rs Par hours | 18 - 35 | |
| | | Machine Operator | | 10th , 12th. ITI | ---- | | 18 - 35 | |
| 3 | Bajaj Allianz life Hazaribagh | Insurance Manager | 8 | Graduate | ---- | 84000 + incentive | 18 - 35 | |
| | | Assistant Sales officer | 5 | Graduate | ---- | 84000 + incentive | 18 - 35 | |
| | | Sales Manager | 5 | Graduate | ---- | 1.8 lakh to 5 lakh | 18 - 35 | |
| 4 | National Protective Security Services Jamshedpur | Security Guard | | Non Matric or Above | ---- | 10000-16000 | 18-45 | |
| | | Supervisor | | Graduate | 3 Years | 12000-18000 | 25-40 | |
| | | Gunman | | Non Matric or Above | Veiled Licence | 15000 | 20-40 | |
| | | Operator and Helper | | Non Matric | Cooking Experience for 30-40 People | 8000-10000 | 20-40 | |
| | | Office staff | | BA Computer | ---- | 10000-16000 | 18+ | |
| 5 | Auto Parts Manufacturing Company Chennai | Welder CO2 | 50 | 8th, 10th, 12th, ITI, Diploma | ---- | 22000 | 18 - 35 | |
| 6 | Kshitiz Hospital & Research Centre Hazaribagh | Nursing Staff | 02 | ANM / GNM | 1 Years | 9000 | 22 | Hazaribagh |
| | | X- Ray Technician | 01 | X- Ray Technician | 1 Years | 15000 | 25 | Hazaribagh |
| 7 | Bull Fighter Security Services | Security Guard | 02 | Yes | 1 years | 10956 | 55 | |
| | | Cook | 02 | Yes | 2 Years | 12000 | 50 | |
| 8 | BESTS JOB | Security Guard | 125 | 10th, 12th | ---- | 21000 | | Hazaribagh |
| | | HR Manager | | | ---- | 3.5 th 5 LPA | | hazaribagh |
| | | Female Guard | | | ---- | 10000 | | Hazaribagh |
| 9 | AVI Enterprises Contractor & Placement Service Saraikela Kharsawan Jharkhand | Quality Control | 10 | CIPET | 1 years | 20000-30000 | 25-35 | Jamshedpur |
| | | Molding Helper | 50 | MATRIC PASS | 1 years | 12000-15000 | 20-35 | Jamshedpur |
| | | Molding Operator | 50 | INTER PASS | 1 years | 13000-18000 | 20-35 | Jamshedpur |
| | | Welding Mistree | 20 | MATRIC PASS | 1 years | 12000-15000 | 20-35 | Jamshedpur |
| | | Marketing Officer | 5 | BBM | 3 years | 15000-25000 | 20-35 | Jamshedpur |
| | | Office Receptionist | 5 | BCA | 1 years | 10000-15000 | 22-35 | Jamshedpur |
| | | Sweeper | 50 | 8TH PASS | NA | 10000-15000 | 20-35 | Jamshedpur |
| | | Security Guard | 50 | NON MATRIC AND ABOVE | NA | 10000-15000 | 19-40 | Jamshedpur |
| | | Driver | 20 | MATRIC PASS | 3 years | 10000-15000 | 20-40 | Jamshedpur |
| | | Cook | 20 | 8TH PASS | 2 years | 8000-10000 | 20-40 | Jamshedpur |
| | | Paver Block Operator | 20 | 8TH PASS | 2 years | 13000-20000 | 20-40 | Jamshedpur |
| 10 | L&T CSTI Sarampore Kolkata West Bengal | Assit. Shuttering Carpenter | 1000 | 5th | ---- | 13125 | 18-32 | |
| | | Asst. Bar Bender & Steel Fixing | 1000 | 5th | ---- | 13125 | 18-32 | |
| | | Asst. Scaffolder | 1000 | 5th | ---- | 13125 | 18-32 | |
| | | Fitter | 500 | ITI | ---- | 13125 | 18-32 | |
| 11 | TK Construction & Services Pvt.Lltd Jamshedpur | Filed Executive | 24 | Graduate | ---- | 10000-12000 | 18-45 | Hazaribagh |
| | | Helper | 100 | Non Matric | ---- | 12000 | 18-45 | |
| | | Trainee Operator | 15 | ITI | ---- | 11000 | 18-28 | Vishakhapatnam |
| | | Technician | 15 | Diploma | ---- | 11500 | 18-28 | jasshedpur |
| | | Mason / Carpenter | 100 | Non Matric | 6 month | 20000 | 20-45 | Vishakhapatnam |
| | | Bar Bendar | 100 | Non Matric | 6 month | 20000 | 20-45 | Vishakhapatnam |
| | | Telecaller | 5 | Graduate | 1 Year | 6000-10000 | 20-30 | Hazaribagh |
| | | Placement coordinator | 2 | MBA | 6 month | 10000-15000 | 20-28 | |
| | | Field supervisor | 5 | Graduate | 1 Year | 15000 | 25-45 | |
| | | Development officer | 30 | Graduate / MBA | 6 month | 15000-20000 | 18-45 | Hazaribagh |
| | | Office Asst | 1 | Graduate | 1 Year | 8000 | 20-30 | |
| | | Computer Operator | 5 | Graduate | 1 Year | 10000-15000 | 20-45 | Hazaribagh |
| | | Data Entry Operator | 10 | Inter | 1 Year | 6000-10000 | 20-40 | Hazaribagh |
| | | Accountant | 2 | B.Com | 1 Year | 10000-15000 | 20-40 | Jamshedpur |
| | | Graphics Designer | 2 | Inter | 1 Year | 8000-12000 | 20-40 | Jamshedpur |

योग्य एवं इच्छुक आवेदक जो पूर्व से नियोजनालय में निबंधित नहीं हैं। वे अपने निकटतम नियोजनालय में अथवा www. Rojgar.jh2arkhand.gov.in पर अपना निबंधन कराते हुए रोजगार मेला में नियोजक / नियोजक प्रतिनिधि के समक्ष अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों, निबंधन कार्ड, बायोडाटा (02 प्रतियों में) एवं आवासीय प्रमाण पत्र (अनिवार्य रूप से) के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं। साथ ही COVID-19 हेतु निर्गत निर्देशों यथा मास्क सेनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है। साक्षात्कार सुबह 10.00 बजे से संध्या 04.00 बजे तक होगा। रिक्तियाँ निजी क्षेत्र की है। अतः चयन प्रक्रिया में नियोजनालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

PR298843 (Labour Employment and Traning)23-24*D

नियोजन पदाधिकारी
अवर प्रादेशिक नियोजनालय, हजारीबाग


# अंगीभूत ग्रामीण कॉलेजों में जारी रहे इंटर की पढ़ाई: गंगोत्री कुजूर

### पूर्व विधायक ने राज्यपाल से की मुलाकात

**बेड़ो।** भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर के नेतृत्व में भाजपा एवं एबीवीपी ग्रामीण का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को सयुंक्त रूप से महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट किया। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञापन सौंपा। साथ ही राज्यपाल के समक्ष मुख्य रूप से मांग रखी गई कि रांची विवि रांची द्वारा अंगीभूत ग्रामीण कॉलेजों में बंद हुए इंटर की पढ़ाई को पहले की तरह जारी रखा जाये। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य राजीव रंजन अधिकारी, जिला परिषद प्रतिनिधि जगरनाथ भगत, पुरियो मुखिया नीरज कुजूर, भाजपा महामंत्री बलराम सिंह एवं एबीवीपी रांची जिला ग्रामीण संयोजक आकाश रक्षित और सोशल मीडिया प्रभारी उपस्थित थे।

# पड़हा व्यवस्था हमारी सांस्कृतिक सामाजिक विरासत : चमरा लिंडा

### मरचाटांड़ में 29वां सात पड़हा जतरा समारोह

**बेड़ो।** पड़हा व्यवस्था की सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें एकजुट होकर आगे आना होगा। यह हमारा धरोहर है। उक्त बातें विधायक चमरा लिंडा ने कहीं। वे सात पड़हा, सौंसे खेखेल राजी आदिवासी परदाना खोड़हा व चाला अखरा खोड़हा के संयुक्त तत्वावधान में बेड़ो प्रखंड स्थित चनगनी गांव के दरहा मरचाटांड़ में आयोजित 29वें समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस दौरान विधायक समेत दर्जनों पड़हा समाज के लोगों ने पड़हा पत्रिका का विमोचन किया। साथ ही पड़हा व्यवस्था की सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लिया। इस दौरान सात पड़हा राजा जीतू उरांव के समेत अन्य लोगों की अगुवाई में पड़हा निशान लकड़ी के बने हाथी, ढोल, ढाक, मांदर, नगाड़ा व झंडा के साथ पड़हा समाज के लोगों ने एक शोभायात्रा निकाली, जो दरहा मरचाटांड़ की परिक्रमा करने के बाद एक समारोह में बदल गया। साथ ही विभिन्न गांवों से आई 36 खोड़हा की टीमों ने समारोह में परंपरागत नाच-गान प्रस्तुत किया।

### पहले दिन खेले गये चार मैच, पहले बल्लेबाजी करने वाली सभी टीमें जीतीं

# युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बनाये रखना जरूरी

### ओरमांझी में लाल बहादुर शास्त्री रात्रि क्रिकेट प्रतियोगिता

खबर मन्त्र संवाददाता

**ओरमांझी।** लाल बहादुर शास्त्री क्लब ओरमांझी द्वारा एसएस हाई स्कूल मैदान में आयोजित रात्रि क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले दिन चार मैच खेले गये। प्रथम मैच आनंदी एकादस एवं इरबा एकादस, दूसरा मैच ओरमांझी एकादस एवं चुटु एकादस, तीसरा मैच हुसीर एकादस एवं इरबा एकादस इमरान और चौथा मैच मंदरो एकादस एवं ओयना एकादस के बीच खेला गया। जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाले सभी टीमों की रोंचक जीत हुई। इरबा, आयना, इरबा-बी व मंदरो एकादस की टीम अपने मैच जीत दूसरे राउंड में प्रवेश किया। वहीं विजेता टीम के मैन ऑफ-द मैच खिलाड़ी अफरोज, मार्का, राजा, पप्पू को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू, विशिष्ट अतिथि सांसद संजय सेठ व पूर्व सांसद रामटहल चौधरी द्वारा बोलिंग बैटिंग व खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया गया और आयोजन की सरहाना करते हुए कहा शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बना रहाना चाहिए। वहीं आयोजन समिति के अभिमन्यू सिंह उर्फ पप्पू ने बताया कि प्रतियोगिता में रांची जिला के 16 टीम शामिल हैं। प्रतियोगिता का फाइन मैच तीन जून को खेला जाएगा। विजेता व उपविजेता को ट्रॉफी और 31 हजार व 21 हजार रुपया दिया जाएगा।

उद्घाटन मैच के विजेता टीम अतिथियों के साथ।

### मौके पर थे मौजूद

मौके पर पूर्व विधायक रामकुमार पाहन, पूर्व प्रमुख जयगाविंद उर्फ लालू साहू, अमरनाथ चौधरी, रणधीर चौधरी, नरेंद्र कुमार, रवि कुमार, राजधाम साहू, राजकिशोर साहू, सुनील नायक, श्वेतांक कुमार, मनिष कुमार, आफताब आलम, अजित गिरी, नीरज शाह, रोहित कुमार व शशि कुमार साहू सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

# खबर मन्त्र

रांची.शुक्रवार .02 जून 2023

अभिव्यक्ति

epaper.khabarmantra.net


## आर्थिक गति बरकरार

मजबूत व्यापक आर्थिक नीतियों और जिंस कीमतों में नरमी के चलते देश की वृद्धि की गति 2023-24 में बरकरार रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह संभावना जताई है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति में कमी की उम्मीद भी है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि धीमी वैश्विक वृद्धि, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में दबाव के कारण अगर वित्तीय बाजार में अस्थिरता होती है, तो इससे वृद्धि के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा हो सकते हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के बने रहने से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह अस्थिर रह सकता है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अच्छी त्योहारी मांग और पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर से वृद्धि को समर्थन मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022-23 में देश की वास्तविक जीडीपी 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी भुगतान प्रणाली तैयार कर रहा है जो किसी भी परिस्थिति में काम करेगी। प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसी विनाशकारी घटनाओं के दौरान महत्वपूर्ण लेनदेन के लिए यह प्रणाली उपयोगी होगी। केंद्रीय बैंक के अनुसार प्रस्तावित ह्यलाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम पारंपरिक प्रौद्योगिकियों से अलग होगा और इसे बहुत कम कर्मचारी कहीं से भी संचालित कर सकेंगे। बड़ी मात्रा में भुगतान के लिए आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट), एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) और यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) जैसी मौजूदा प्रणालियां उन्नत आईटी अवसंरचना और जटिल तारों के नेटवर्क पर निर्भर हैं। प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसी भयावह घटनाओं में ये प्रणालियां अस्थायी रूप से बंद हो सकती हैं। इसलिए, इस तरह की विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहने में समझदारी है।

## देश की बात

पीएम मोदीजी के मन की बात के दौरान संयोग ये बना कि प्रधानमंत्रित्व काल के 9 साल पूरे हुए और हाल में ही सौवा एपिसोड भी। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। इन 9 वर्षों में ही देश के अनेक पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द्र से सुलझाए गए हैं। पूर्वोतर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है। इन 9 सालों में हमने सरकार और जनता से ज्यादा एक देश के रूप में काम किया, टीम इंडिया के रूप में काम किया। देश में बेरोजगारी, गरीबों की संख्या और कुछ उद्योगपतियों की दौलत में एक साथ बढ़ोतरी हुई है, क्या इसे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहा जा सकता है। निजीकरण को बढ़ावा देकर राजकोषीय घाटा पूरा करने में सरकार का ध्यान है और कहा जा रहा है कि हमने समर्पित भाव से काम किया। और जिन पुराने विवादों को शांति से सुलझाने का दावा किया गया, उनकी हकीकत भी सब जानते हैं, बस इस वक्त माहौल ऐसा बना दिया गया है कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ खुलकर बोलने का चलन खत्म सा होता जा रहा है। नोटबंदी, अनुच्छेद 370, सीएए, कृषि बिल ऐसे अनेक मसले हैं जिसके निर्णयों को लेकर देश आगे बढ़ा। निश्चित तौर पर देश में बेरोजगारी और उससे जनित गरीबी लगातार बढ़ रही है। रक्षा और रेल के साथ ही आधारभूत संरचना के बजट में रिकार्ड बढ़ोतरी, शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर प्रयास नयी शिक्षा नीति सहित, मेडिकल की सीटें एक लाख से अधिक करने में सफलता जैसे कई मामलों में मोदी ने सही दिशा में काम किया है। नौ साल में एक स्थिर सरकार और कांग्रेस की नीतिगत अवरोध को समाप्त करने में सफलता पाई है। अब मोदी सरकार दो के एक साल बचे हैं जिसमें आम लोगों की सुविधा बढ़ने की उम्मीद कर रही है।

## कैसा आहार

### धर्म-प्रवाह

**जग्गी वासुदेव**

**हमारी** मनोवैज्ञानिक अवस्था पर, हमारे भोजन का बहुत प्रभाव पड़ सकता है। चिकित्सा विज्ञान अब इस बात की चर्चा कर रहा है कि कैसे फलों का आहार हमारी मनोवैज्ञानिक खुशहाली को बढ़ाता है। क्या इसका कोई महत्व है? क्या अधिकांश रूप से फल आधारित भोजन उन लोगों के लिये ठीक है जो सामान्य पारिवारिक परिस्थितियों में होते हैं, तथा कामकाज और काफी शारीरिक गतिविधि करते हैं ?

किसी भी मशीन में, चाहे जिस तरह के ईंधन का उपयोग हो रहा हो, उसकी क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी आसानी से जलता है? उदाहरण के लिये एक सामान्य कार में आप जिस गैसोलीन का उपयोग करते हैं, वह रेसिंग कार या विमान के गैसोलीन से अलग होता है, और उसका कारण है ईंधन का आसानी से जलना! आपने पेट्रोल पम्पों पर अलग-अलग स्तर के ऑक्टेन वाले गैसोलीन देखे होंगे-- 87, 89, 90, 91, 93, 96.... हम जब मोटरसाइकिल चलाते थे तो 100 ऑक्टेन वाला तेल लेने के लिये तीन गुना रकम देते थे क्योंकि उससे अचानक ही हमारी मोटरसाइकिल ऐसे दौड़ती थी, जैसे दूसरी नहीं दौड़ सकतीं थीं।

फलों का आहार सुपाच्य होता है : सबसे ज्यादा आसानी से पचने वाला भोजन है - फल। पाचन का अर्थ है, जठराग्नि - पाचन अग्नियां। अगर इन अग्नियों को सबसे ज्यादा प्रभाव के साथ जलना है तो, निश्चित ही फल सबसे अच्छे हैं।

### कॉर्टून वर्ल्ड

उनका प्यार...

साभार कॉर्टूनमूवमेंट

### लेटर टू एडीटर

**रोकें भ्रमजाल**

**चुनाव** का बिगुल बजते ही लुभावने वादों के साथ जन प्रतिनिधि जनता के दरबार में सेवक की भांति पेश होते दिखाई देते हैं। गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी दूर करना, मुफ्त बिजली-पानी, मकान, मुफ्त शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं, किसानों का कर्ज माफ व उनकी आय दोगुनी करना ये ऐसे कुछ वादे हैं जिन्हें अपने चुनाव घोषणा-पत्र में शामिल कर राजनीतिक पार्टियां सालों से अपनी रोटियां सेंकती आ रही हैं। **- निशीकांत, रांची**

**अन्न का संरक्षण**

**समर्थन** मूल्य पर गेहूं जैसी उपज की सरकारी खरीद जारी है। खबरों के मुताबिक कई केंद्रों पर उपज को सुरक्षित रखने के माकूल इंतजाम नहीं हैं। पिछले वर्ष भी जब सरकारी खरीदी की गई और बेतरतीब मौसम की बेरुखी के चलते पानी गिरने से बेशकीमती गेहूं पानी में भीगने से सड़-गल गया था। ऐसे में सरकार पिछले साल के कटु अनुभव को ध्यान में रखते हुए अभी से उचित उपाय करने चाहिए। **-हेमा हरि, मेदिनीनगर**

## अंतरिक्ष युद्ध की आहट और रणनीतिक सकपकाहट



**-कमलेश पांडेय**

> मैं यह देखना चाहता था कि पत्रकारिता मृत्यु के मामलों को कैसे कवर करती है या बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों को कैसे दर्ज करती है। मुझे केवल पॉयंटर वेबसाइट पर एक आलेख मिला जिसमें मृत्यु के मामलों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को लेकर कुछ उपयोगी मानक दिए गए। 'न्यूयॉर्क टाइम्स' में प्रकाशित एक आलेख में भारत में कोविड से हुई वास्तविक मौतों का एक अनुमान पेश किया गया।

**किसी** भी संभावित युद्ध से बचने का बस एक ही उपाय यह है कि खुद को इतना मजबूत और शक्तिशाली बना लिया जाए कि हमलावर आक्रमण करने से पहले सौ बार सोचे। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पिछले नौ वर्षों से यही कर रही है, जिससे दुनिया का शक्ति-संतुलन गड़बड़ाने लगा है।

यह सरकार अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक जरूरतों के बारे में इतनी सजग है कि वसुधैव कुटुम्बकम के शाश्वत व अकाट्य भारतीय सिद्धान्तों, जिससे गुटनिरपेक्षता भी ओत-प्रोत है, के आगे अमेरिकन लॉबी और रशियन लॉबी की एक नहीं चलने दे रही है। यहां पर अमेरिकन लॉबी का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी जैसे नाटो देशों से है। जबकि रशियन लॉबी का मतलब रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान, तुर्की जैसे सीटो देशों से है। भारत तीसरी दुनिया के देशों को साधकर दुनिया के बहके हुए विकसित देशों के निरंकुश व्यक्तिगत और सामूहिक स्वार्थों को संतुलित करने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है और अपने लक्ष्यों को धीरे- धीरे ही सही, लेकिन दृढ़तापूर्वक प्राप्त कर रहा है। इन मसलों पर फ्रांस, इजरायल और जापान जैसे देश भारत की खुलकर मदद भी करते हैं।

इन वार लव ट्रायंगल जैसे त्रिकोणीय युद्ध हालातों के बीच भले ही तीसरा विश्व युद्ध टलता जा रहा हो, लेकिन अमेरिकी गुट और रूसी गुट की वैश्विक बादशाहत को बनाये रखने के लिए जो छोटे-छोटे युद्ध हो रहे हैं, वो इस बात की चुगली कर रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को झेल चुकी यह दुनिया आखिरकार कबतक तीसरा विश्व युद्ध टाल पाएगी। क्या प्रथम विश्व युद्ध के गोला बारूद, द्वितीय विश्व युद्ध के परमाणु बम की तरह तीसरे विश्व युद्ध में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कोई नया गुल खिलाएगी और इस बार जल, थल, नभ के अलावा अन्तरिक्ष में भी युद्ध होगा।

यदि अंतरिक्ष युद्ध की नौबत आई तो अमेरिका-ब्रिटेन गुट और रूस-चीन गुट की तरह क्या भारत को भी जापान और फ्रांस के साथ मिलकर कोई अंतरिक्ष गुट तैयार कर लेना चाहिए। यह सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी सेना के एक अधिकारी ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अंतरिक्ष में भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। आपकी याददाश्त ताजा करा दें कि रूसी और चीनी अधिकारी भी पूर्व में ऐसी धमकियां दे चुके हैं। यदि ऐसा हुआ तो जल, थल, नभ युद्ध से ज्यादा बबार्दी अंतरिक्ष युद्ध से होगी, क्योंकि सूचना तकनीक और सूचना क्रांति के सहारे तेजी से आगे बढ़ती हुई यह दुनिया सेटेलाइट गिरते ही अचानक ठहर जाएगी और सबकुछ अस्त-व्यस्त हो जाएगा। इससे जनजीवन इतना प्रभावित होगा कि बिना मारे ही अन्य कारणों से लोग बर्बाद हो जाएंगे। भूख-प्यास-तनाव से मर जायेंगे।

यदि उपर्युक्त अमेरिकी अधिकारी की बातों पर गौर करें तो उसने साफ बताया कि रूस के लगातार आक्रामक रवैये और चीन की अंतरिक्ष में ताकत बनने की महत्वाकांक्षा से अमेरिका सशंकित है और अपनी वैश्विक बादशाहत पर मंडराता खतरा देख वह किसी भी हद से गुजर सकता है। इतिहास साक्षी है कि जब-जब राजाओं को अपनी गद्दी छिनने का खतरा होता था तो वो युद्ध का बिगुल फूंक देते थे। लोकतांत्रिक वाकयुद्ध और चुनावी साल में छिड़े सीमाई युद्ध की वजह भी प्रायः यही बताए जाते हैं।

अमेरिका के अंतरिक्ष नियंत्रण में नीति, योजना और रणनीति विभाग में उपनिदेशक ब्रिगेडियर जनरल जेसी मोरहाउस मई 2023 के तीसरे सप्ताह में दो देशों की अंतरिक्ष संचालन शिखर सम्मेलन 2023 में शिरकत करने लंदन पहुंचे थे। जहां ब्रिटेन और अमेरिका की अंतरिक्ष में संयुक्त क्षमताओं पर खुलकर चर्चा की गई थी। इसके बाद अमेरिकी दूतावास में मोरहाउस ने जो कुछ कहा, वह रूस-चीन के लिए स्पष्ट संकेत है कि अगर रूस-यूक्रेन युद्ध नहीं थमा और फिर चीन-ताईवान युद्ध भड़का तो फिर अमेरिका वह कर सकता है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।

उन्होंने दो टूक कहा कि यदि हमें जरूरत पड़ी तो हम आज रात में भी अंतरिक्ष में युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर कोई भी देश अमेरिका को धमकाता है या हमसे सम्बन्ध रखने वाले अथवा हमारे साथ रक्षा सम्बन्धों पर समझौते कर चुके देशों को किसी तरह से परेशान करने की कोशिश करता है या उनके किसी हित में बाधा पहुंचाता है तो हम आज रात ही लड़ने को तैयार हैं। यदि आपको अंतरिक्ष युद्ध की बरीकीपूर्वक समझ है तो यह अमेरिका का ऐसा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, जिससे रूस के दो मजबूत और करीबी देश चीन-भारत की अर्थव्यवस्था व जनजीवन तबाह हो जाएगा। फिर रूस के सामने हथियार डालने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचेगा।

इसलिए भारत को चाहिए कि वह अंतरिक्ष युद्ध के संभावित दुष्प्रभावों को रोकने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाए। साथ ही, अमेरिका-रूस के बीच ऐसी नौबत न आने दे कि अमेरिका को एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना पड़े, जैसा कि वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को जापान के दो महत्वपूर्ण शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर दो परमाणु बम गिराकर दे चुका है। वियतनाम, लीबिया, इराक पर अमेरिकी भूमिका जगजाहिर है। अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच चले हिंसक दांवपेच में भी वह बदनाम रहा है।

ऐसे दुर्दांत देश को यूक्रेन में उसकी हद बताने के लिए रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन द्वारा किया जा रहा यौद्धिक प्रयत्न सराहनीय है। उन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिल रहा चीन-भारत का साथ भी दुनियावी संतुलन बनाए रखने के लिए उचित है। लेकिन अमेरिकी और नाटो की ताजा बौखलाहट किसी तीसरे विश्व युद्ध (अंतरिक्ष युद्ध) का बीजारोपण न कर दे, इसके लिए कूटनीतिक और सामरिक दोनों प्रयास करने होंगे और अचानक सेटेलाइट ठप हो जाने के बाद भी भारतीय जनजीवन अप्रभावित रहे, इसके लिए ठोस उपाय करने में ही बुद्धिमानी है। कहा भी गया है कि अग्र सोची, सदा सुखी।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

### खास बात

**नीली रोशनी से दूरी**

**अंकिता बनर्जी**

**कामकाजी** हों या गृहिणी-महिलाओं की दिनचर्या का बड़ा हिस्सा स्क्रीन के सामने बीतने लगा है। वर्किंग वूमन ही नहीं, हाउस वाइव्स भी अच्छा खासा वक्त स्क्रीन में झांकते हुए बिता रही हैं। पर जिन स्मार्ट गैजेट्स ने जीवन आसान किया है, सारी दुनिया को जोड़ा है। वही गैजेट्स चेहरे का नूर भी फीका कर रहे हैं। ब्लू लाइट सेहत को हर तरह से नुकसान ही पहुंचा रही है। ताजा रिसर्च बताती हैं कि स्मार्ट फोन से निकलने वाली नीली रोशनी स्किन के लिए बहुत ज्यादा घातक है।

दरअसल, स्मार्ट गैजेट्स से निकलने वाली ब्लू लाइट भी एक तरह का रेडिएशन ही है। जिसका आंखों ही नहीं, स्किन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। द हेल्थ साइट में प्रकाशित समाचार के मुताबिक, मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी उम्र से पहले बुढ़ापा और धूप में न निकलने पर भी स्किन टैनिंग जैसी परेशानी की वजह बन रही है। साथ ही यह नीली रोशनी चेहरे पर डार्क स्पॉट और पिग्मेंटेशन जैसी स्किन की कई समस्याओं का कारण हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि नीली रोशनी का यूजर्स की स्किन टोन पर असर पड़ता है। स्मार्ट गैजेट्स से निकलने वाली ब्लू लाइट की किरणें स्क्रीन में झांक रहे इंसान की स्किन टोन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। गैजेट्स से निकलने वाले इस प्रकाश के दुष्प्रभाव को आमतौर पर आंखों को नुकसान पहुंचाने से ही जोड़कर देखा जाता है। जबकि यह चेहरे की सुंदरता को भी फीका करने वाला है। असल में स्मार्ट गैजेट्स से निकलने वाली यह रोशनी त्वचा के रोम-रोम में समाते हुए गहराई तक जाती है। जिसके चलते खुजली, रूखापन और टैनिंग की समस्या शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, हरदम स्क्रीन के सामने रहने और गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से स्किन के बहुत ज्यादा रूखा हो जाने का खतरा है। कामकाज के लिए आप जो लैपटॉप या कम्प्यूटर इस्तेमाल करती हैं, उस सिस्टम की स्क्रीन पर रेडिएशन कम करने वाला स्क्रीन गार्ड लगाना कुछ हद तक मददगार साबित हो सकता है। साथ ही स्मार्ट फोन जैसे डिवाइसेज को डार्क में इस्तेमाल करना भी।

**रांची** की बेटी मानवी लव जिहाद का शिकार बनी हैं। लव जिहाद का यह वैश्विक संक्रमण पूरी दुनिया में अपनी तबाही मचाए हुए है। लोगों के घर परिवार तबाह हो जा रहे हैं, मां बाप की दुनिया उजड़ जा रही है। झारखंड पुलिस से मेरी मांग है कि इस बेटी को धर्मपरिवर्तन के लिए दबाव बनाने वाले को सजा दिलाये।
**-बाबूलाल मरांडी, विधायक**

### आपके ट्वीट

**झारखण्ड** एकेडमिक कॉउन्सिल (जैक) बोर्ड इंटर (आर्ट्स) और (कॉमर्स) परीक्षा में उत्तीर्ण होने सभी छात्र-छात्राओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। सभी अभिभावकों और शिक्षकों को भी हार्दिक बधाई। **- हेमंत सोरेन**

**यशस्वी** नेतृत्व में राष्ट्रीय मानस को आशा, उत्साह, आत्मविश्वास एवं नवाचार से भरने वाले सेवा, सुरक्षा, सुशासन और समग्र विकास के गौरवशाली एवं निर्माणकारी 09 वर्ष पूर्ण होने की सभी राष्ट्र प्रेमियों को हार्दिक बधाई!
**- योगी आदित्यनाथ**

## पहली बार एथनाल का उपयोग रिकार्ड स्तर पर पहुंचा

### आर्थिक

**नागेन्द्र सिंह**

**भारत** में पहली बार पेट्रोल में एथनाल मिश्रण 7,2 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है। आपूर्ति वर्ष 2020-21 (दिसंबर से नवंबर) के पहले 4 महीनों के दौरान यह किया जा सका है। इससे देश 2022 तक 10 प्रतिशत एथनाल मिश्रण के लक्ष्य की ओर बढ़ा है।

उद्योग जगत के सूत्रों का कहना है कि अगर तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) अगले कुछ महीने के दौरान पूरी मात्रा में एथनाल ले लेती हैं तो मिश्रण का अखिल भारतीय स्तर नवंबर 2021 में सीजन के अंत तक 8 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। अब तक पेट्रोल में एथनाल मिलाने का अखिल भारतीय स्तर पर सबसे बेहतर अनुपात करीब 5.2 प्रतिशत रहा है।

दरअसल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव में करीब 9.5 से 10 प्रतिशत एथनाल मिलाया गया है। इसका मतलब यह है कि ये राज्य 2022 के मिश्रण के 10 प्रतिशत लक्ष्य के करीब हैं। हालांकि यह आसान नहीं रहा है।

चीनी उद्योग का कनहा है कि 2020-21 सत्र के पहले चार महीने में मिश्रण और ज्यादा हो सकता था, लेकिन तेल विपणन कंपनियों की ओर से प्रत्येक डिपो में एथनाल भंडारण क्षमता के अनुमान में कुछ रणनीतिक त्रुटियां हुईं। इसकी वजह से मिलों को डिपो में एथनाल की आपूर्ति करनी पड़ी, जो उनकी उत्पादन इकाइयों से दूर थे। उद्योग जगत के सूत्रों के आंकड़ों के मुताबिक 29 मार्च तक ओएमसी ने 2020-21 के लिए 4.57 अरब लीटर एथनाल की जरूरत बताई ती, जिसमें से 3.25 अरब लीटर के लिए कंपनियों की बोली को अंतिम रूप दिया गया। वहीं करीब 2.98 अरब लीटर एथनाल के लिए पहले ही अनुबंध हो चुका है, जिसमें से 1 अरब लीटर की आपूर्ति हो गई, जबकि शेष की डिलिवरी होनी है।

इसमें से करीब 77 प्रतिशत या 0.77 अरब लीटर एथनाल बी-हैवी मोलैसिस और गन्ने के रस से बनाया गया है, जिसकी वजह से 8 लाख टन अधिशेष चीनी में कमी आएगी। कुल मिलाकर उद्योग जगत का मानना है कि 2020-21 में करीब 20 लाख टन टीनी का उत्पादन कम होगा क्योंकि गन्ने का इस्तेमाल एथनाल के लिए हो रहा है।

चीनी कंपनियों का आरोप है कि ओएमसी ढुलाई की लागत वास्तविक दरों की तुलना में बहुत कम वापस कर रही हैं, क्योंकि आधार दर अक्टूबर 2020 में तय की गई थी (ईंधन के दाम बढने के पहले)। इसकी वजह से चीनी कंपनियों के ऊपर 3 से 5 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त बोझ अपनी जेब से भरना पड़ रहा है।

डीजल की दर अक्टूबर 2020 के बाद 25 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (आईएसएमए) सहित चीनी कंपनियों ने सुझाव दिया है कि अगर ओएमसी को लगता है कि ढुलाई की लागत में बदलाव नहीं हो सकता है तो ओएमसी को खुद ट्रांसपोर्ट कांट्रैक्ट करना चाहिए (जैसा कि पेट्रोल आपूर्ति के मामले में वे करती हैं) और उनका नाम चीनी कंपनियों को दिया जाना चाहिए।अधिकारी ने कहा, 'इस तरह से चीनी कंपनियों को ढुलाई का शुल्क वापस नहीं लेना होगा, जबकि डीजल की आपूर्ति भी बहाल हो सकेगी।'

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा, 'हम आसानी से ज्यादा एथनाल की आपूर्ति कर सकते थे, अगर ओएमसी द्वारा कुछ डिपो के अनुमान लगाने में त्रुटि नहीं होती।'

## जीएसटी में टीडीएस के बारे में जानना आवश्यक

**अजयदीप बाधवा**

### आर्थिक

**जीएसटी** में टीडीएस हम में से अधिकांश लोग इनकम टैक्स के अंर्तगत टीडीएस के बारे में जानते हैं, पर आज हम इस आलेख में जीएसटी में टीडीएस पर बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रेता समान या सेवा के आपूर्ति के बिल के साथ जीएसटी भी विक्रेता को दे देता है जिसे विक्रेता सरकार को जमा कर देता है। पर कभी कभी क्रेता पूरा जीएसटी विक्रेता को देने के स्थान पर उसका एक हिस्सा विक्रेता को न देकर सीधे सरकार को दे देता है जिसे हम टीडीएस कहते हैं। वस्तुतः यह जीएसटी विक्रेता को सरकार को देना था पर उसके स्थान पर क्रेता ने ही दे दिया। हालांकि टीडीएस क्रेता सरकार को देता है पर चुकीं इसे देना विक्रेता को था इस कारण सरकार इस टीडीएस का क्रेडिट विक्रेता को ही देती है, अर्थात यह विक्रेता की ओर से सरकार को अग्रिम जीएसटी का भुगतान माना जाता है और बाद में विक्रेता अपनी जीएसटी की देय राशि से इसे घटा कर शेष राशि ही सरकार को देता है। जीएसटी कानून के तहत टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी केंद्र सरकार या राज्य सरकार का एक विभाग या प्रतिष्ठान; या स्थानीय प्राधिकारी; या सरकारी एजेंसियां या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणियां हैं जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। वर्तमान में कर योग्य वस्तुओं और/या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान पर 2% की दर से टीडीएस वहीं काटा जाता है, जहां एक व्यक्तिगत अनुबंध के तहत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य 2,50,000 रुपये से अधिक है। पर जब आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता के पंजीकरण की स्थिति से भिन्न हो तो कर की कोई कटौती आवश्यक नहीं है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि एक व्यक्ति जो टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी है, उसे अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा और इसके लिए कोई सीमा नहीं है। जीएसटी के तहत पंजीकरण पैन के बिना और आयकर अधिनियम के तहत जारी मौजूदा कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टेन) का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि टैन अनिवार्य है।

टीडीएस काटने के बाद उसे अगले माह की 10 तारीख तक सरकार को जमा करना होता है और आयकर कानून के समान, जीएसटी के तहत कर काटने वाले व्यक्ति को सरकार को कर जमा करने के 5 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति को जीएसटी आर-7ए के रूप में टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना होता है।

(कॉस्ट एवम मैनेजमेंट एकाउंटेंट, कर सलाहकार, रांची)


संस्थापक
स्व. डॉ अभय कुमार सिंह

वृन्दा मीडिया पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक, प्रकाशक
मंजू सिंह

द्वारा चिरौंदी, बोड़ेया रोड, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

संपादक
अविनाश ठाकुर*
फोन : 94313-55233
पिनः -834006
e-mail
khabarmantra.city@gmail.com

R.N.I No.
JHAHIN/2013/51797

*पीआरबी एक्ट के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी। प्रकाशित खबरों से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा रांची न्यायालय में ही होगा।

## स्पीड न्यूज

### शिक्षक धनंजय निलंबन से हुए मुक्त

हजारीबाग। गंभीर आरोपों का दंश झेल रहे मसैरातू के शिक्षक धनंजय कुमार को निलंबन मुक्त कर दिया गया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय के उक्त शिक्षक पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इनमें आठवीं की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़, विद्यालय का स्क्रैप बेचने सहित प्रतिपूर्ति भत्ते का वितरण छात्रों के बीच नहीं करना शामिल है। इन मामलों की जांच चौपारण बीईईओ व बरही बीईईओ कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार जांच कमिटी ने शिक्षक का स्थानांतरण अन्यत्र करने की अनुशंसा की थी। इसे दरकिनार करते हुए उक्त शिक्षक को उसके मूल विद्यालय ही वापस भेज दिया गया है।

### अंजुमन मुस्लेमीन के अध्यक्ष बने हलीम

भुरकुंडा (रामगढ़)। अंजुमन मुस्लेमीन कमेटी भुरकुंडा का चुनाव करने के लिए गुरुवार को ऊपर धौड़ा स्थित मदरसा प्रांगण में पूर्व में चुने गए सदस्यों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता संरक्षक हाजी नूर हाशिम व संचालन मो. अनवर ने किया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से भुरकुंडा अंजुमन कमेटी का चुनाव किया गया। कमेटी में संरक्षक हाजी नूरहाशिम, हाजी शमशुद्दीन, हाजी समीउल्लाह, इसराइल अंसारी, नसीम अंसारी, अध्यक्ष मो. हलीम, उपाध्यक्ष आरिफ उर्फ मिंटू, सचिव मो. अनवर, उप सचिव मारूफ खान, एजाज कुरैशी, कोषाध्यक्ष शमशुल अंसारी चुने गए। मौके पर अख्तर अंसारी, मंसूर खान, असगर अली, मो आफताब, असद अंसारी, शमीम अंसारी उर्फ कक्कू, इरशाद अंसारी,बुलंद अख्तर, मो जाकिर, एजाज अहमद, नसीम इराकी, जियाउद्दीन अंसारी, मिनहाज अंसारी, मेराज अंसारी, मो आलम अंसारी, इमरान खान, मो इस्लाम, हसरत अली उर्फ चिंटू, कारी सरफुद्दीन, जिब्राइल अंसारी, मो शमशेर आलम आदि मौजूद थे।

### पौध रोपण व वितरण की शुरूआत

हजारीबाग। जन शिक्षण संस्थान हजारीबाग द्वारा गुरूवार को जी-20 के शैक्षिक कार्यशील समूह के पार्श्व में जन भागीदारी कार्यक्रम की शुरूआत की गई। यह कार्यक्रम पूरे देश में एक जून से 15 जून तक चखेगा। प्रत्येक दिन अलग-अलग कार्यक्रम का आयोजन होना है। इन कार्यक्रमों में वित्तीय साक्षरता, प्रभात फेरी, पौध रोपण, सायकिल चालन, मैराथन, औद्योगिक भ्रमण, केरियर काउंसलिंग, कौशल जागरूकता आदि शामिल हैं। सभी कार्यक्रम जी-20 के प्रति जागरूकता, जन भागीदारी की आवश्यकता और उसके सहसंबंध के साथ भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित है। जन शिक्षण संस्थान ने कार्यक्रम का शुभारंभ पौध रोपण से किया। इसके तहत जन शिक्षण संस्थान ने डांड स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र कटकमसांडी में पौध रोपण व पौधों का वितरण किया।

### इंटर में बिरसा कॉलेज का शानदार प्रदर्शन

कटकमसांडी। कटकमसांडी पदमा सीमा पर कुटिपीसी अवस्थित बिरसा महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने इंटरमीडिएट कला संकाय के परीक्षार्थियों का शानदार प्रदर्शन रहा। महाविद्यालय के 150 विद्यार्थियों ने जैक द्वारा आयोजित 2023 के परीक्षा में शामिल होकर प्रथम श्रेणी से उतीर्ण होकर महाविद्यालय के नाम को गौरवान्वित किया। परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले टॉप टेन में प्रतिमा कुमारी 80.6 प्रतिशत, नेहा मेहता 80.6 प्रतिशत, शूभम कुमार यादव 79 प्रतिशत, नीतु कुमारी 78.9 प्रतिशत, राहुल मेहता 78.7 प्रतिशत, विक्रम पासवान 77.6 प्रतिशत, शहनाज खातुन 77.6 प्रतिशत, ऋषिकेश कुमार गिरी 77.4 प्रतिशत, पूजा कुमारी 74.2 प्रतिशत, नेहा कुमारी 73.4 प्रतिशत, प्रीति कुमारी 73.4 व जागेश्वर कुमार 73.4 प्रतिशत का नाम शामिल है। प्रथम श्रेणी से शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम हासिल किए जाने पर प्राचार्य प्रदीप कुमार मेहता ने सफल सभी छात्र-छात्राओं व शिक्षकों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

### संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन 14 जून को

सिरका। अरगड्डा के आदिवासी संघर्ष मोर्चा कार्यालय में गुरुवार को जिला रामगढ़ कार्यकर्त्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आदिवासी संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक देवकीनंदन बेदिया, नरेश बडाईक, सुभाष बेदिया, नागेश्वर मुंडा,लालचंद बेदिया,रामबृक्ष बेदिया,प्रयाग बेदिया,योगेंद्र बेदिया, जितेन्द्र बेदिया उपस्थित हुए। बैठक में विचार-विमर्श किया गया कि जिला रामगढ़ में आदिवासियों की जमीन बड़े पैमाने पर गांव के दलाल- विचौलिया,भू-माफियाओं के साथ अंचल अधिकारी, कर्मचारियों की सांठ-गांठ से की जा रही है। देवकीनंदन बेदिया 14 जून 2023 को आदिवासी संघर्ष मोर्चा के बैनरतले सीसीएल अरगड्डा महाप्रबंधक के समक्ष एक दिवसीय टोकेन धरना दिया जाएगा। गोला अंचल अधिकारी ने कमता मौजा के खाता नंबर-122,प्लाट नंबर- 1091 ,रकवा-2.14 एकड़ जमीन पर आदिवासी महिला की खातधारी जमीन को गैर-आदिवासियों के द्वारा सीएनटी एक्ट का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर फर्जी दस्तावेज बनाकर दाखिल खारिज किया गया है जिसके खिलाफ सिवील कोर्ट ने आदिवासी महिला सुधा देवी के पक्ष में आदेश दिया गया है और इधर गोला थाना प्रभारी को आदेश कापी देने के बावजूद लाखों रुपए लेकर काम कराया जा रहा है। जिसके खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा।रामगढ़ जिले में आदिवासियों की जमीनें न्यायालयों द्वारा भू-वापसी आदेश दिए जाने के बाद भी दखल-दिहानी नहीं दिलाया जा रहा है।

## विधायक ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को लगाई फटकार

# कार्यशैली में बदलाव लायें अधिकारी अन्यथा जनता सुधार देगी : मनीष

खबर मन्त्र संवाददाता

हजारीबाग। जिले में बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर सदर विधायक आक्रोशित है। क्षेत्र में जले हुए ट्रांसफार्मर के रिप्लेसमेंट में भी विभागीय अधिकारियों व बाबुओं की लालफीताशाही व नौटंकी जनता को ओर त्रस्त कर रहीं हैं।

गुरुवार को सदर विधानसभा क्षेत्र के घनी आबादी वाला गांव कुसुम्भा के जले हुए ट्रांसफार्मर के बदली के लिए जब बिजली विभाग के ट्रांसफॉर्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप के कार्यपालक अभियंता सुब्रत बनर्जी से विधायक मनीष जायसवाल के निर्देश पर उनके

कार्यालय प्रभारी विशेषांक वर्मा ने बात की और जनहित में कुसुंभा वासियों को ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने को कहा तो उन्होंने टीआरडब्ल्यू में ट्रांसफार्मर रहते हुए कागजी कार्रवाई की बात करके देने से मना कर दिया और कहा की कल ही एक ट्रांसफार्मर दिया गया है अभी नहीं दे पाएंगे। बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर संघर्ष कर रहे हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल को जब इस बात की जानकारी हुई तो वे आग- बबूला होकर तत्काल सिंदूर स्थिति टीआरडब्ल्यू पहुंचे और ट्रांसफॉर्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप के कार्यपालक अभियंता सुब्रत बनर्जी के यहां उपस्थित नहीं रहने पर उनसे मोबाइल से बात करते हुए उनको जमकर फटकार लगाई और सीधे तौर पर कहा कि ट्रांसफार्मर रहते हुए ग्रामीणों को अंधेरे में रखना बिजली विभाग की घोर लापरवाही है और आप लोगों के लालफीताशाही और मनमानी के कारण जनता त्राहिमाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में बिजली सप्लाई की इतनी खराब स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल करीब दो दर्जन ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। कहा कि विभागीय अधिकारी अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं अन्यथा जनता सुधार देगी । इधर विधायक मनीष जायसवाल के फटकार के बाद कार्यपालक अभियंता सुब्रत बनर्जी ने विधायक मनीष जायसवाल को आश्वस्त किया कि आज ही कुसुम्भा का ट्रांसफॉर्मर मिल जायेगा ।

# पंचमाधव के दो गांव का पीएम आदर्श ग्राम के लिए हुआ चयन

खबर मन्त्र संवाददाता

बरही। प्रखंड अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत पंचमाधव बसरिया पंचायत भवन में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुखिया नीलम देवी व संचालन पंचायत सचिव नेमधारी महतो ने किया। बैठक में मुख्य रूप से एसडीओ पूनम कुजूर, बीडीओ क्रिस्टीना रिचा इंदवार, ब्लॉक कॉर्डिनेटर विजय कुमार, जिला समन्वयक डीआरडीए अमित कुमार सिंह, जेएसएलपीएस बीपीएम दीपक कुमार, मुखिया प्रतिनिधि हरेंद्र गोप आदि उपस्थित रहें।

बैठक में कई चर्चा परिचर्चा के बाद जरहिया व पडरिमा गांव को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयन किया गया। चयनित गांवों में विकास की गति तेज होगी। इन गांवों में पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और

आवास, विद्युत एवं स्वच्छ ईंधन, कृषि, वित्तीय समावेशन की व्यवस्था होगी। साथ ही स्किल्ड डेवलप कर गांव के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल होगी। बैठक में सर्वसम्मति से आदर्श विकास समिति का गठन किया गया जिसमें मुखिया नीलम देवी, पंचायत सचिव नेम धारी महतो, उप मुखिया पार्वती देवी, पंचायत समिति सदस्य सोमिया देवी, ग्राम रोजगार सेवक कुलेश्वर प्रजापति, जेएसएलपीएस के बीपीएम दीपक कुमार, प्रखंड समन्वयक विजय कुमार, सहायक शिक्षक दिनेश प्रसाद यादव, वार्ड सदस्य मिनेश शर्मा, वार्ड सदस्य रमेश रविदास, आंगनबाड़ी सेविका गायत्री देवी, स्वास्थ्य सहिया किरण देवी , एएनएम सावित्री देवी समाज सेवी विनोद कुमार यादव, सुलेखा देवी, समाजसेवी कामेश्वर रविदास, समाज सेवी सुधीर यादव, उप मुखिया प्रतिनिधि विनोद यादव, सुलेखा देवी, रंजू देवी, रूबी देवी, कंचन देवी, किरण देवी, मंजू देवी, समुद्री देवी, महेश ठाकुर आदि शामिल हैं।

### सिरका में एटीएम खराब

सिरका। एकमात्र भारतीय स्टेट बैंक शाखा का बैंकिंग कार्य नेटवर्क रुक रुककर चलने पर गुरूवार को बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों को काफी परेशानी हुई। इस वजह से बैंक केश काउंटर के सामने बुजुर्गों की लाइन लग गई। बैंक कर्मचारी बैंकिंग नेटवर्क ठीक करने में व्यस्त रहें बैंक लेनदेन करने पहुंचे, लोगों को भी परेशानी हुई। बैंक ग्राहक सुरेंद्र राम ने बताया कि बीते 2 सप्ताह से एटीएम में लगे निकासी जमा करने वाली मशीन भी खराब पड़ी हैं। बैंक के अंदर काउंटर स्वैप मशीन से जमा निकासी की आवश्यकता बढ़ी हैं।

### सिरका में सुरक्षा प्रहरी ने दिया योगदान

सिरका। सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र के सिरका कोलयरी समुह के सुरक्षा विभाग में नए सुरक्षा प्रहरी मंटू गंझू ने योगदान दिया हैं। इस संबंध में गुरुवार को सुरक्षा विभाग ने बताया कि दो नये सीसीएल सुरक्षा प्रहरियों के आने से तकरीबन 15 सुरक्षाकर्मी सीसीएल गार्ड मैन पावर हुए हैं।

### भुरकुंडा में वैश्य मोर्चा का सम्मेलन सात जून को

भुरकुंडा (रामगढ़)। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा तैयारी समिति की बैठक गुरूवार को जवाहर नगर भुरकुंडा स्थित केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु के आवास में हुई। महेश्वर साहु ने बताया कि 7 जून को झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन भुरकुंडा के एयरटेल टॉवर समीप स्थित उत्सव मैरेज हॉल में आयोजित किया जायेगा। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल, अति विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री रामचंद्र केशरी, विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान शंकर, वरिष्ठ पत्रकार डॉ. विष्णु राजगढ़िया सहित कई वैश्य समाज के बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में 10 वैश्य समाज के प्रबुद्धजनों को सम्मानित भी किया जायेगा। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु ने कहा कि भुरकुंडा की धरती वैश्य आंदोलन और अभियान की जननी है।

## बड़कागांव में लगा सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन

बड़कागांव। एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना की स्वयं सेवी संस्था जागृति महिला संघ के द्वारा बड़कागांव प्रखंड के त्रिवेणी अपैरल्स टैक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई गई। यह सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन एनटीपीसी कोयला खनन परियोजनाओं द्वारा स्वछता पखवाड़ा-2023 के तहत अपनी परियोजनाओं के आसपास परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में लगाई जा रही है। सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन के लग जाने से इस कंपनी में काम करने वाली 200 से अधिक महिलाओं को सेनेटरी पैड के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इस अवसर पर जागृति महिला संघ की पूर्व अध्यक्षा मीनाक्षी श्रीवास्तव ने उपस्थित महिलाओं को सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन का उपयोग करने को कहा। ये मशीन स्वास्थ्य समस्याओं से निजात दिलाने में काफी कारगर साबित होंगी। इसके साथ ही महिलाओं को अपने पीरियड्स के दौरान काम

करने में किसी तरह की समस्याएं नहीं आएगी, वे बेझिझक पब्लिक प्लेस पर निकल पाएंगीं और अपने कामों को आसानी से कर पाएंगीं। सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन में महज 5 रुपये के सिक्के डालने से उन्हें बाजारों में इससे कई गुना अधिक कीमत में बिकने वाले सेनेटरी पैड आसानी से मिल पाएंगे। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी श्रीवास्तव के अलावा जिज्ञासा बाल भवन की जनरल सेक्रेटरी श्रीमती दीपिका चौहान एवं जागृति महिला संघ की ज्वाइंट सेक्रेट्री सवरनी चौधरी भी मौजूद रहीं।

# जिंदल कंपनी में 62 छात्रों का चयन

**हुनरमंद युवा तैयार कर उन्हें रोजगार से जोड़ रहा है ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज : अजय पांडेय**

खबर मन्त्र संवाददाता

बासल (रामगढ़)। ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज पतरातु के तत्वावधान में गुरूवार को जिंदल शॉ लिमिटेड, अबुधावी के लिए कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया। ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज पतरातु द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों एवं उत्तीर्ण छात्रों के लिए दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन हुआ। इसमें 31 मई व 1 जून को कंपनी जिंदल शॉ लिमिटेड आबूधाबी (इनफिनिटी मैनेजिंग एण्ड ऑपरेटिंग फॅक्टरीज सोल प्रॉपराइटर एलएलसी) द्वारा आईटीआई छात्रों एवं विगत वर्ष के उत्तीर्ण छात्रों का साक्षात्कार किया गया।

इस प्लेसमेंट ड्राइव में लगभग 100 छात्रों ने भाग लिया। जिंदल शॉ लिमिटेड के अधिकारियों ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं छात्रों की तारीफ करते हुए 62 चयनित छात्रों की सूची जारी की है। चयनित छात्रों को 15

दिन के बाद सभी आवश्यक नियम शर्तों को पुरा कर ज्वाइनिंग के लिए अबुधावी प्रस्थान करना होगा। इसके पूर्व कॉलेज के प्राचार्य अजय पांडेय, जेएसपी पतरातु सीएसआर प्रमुख रवि निवास ने संयुक्त रूप से प्लेसमेंट कैम्प का उद्घाटन किया। छात्रों को संबोधित करते हुए प्राचार्य अजय पांडेय ने कहा हमारा संस्थान निरंतर गुणवत्ता पूर्ण व्यवसायिक प्रशिक्षण देता आ रहा है, जिसके कारण जिंदल शॉ जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां हमारे संस्थान से प्रतिवर्ष छात्रों का चयन करती है। वर्तमान में हमारे संस्थान के 50 छात्र जिंदल शॉ अबुधावी में कार्यरत हैं। इसके लिए उन्होंने अपने प्रशिक्षकों, सहकर्मियों को धन्यवाद दिया एवं छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्राचार्य श्री पांडेय ने बताया विगत वर्षों में ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज पतरातु से उत्तीर्ण शत प्रतिशत छात्रों का भारत के बड़ी कम्पनियां जैसे टाटा स्टील, जिंदल स्टील, मारुती सुजुकी हीरो मोटर आदि में चयन किया गया है। छात्रों में अंतरराष्ट्रीय कैंपस द्वारा रोजगार प्राप्त करने के कारण खुशी एवं उल्लास व्याप्त था।

## एक नजर में

### सीसीएल के नए महाप्रबंधक ने दिया योगदान

चरही ।सीसीएल हजारीबाग कोयला क्षेत्र चरही के तत्कालीन महाप्रबंधक नीरज सिन्हा का तबादला कुजू कोयला क्षेत्र में किया किया गया।इनके तबादले के बाद नए महाप्रबंधक कमलेश कुमार सिन्हा ने हजारीबाग कोयला क्षेत्र चरही में पदभार ग्रहण किया।इनका तबादला मगध एरिया से हजारीबाग एरिया में किया गया है।नए जीएम को अधिकारियों भव्य स्वागत किया। इस मौके पर एसओपी पल्लव चक्रवर्ती, तापिन साउथ पीओ एके दिवाकर, परेज पीओ एनके दुबे, केदला पीओ ओम प्रकाश, झारखंड पीओ डीके साहू, एसओसी अभय कुमार सिंह, एसओ ईएंडएम यूके सिन्हा, एसओ एक्सवेशन राकेश रंजन, एसओ सेफ्टी एस के त्रिवेदी, सेल्स ऑफिसर सत्य प्रकाश, ऐएफएम एस के गुप्ता, जीएम पीएस राजदीप,चन्द्रिका प्रसाद सहित दर्जनों अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।

### ताइक्वांडो खिलाड़ी दिल्ली के लिए हुए रवाना

हजारीबाग। शहर में शिक्षा के साथ खेल के प्रति काफी सक्रियता खिलाड़ियों में देखने को मिल रही है। इसी सक्रियता के बीच हजारीबाग ताइक्वांडो संघ के खिलाड़ी विनीत पारासर, सौम्या ऐकत, आलोक, बंटी के साथ कोच रोशन कुमार चौहान एवं संघ के सचिव हेमंत कुमार शामिल है।सभी दिल्ली एन.सी.टी मे आयोजित 68वी राष्ट्रीय स्कूली गेम प्रतियोगिता आयोजित किया गया है। यह प्रतियोगिता 6 जून से 12 जून तक चलेगी। जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यो से सैकड़ों खिलाड़ी सम्मिलित होने वाले हैं। इस खेल में ताइक्वांडो के अलावा कई अन्य खेल के कई प्रतियोगिता आयोजित की गई है।हजारीबाग से खिलाड़ियों को गुरुवार को युवा समाजसेवी हर्ष अजमेरा के बड़े भाई आनंद बस के संचालक गुंजन जैन एवं अनिकेश जैन के द्वारा सभी खिलाड़ियों को माला पहनाकर ससम्मान रांची रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया।

### केरेडारी में अवैध बालू लदा दो ट्रैक्टर जब्त

केरेडारी। केरेडारी प्रखण्ड क्षेत्र में आए दिन बालू घाटों से अवैध बालू का उठा हो रहा है । इसी को देखते हुए केरेडारी पुलिस ने अभियान चला कर केरेडारी थाना क्षेत्र में ग्राम पगार से अवैध रूप से बालू का परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टर आ रहे थे इसी दौरान दो ट्रैक्टरों को पकड़कर थाना लाया गया है। केरेडारी थाना प्रभारी एनजी केरकेट्टा ने बताया की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

### बरही : दुष्कर्म के आरोपी को भेजा गया जेल

बरही। बरही थाना कांड संख्या 254/23 धारा 376, 366 भादवि के प्राथमिकी अभियुक्त मोनू पांडे पिता जयकिशोर पांडेय साकिन तरंगा थाना चन्द्रपुरा जिला बोकारो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में हजारीबाग भेजा गया। उक्त प्राथमिकी अभियुक्त फरार चल रहा था। जानकारी पुनि सह थाना प्रभारी रोहित सिंह ने दी।

**पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, गढवा**

आवश्यक सूचना
(नोटिस)

नाम –(1) कांड के प्रा0अभि0 – किशोरी प्रसाद, पे0– स्व0 रामखेलावन प्रसाद, सा0–धीराबीघा थाना– मकदुमपुर, (तेहता ओ0पी0) जिला–जहानाबाद बिहार। नगरउंटारी थाना कांड सं0–174/2017, दिनांक–02.11.2017, धारा– 420/467/468 भा0द0वि0। प्राथ0 अभि0– किशोरी प्रसाद, पे0– स्व0 रामखेलावन प्रसाद, सा0–धीराबीघा थाना–मकदुमपुर, (तेहता ओ0पी0) जिला–जहानाबाद बिहार के प्राथमिकी अभियुक्त है। उक्त कांड में फिरार है। अपर न्यायिक दण्डाधिकारी श्री अरबिंद कच्छप अनुमंडीय न्यायालय नगर उंटारी में फिरार है आपको सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय में अविलम्ब आत्मसमर्पण करना सुनिश्चित करें।

पुलिस अधीक्षक, गढ़वा।

PR.NO.298863 Police(23-24):D

**कार्यालय मेदिनीनगर नगर निगम**

ज्ञापांक ..... दिनांक .....

इच्छा से अभिव्यक्ति (EOI) सूचना संख्या 08/2023–24

मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत गाँधी मैदान, मैरिन ड्राईव (टाउन हॉल) एवं अम्बेडकर पार्क (कुल 3 शौचालय) में निर्मित शौचालय का रख–रखाव किया जाना है। प्रति शौचालय 30,000 (तीस हजार) रू0 प्रतिवर्ष के दर से भुगतान करना होगा। इच्छुक एजेन्सी एवं संवेदक दिनांक 08.06.2023 को 1.00 बजे अपराह्न तक कार्यालय में दर/कोटेशन जमा कर सकते है। कोटेशन के साथ निविदा शूल्क मो0 2,000/- रू0 (जो वापस नहीं किया जाएगा) एवं सुरक्षित जमा राशि मो0 10,000/- रू0 बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक नगर आयुक्त, मेदिनीनगर नगर निगम के पदनाम से देय होगा। कोटेशन दिनांक 08.06.2023 को 2.00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष खोली जाएगी। कोटेशनदाता/प्राधिकृत व्यक्ति कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते है।

**नोट :–** निविदा संबंधित नियम एवं शर्तें कार्यालय सूचना पट पर एवं Website http//:udhd.jharkhand.gov.in के नोटिस पर अवलोकन किया जा सकता है। कार्यालय अवधि में देखी जा सकती है।

ह0/–
नगर आयुक्त –सह– प्रशासक
मेदिनीनगर नगर निगम

PR.NO.298820 District(23-24):D

**समाहरणालय, लातेहार।**
(जिला भू–अर्जन शाखा)

–:आम सूचना:–

अंचल–मनिका जिला–लातेहार अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क–75 मार्ग के (पैकेज–*II*) उदयपुरा से भोगू सेक्शन के अन्तर्गत ***Design Ch.-97+515 km*** से ***Ch.-147+ 540*** तक फोर लेन सड़क निर्माण में हितबद्ध रैयतो को सूचित करना है कि अधिग्रहित भूमि से संबंधित राजस्व कागजात जामा करने हेतु तिथि एवं स्थान निर्धारित किया जाता है, जिसमें निम्नांकित 1. खतियान/निबंधित केवाला की प्रति 2. अद्यतन लगान रसीद की प्रति 3. आपसी सहमति पत्र 4. वंशावली अंचल कार्यालय द्वारा सत्यापित सभी राजस्व कागजात के साथ निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर जामा करना सुनिश्चित किया जाय, मौजावार तिथि निम्नवत है।

| क्र0 सं0 | अंचल का नाम | तिथि | शिविर का स्थान | मौजा का नाम | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | लातेहार | 05.06.2023 | मध्य विद्यालय, उदयपुरा | 1. उदयपुरा 2. कडीमा | |
| 2. | लातेहार | 06.06.2023 | मध्य विद्यालय, कुरा | 1. नावाडीह 2. कुरा | |
| 3. | लातेहार | 07.06.2023 | मध्य विद्यालय, पाण्डेपुरा | 1. पाण्डेपुरा | |
| 4. | लातेहार | 08.06.2023 | अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, होटवाग | 1. डुडगीकाला 2. डुडगीखुर्द | |
| 5. | लातेहार | 09.06.2023 | मध्य विद्यालय, ईचाक | 1. ईचाक | |
| 6. | लातेहार | 10.06.2023 | अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, होटवाग | 1. होटवाग 2. मतनाग 3.पतकी | |

उक्त संबंध में सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि को ससमय उपस्थित होकर अधिग्रहित भूमि से संबंधित राजस्व कागजात जामा करना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–
जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लातेहार।

PR 298872 Land Reforms(23-24)D

**उपायुक्त-सह- जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा (खनन शाखा)**

शेष पाँच Category-A & B बालू घाट का एम0डी0ओ0 चयन हेतु अति–अल्पकालीन ई–वितीय निविदा आमंत्रण।

| क्र0 सं0 | अंचल | रकवा (हेक्टेयर में) | Yearly Production as per EC Limit (CUM) | E-Tender reference No. | बेवसाईट पर ई–निविदा प्रकाशन की तिथि | ई–निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | नियम एवं शर्तें | निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी, के कार्यालय का नाम एवं पता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मझिआँव | 4.38 | As per DSR report | [garhwa/MDO/11/2023] [2023_GAMD_71793_1] | 31.05.2023 | 10.06.2023 | JSMDC द्वारा तैयार Model Tender के अनुरूप | उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा। |
| 2. | मझिआँव | 10.9 | | [garhwa/MDO/12/2023] [2023_GAMD_71796_1] | 31.05.2023 | 10.06.2023 | | |
| 3. | मझिआँव | 20.9 | | [garhwa/MDO/13/2023] [2023_GAMD_71799_1] | 31.05.2023 | 10.06.2023 | | |
| 4. | खरौन्धी एवं केतार | 44.7 | | [garhwa/MDO/14/2023] [2023_GAMD_71801_1] | 31.05.2023 | 10.06.2023 | | |
| 5. | मझिआँव | 47.7 | | [garhwa/MDO/15/2023] [2023_GAMD_71803_1] | 31.05.2023 | 10.06.2023 | | |

नोटः– 1. JSMDCL, राँची के द्वारा Category-A & B के तहत चयनित Empanelled Agency के द्वारा WWW.Jharkhandtendre.gov.in के बेवसाईट पर ई–वितीय निविदा स्वीकार किया जायेगा।
2. विभाग एवं JSMDCL, राँची, द्वारा निर्गत नियमावली, शर्तें एवं अद्यतन परिपत्र निविदा में लागू रहेंगें।
3. शर्तें एवं विस्तृत जानकारियों के लिए ई– निविदा बेवसाईट पर देखा जा सकता है।

उपायुक्त
गढ़वा

PR 298822 Mines and Geology (23-24)_D

## स्पीड न्यूज

### एस्बेस्टस तोड़ हजारों रुपये के सामान की चोरी, पीड़ित ने थाना में दिया आवेदन

**कैरो।** थाना क्षेत्र के नरौली में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात नरौली के अकलेश उरांव अपने परिवार के साथ खंडा में आयोजित यज्ञ की कथा कार्यक्रम में शामिल होने गया था। जिसके बाद जब रात 11 बजे घर वापस लौटा तो पाया कि घर का एस्बेस्टस टूटा हुआ है। जब अलमीरा खोलकर देखा तो वहां से 25 हजार नकद, आठ हजार के सोने का झुमका, सात हजार के दो जोड़ी पायल, छह हजार के चांदी की चेन, एक हजार के दो जोड़ी बिछिया के अलावे कांसा का एक लोटा, कांसा के दो थाली दो गिलास, दो कटोरा जिसका मूल्य करीब 4500 है। नकद सहित सभी सामान मिलाकर कुल 51 हजार पांच सौ की चोरी हुई है। मामले को लेकर पीड़ित अकलेश उरांव ने थाना को आवेदन देकर उचित कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। मामले में थाना के एसआई ऋषिकांत का कहना है कि घटना की सूचना मिली है, जांच कर आगे की कार्रवाई की जायेगी।

### नाबालिग युवक ने लगायी फांसी, मौत

**गुमला।** गुमला थाना क्षेत्र के फसिया नदी टोली निवासी स्व. कृष्णा राम का पुत्र विकास राम (16) ने गुरुवार को घर पर तौलिया के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार परिवार के सभी सदस्य जब घर पर थे तो विकास अपने रूम का दरवाजा बंद कर घर में तौलिया से फांसी लगा लिया। जब उसकी मां खाना खाने के लिए उसे बुलाने गयी तो रूम का दरवाजा बंद पाया। छेद से झांक कर देखा तो वह तौलिया के सहारे लटक रहा था। जिसके बाद मां ने हल्ला कर लोगों को जुटाया। घटना की जानकारी गुमला पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर शव को पोस्टमार्टम हाउस में शीत गृह में रखा गया है।

### जमीन विवाद मामले में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत

**मरकच्चो (कोडरमा)।** नवलशाही थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलवरिया पंचायत के ग्राम बीघा में विगत 5 मई को हुई जमीनी विवाद (खुनी संघर्ष) के मामले में घायल हुई महिला की रिम्स में इलाज के दौरान बुधवार मौत हो गयी। जहां गुस्साए ग्रामीणों ने फरार अभियुक्त को गिरफ्तारी की मांग करते हुए विपक्षीयों द्वारा किए गए मुकदमा को हटाने की मांग करते हुए पुरनाडीह चौक स्थित कोडरमा-गिरिडीह मुख्य सड़क गुरुवार की सुबह को लगभग दो घंटा जाम कर दिया। जिससे वाहनों की दोनों तरफ लम्बी कतार लग गयी और आवागमन में रहगिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हलाकि सड़क जाम की सूचना मिलते हीं जिप अध्यक्ष रामधन यादव, नवलशाही थाना प्रभारी अनिल सिंह व फुलवरिया मुखिया संजय मेहता द्वारा परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा की आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा व विपक्ष द्वारा किए गए मुकदमा को हटा देने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद सड़क जाम हटाया गया।

### मुकदमा दर्ज करने के विरोध में थाना घेरा

**इटखोरी।** दलितों के साथ मारपीट तथा घरों में तोड़फोड़ करने से संबंधित मामला दर्द होने के पश्चात इटखोरी की जिला परिषद सदस्य सरिता देवी के पति भरत साव के समर्थक स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध गोलबंद हो गए हैं। गुरुवार को जिप सदस्य के पति के समर्थकों ने इटखोरी के अंचल कार्यालय तथा थाना का घेराव किया। इस दौरान नेता के समर्थकों ने अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। मालूम हो कि बीते 29 मई को प्रखंड के ग्राम मलकपुर में दलित समुदाय के लोगों के साथ मारपीट तथा उनके घरों में तोड़फोड़ की घटना को लेकर स्थानीय थाना में जिला परिषद सदस्य सरिता देवी के पति भरत साव समेत 11 लोगों के विरुद्ध भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस प्राथमिकी के विरोध में गुरुवार को जिप सदस्य के प्रति के समर्थकों ने स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई के विरुद्ध कड़ा विरोध जताया। समर्थकों ने पहले अंचल कार्यालय इसके बाद थाना का घेराव किया। जिप सदस्य के प्रति के समर्थकों का कहना है कि अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी ने दुर्भावना से ग्रसित होकर प्राथमिकी दर्ज की है। इधर थाना प्रभारी निरंजन कुमार मिश्रा ने बताया कि मलकपुर गांव में दलित समुदाय के लोग बंदोबस्त की हुई जमीन में अपना घर बना रहे थे।

### चोरी का स्क्रैप लोड पिकअप सहित एक चोर को दबोचा, एक फरार

**चंदवा।** चंदवा के चकला स्थित अभिजीत प्लांट से हो रहे लोहा चोरी पर रोकथाम को लेकर एसपी अंजनी अंजन के निदेशन में पुनि सह थाना प्रभारी बबलू कुमार की अगुवाई में चंदवा पुलिस की टीम ने अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुनि सह थाना प्रभारी बबलू कुमार की अगुवाई में चंदवा पुलिस की टीम ने प्लांट से चोरी किये गए स्क्रैप से भरा पिकअप के साथ एक चोर भरत उरांव पिता चोरिया उरांव (दामोदर चंदवा) को टोरी रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पिकअप का चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। गिरफ्तार भरत उरांव ने फरार चालक के सम्बंध में पूछे जाने पर उसका पहचान पंकज जायसवाल (कुजरी चंदवा) के रूप में दिया। पुनि सह थाना प्रभारी बबलू कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अभिजीत प्लांट से स्क्रैप चोरी कर इक्कठा किया जाता है व जमा होने के बाद उसे पिकअप व ओमनी में लोड कर बालूमाथ, चंदवा, कुडू व लोहरदगा ले जाया जाता है।

### लव जिहाद में नाबालिग को फंसानेवाला गिरफ्तार

**कैरो /लोहरदगा।** कैरो थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी को लव जिहाद के चक्कर में फसाकर मुस्लिम युवक द्वारा लेकर फरार होने की घटना का भंडाफोड़ हुआ है। नाबालिग लड़की को भगाने की खबर पर कुडू थाना पुलिस ने दोनों को बस स्टैंड से पकड़कर कैरो थाना पुलिस को सौंपा दिया। घटना को ले कर क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गया था, जिसे पुलिस द्वारा शांत कराया गया। मिली जानकारी अनुसार बुधवार को कुडू थाना क्षेत्र के ननतिलो गांव निवासी फजलुद्दीन अंसारी का पुत्र मुस्ताक अंसारी द्वारा अपने प्रेम जाल में फंसाकर कैरो थाना क्षेत्र की विशेष समुदाय के एक नाबालिग को कुडू के रास्ते भगा ले जाया जा रहा था। तभी कुडू बस स्टैंड में गश्ती में निकली पुलिस को इसकी भनक लगी। जिसके बाद पूछताछ के क्रम में खुलासा हुआ कि मुस्ताक अंसारी द्वारा नाबालिग को भगाया जा रहा है। गश्ती में निकली पुलिस द्वारा दोनों को पकड़कर कुडू थाना लाया गया।

# मध्यस्थता से वादों के निष्पादन में दोनों पक्षों को होती है सहूलियत : कविता खाती

## मन का मिलन पखवाड़ा के चौथे दिन 12 मामले मध्यस्थता के लिए अग्रसारित

### 9 मामलों को किया गया निष्पादन

खबर मन्त्र संवाददाता

**रांची।** झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के तत्वावधान में चल रहे मन का मिलन पखवाड़ा के चौथे दिन गुरुवार को न्यायालय में लंबित 12 वादों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया। साथ ही इस कार्यक्रम में 5 आवेदन भी आया और 9 वाद का सफल निष्पादन किया गया। न्यायालय से मध्यस्थता के लिए भेजे गए एक वाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इस वाद में पत्नी ने कुटुंब न्यायालय रांची में मुकदमा दायर किया था। इस वाद को

समझौता के लिए मध्यस्थता केंद्र रांची भेजा गया था, जिसमें मध्यस्थ मनीषा रानी के अथक प्रयास से दोनों पक्ष राजी खुशी एक साथ रहने को तैयार हो गए। जिसमें दोनो पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। डालसा के सचिव ने बताया कि किसी प्रकार के कानूनी जानकारी और परामर्श देने के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची, मध्यस्थ, पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक उपास्थित रहें। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को हो जिसके लिए रांची जिला के प्रखंड और गांव में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।इधर बरियातू के बड़गाईं में विधिक जागरूकता शिविर का अयोजन किया गया। जहां लोगों को मध्यस्थता के बारे में जानकारी दी गई। इस क्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्ता कविता खाती ने मध्यस्थता के लाभ के बारे में जानकारी दी और बताया कि मध्यस्थता से वाद का निष्पादन होने पर दोनों पक्षों का समय व पैसे के साथ संबंध की भी रक्षा होती है। मौके पर पीएलबी स्नेहलता दुबे, प्रीति पाल, संपा दास, राजा वर्मा ने मध्यस्थता की प्रक्रिया की जानकारी दी।

## जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ और डीएसपीएमयू के बीच एमओयू साईन

खबर मन्त्र ब्यूरो

**रांची।** जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ नयी दिल्ली और डीएसपीएमयू रांची के मध्य शोध में सहभागिता के तहत एमओयू पर गुरुवार को हस्ताक्षर किया गया। पांच वर्ष की अवधि वाले इस एमओयू में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रांची के अलावा अन्य 7 संस्थान शामिल है। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची के बॉटनी विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉ गीतांजलि सिंह के अधीन इस वृहत प्रोजेक्ट का विषय भारत के जनजातीय समुदाय के खाद्य प्रणाली से सबंधित है। इस वृहत प्रोजेक्ट की कुल अनुदान राशि 9, 88,65,758 की है। यह जानकारी पीआरओ प्रो राजेश कुमार सिंह ने दी।

## नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

**कान्हाचट्टी।** पुलिस ने बुधवार को राजपुर गांव के बसरिया टांड टोला में छापेमारी कर अवैध शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यहां घर के भीतर कच्चा स्पिरिट व कैरेमल का प्रयोग करते हुए नकली शराब बनाई जाती थी। फर्जी रैपर, क्यूआर कोड लगाकर पैकिग करके उसको बेच देते थे। पुलिस ने एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक घर से 40 लीटर कच्चा स्प्रिट, 449 खाली बोटल, बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाने वाली उपकरण, रैपर, ढक्कन सहित कई अन्य चीज बरामद किया है। राजपुर थाना परिसर में गुरुवार को थाना प्रभारी ने ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई कार्रवाई के संबंध में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि राजपुर गांव के बसरिया टोला निवासी अभिषेक कुमार दांगी अपने घर में नकली शराब बनाता है।इसे विभिन्न विदेशी शराब कंपनियों के बोतल में पैक कर जगह-जगह सप्लाई कर रहा है। सूचना के आलोक में इस पर पुलिस ने गांव में छापा मारा तो अभिषेक कुमार अपने मकान में अवैध शराब बनाने तथा पैकिग करने के काम में लगे हुए थे। पुलिस ने उसे शराब बनाने वाली उपकरण के साथ दबोच लिया और थाना ले आई,पकड़े गए आरोपी के उपर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है।

# बीएयू में पहली बार हो रहा प्लेसमेंट मेला और इंडस्ट्री मीट

खबर मन्त्र ब्यूरो

**रांची।** बिरसा कृषि विवि में पहली बार दो दिवसीय प्लेसमेंट मेला एवं इंडस्ट्री मीट-2023 का आयोजन किया जा रहा है। बीएयू स्टूडेंट काउंसीलिंग एंड प्लेसमेंट सेल एवं आईसीएआर-राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (नाहेप) के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बीएयू के अधीन सभी महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राएं हिस्सा ले सकेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह शुक्रवार प्रातः 11 बजे बीएयू के कृषि संकाय स्थित प्रेक्षागृह में होगा। इस समारोह के श्रम मंत्री मुख्य अतिथि सत्यानंद भोक्ता और विशिष्ट अतिथि नाबार्ड के महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह होंगे। इसकी अध्यक्षता कुलपति डॉ ओंकार सिंह करेंगे। कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओ के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। इस कार्यक्रम से कृषि विश्वविद्यालय और उद्योगों के बीच सहयोग, समन्वयय एवं सबंध को मजबूत बनाने और विवि के छात्र-छात्राओं के लिए निजी एवं एनजीओ क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने पर बल मिलेगा। कुलपति ने कहा कि इस कार्यक्रम में एग्रीकल्चर, वेटनरी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एवं एमबीए समेत विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र-छात्राएं भाग ले सकेंगे।विश्वविद्यालय समन्वयय (यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसीलिंग एंड प्लेसमेंट सेल) डॉ बीके झा ने बताया कि कार्यक्रम में झारखंड चैंबर की सहभागिता की भी रहेगी। मीट के माध्यम से विश्वविद्यालय में उद्योगों को अपने उत्पाद और सेवाओं को पहली बार प्रदर्शित करने एवं गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन के नियोजन का अवसर मिलेगा। मेला में 10 से अधिक कंपनियों के भाग लेंगी। इनमें एक कंपनी केवल स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को प्लेसमेंट देगी। इसके अलावा छात्र-छात्राओं के लिए बीएयू एलुमनाई के साथ अंतरमिलन, विशेषज्ञों के साथ कृषि एवं संबद्ध विषयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए नियोजन की संभावनाएं विषय पर पैनल चर्चा, विशेषज्ञों द्वारा छात्रों का संवेदीकरण एवं संस्थानों द्वारा परामर्श कार्यक्रम भी रखे गये हैं।

## तिगावल जंगल के समीप से आठ गोवंशीय पशु जब्त, तस्कर धराया

खबर मन्त्र संवाददाता

**चैनपुर।** चैनपुर थाना क्षेत्र के तिगावल जंगल के समीप से पुलिस ने तस्करी के लिए जा रहे 8 गोवंशीय पशुओं को जब्त किया है। वहीं मौके पर पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। चैनपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तिगावल जंगल के समीप से कुछ लोग अवैध गोवंशीय पशुओं को मारते पीटते हुए तस्करी को ले जा रहे हैं। जिसके बाद चैनपुर थाना के एक एस आई मानिक मार्डी एवं वासुदेव सवैया दल बल के साथ सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 8 गोवंशीय पशु को जब्त कर थाना ले आयी। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध गोवंशीय पशु तस्करी के खिलाफ लगातार कारवाई जारी रहेगी। वहीं जब्त पशुओं को वरीय पदाधिकारियों के आदेश पर जरूरतमंद किसानों के बीच जिम्मेनामा लिखाकर उन्हें सौंप दिया जायेगा।

### एल्युमिनियम कारखाना को लेकर धरना छह को

**गुमला।** झारखंड नवनिर्माण दल गुमला इकाई के बैनर तले गुमला को रेल लाइन से जोड़ने व गुमला-लोहरदगा जिला के सीमांत पर एल्युमिनियम कारखाना निर्माण का कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर 6 जून 2023 को दिन के 11 बजे जिला मुख्यालय गुमला में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित की जायेगी। धरना कार्यक्रम के जरिए इन मांगों को जोरदार तरीके से उठाते हुए आगामी आंदोलन की भी रूपरेखा की घोषणा की जायेगी।

## चेन छिनतई करने वालों का शीघ्र पर्दाफाश करे प्रशासनः विचार मंच

खबर मन्त्र संवाददाता

**लोहरदगा।** शहर में गुरुवार को दिनदहाड़े एक महिला से चलती बाइक से चेन छिनतई का मामला घटा। जिसे लेकर लोगों में काफी रोष है। सामाजिक विचार मंच के संयोजक कवलजीत सिंह ने जिला प्रशासन से मांग की है कि गुरुवार को सवेरे हुई चेन छिनतई की घटना में शामिल लोगों का पर्दाफाश प्रशासन शीघ्र करे, क्योंकि ऐसी घटना लोहरदगा शहरवासियों को चौंकाने वाली है। मालूम हो कि सवेरे करीब छह बजे के बीच छत्तर बगीचा के सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर एन कुजूर अपनी पत्नी (शिक्षिका) पुष्पा बाखला को रेलवे स्टेशन बाइक से छोड़ने जा रहे थे। इस बीच न्यू रोड पर्ल होटल के समीप लाल रंग की बाइक से दो युवक पीछा करते हुए आये एवं उनकी पत्नी के गले से सोने की चेन छीन कर फरार हो गये। उन्होंने जब पीछा किया तो वे लोग न्यू रोड कादिर लेन की ओर भाग गये। बाइक पर पीछे बैठा युवक लाल और सफेद रंग की शर्ट पहने था। वह दोनों हाथ से पीछे नंबर प्लेट को ढंक कर रखा था।

# बिलिंग के 5 दिनों के अंदर भुगतान पर मिलेगी दो फीसदी की छूट

### नयी बिजली दरों के साथ नयी सुविधाएं हुई लागू

खबर मन्त्र संवाददाता

**रांची।** झारखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से गुरूवार को बिजली की नई दरें घोषित कर दी गयी है। इसके तहत 6.50 फीसदी टैरिफ वृद्धि को आयोग ने मंजूरी दी। जहां झारखंड बिजली वितरण निगम ने 17 फीसदी बिजली दरों में वृद्धि की बात की थी। वहीं, आयोग ने अपने निर्णय में आम जनता के हितों का ख्याल रखते हुए यह निर्णय लिया। आयोग की ओर से बिजली दरों में पांच से लेकर 15 पैसे तक की वृद्धि की गयी है। आयोग ने कई महत्वपूर्ण बातों में जनता का ध्यान रखा है। जिसमें अगर उपभोक्ता बिलिंग के पांच दिनों के अंदर अपने बिल का भुगतान करते हैं तो उपभोक्ताओं को कुल बिल में दो फीसदी की छूट दी जायेगी।

**एक फीसदी या अधिकतम 250 रूपए की मिलेगी छूट :** ऑनलाइन या किसी डिजिटल मोड से बिल का भुगतान किए जाने पर पूरी राशि पर एक फीसदी की छूट मिलेगी। जिसकी अधिकतम राशि 250 रुपए होगी। इसके अलावा लोड फैक्टर रिबेट का लाभ सभी उपभोक्ताओं को दिया जायेगा। जिनका लोड फैक्टर 65 फीसदी से अधिक होगा। इसके लिये अधिकतम सीमा 15 फीसदी होगी। आयोग ने अलग अलग शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया है। आयोग ने इस टैरिफ में भी कोई मॉनिटरिंग शुल्क नहीं रखा है। इसके अलावा आयोग ने हर महीने एक फीसदी छूट को भी बरकरार रखा है। जिसकी अधिकतम सीमा बिलिंग राशि के तीन फीसदी तक होगी। इसके अलावा प्रीपेड मीटर लगाने के एक महीने के अंदर पूरी सुरक्षा जमा राशि वापस कर दी जायेगी। उपभोक्ता श्रेणी के लिये उर्जा शुल्क पर तीन फीसदी की छूट है।

**फिक्सड चार्जेस में की गयी वृद्धि :** जहां प्रति यूनिट बिजली दरों में सामान्य वृद्धि की गयी है। वहीं, फिक्सड चार्जेस में अंतर देखा जा रहा है। जहां पहले घरेलू ग्रामीण उपभोक्ता फिक्सड 20 रुपए प्रति कनेक्शन फिक्सड चार्ज देते थे। वहीं अब 50 रुपए प्रति कनेक्शन फिक्सड चार्ज लिया जायेगा। घरेलू शहरी उपभोक्ताओं से ये राशि 75 रुपए प्रति कनेक्शन प्रति माह ली जाती थी। जो अब सौ रुपए लिया जायेगा। घरेलू एचटी कनेक्शन पर 100 रुपए फिक्सड चार्ज लिया जाता था। जो अब 150 रुपए लिया जायेगा। कॉमर्शियल ग्रामीण उपभोक्ताओं से पहले 50 केडब्लयू लिया जाता था। जो अब सौ रुपए लिये जायेंगे। इसकी तरह कॉमर्शियल शहरी उपभोक्ताओं 100 केडब्लयू प्रति महीना की जगह अब 150 रुपए लिये जायेंगे।

**घोषित दरें एक जून से हुई लागू :** नयी दरें एक जून से ही लागू होने का आयोग ने एलान किया। इसके तहत घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं को अब बिजली 5.82 रूपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। वहीं घरेलू शहरी उपभोक्ताओं को 6.30 रुपए प्रति यूनिट, घरेलू एचटी को अब 6.15 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। कॉमर्शियल ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली 5.80 प्रति यूनिट, कॉमर्शियल शहरी को 6.15 रूपए प्रति यूनिट देने होंगे।

### कृषि कार्यों के बिजली दरों में बदलाव नहीं

कृषि कार्यों के लिये बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले जहां कृषि उपयोगिता के लिये पांच रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती थी, वहीं नयी दरें घोषित होने पर भी बिजली पांच रुपए प्रति यूनिट की दर से ही मिलेगी। औद्योगिक उपयोगिता के लिये लो टेंशन कनेक्शन पर 5.90 रुपए प्रति यूनिट लिया जायेगा। हाई टेंशन कनेक्शन पर 5.65 प्रति यूनिट, हाई टेंशन स्पेशल सर्विस पर 5.15 रुपए प्रति यूनिट लिया जायेगा। वहीं, संस्थागत उपयोग के तहत स्ट्रीट लाइट के लिये 6.30 प्रति यूनिट लिया जायेगा. आरटीएस के लिये 5.40, एमईएस के लिये 5.40 राशि ली जायेगी। बता दें ये दरें बिना सरकारी सब्सिडी के घोषित की गयी है।

### नाबालिग के अपहरण में तीन आरोपी गये जेल

**कुडू/लोहरदगा।** कुडू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामला प्रकाश में आया था। मामले को लेकर कुडू थाना में कांड संख्या 69/23 धारा 363/366ए के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। बताया जाता है की विगत 23 मई दिन मंगलवार की दोपहर से लड़की अपने घर नहीं आयी। लापता नाबालिग लड़की न नैंतीलो निवासी मजुद्दीन अंसारी की पुत्री साजिया खातून है। सात दिनों से लड़की का कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी जारी है। इसे लेकर तीन आरोपियों को जेल भेजा गया।

### इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक युवक व एक महिला की मौत

**कोडरमा।** कोडरमा-गया रेलखंड के कोडरमा स्टेशन पर गुरुवार की सुबह करीब 8:10बजे धनबाद-देहरी ऑन सोन इंटरसिटी एक्सप्रेस से गिरकर एक युवक और महिला गंभीर रूप से घायलों हो गये। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन धनबाद की तरफ से कोडरमा स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन की स्पीड कम हो रही थी, इस दौरान ट्रेन में सवार महिला ग्राम टिकर जिला चतरा निवासी 34 वर्षीय ममता देवी पति अजय कुमार सिंह चलती ट्रेन से नीचे उतर गई। जिसके बाद महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच में चली गई। महिला को गिरता देख ट्रेन पर सवार ग्राम हीरोडीह थाना जयनगर निवासी 23 वर्षीय दिनेश कुमार पिता सुभाष चन्द्र यादव महिला को बचाने के लिए चलती ट्रेन से उतर गया। इस दौरान वह भी ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना में युवक और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने दोनों घायलों को तत्काल एंबुलेंस के द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। जिसके बाद दोनों शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। **युवक के शव आया गांव, पसरा मातम :** जयनगर थाना क्षेत्र के हीरोडीह निवासी 23 वर्षीय दिनेश यादव पिता सुभाष चंद्र यादव की रेल हादसे में गुरुवार को मौत हो गई।

# विश्व स्तर पर सोचें और स्थानीय रूप से कार्य करें: डॉ टीके शांडिल्य

## विश्व पर्यावरण दिवस पर डीएसपीएमयू में 7 दिवसीय आयोजन का आगाज

खबर मन्त्र ब्यूरो

**रांची।** पर्यावरण एवं जलवायु को केंद्रबिंदु में रखते हुए गुरुवार को एक से 7 जून तक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) में कई कार्यक्रमों के आयोजन किया गया है। इसी से संबंधित उदघाटन सत्र का आयोजन वीसी डॉ तपन कुमार शांडिल्य की अध्यक्षता में की गयी। इस सत्र की मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्य वन संरक्षक झारखंड, डॉ दीक्षा प्रसाद और विशिष्ट अतिथि के तौर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के पूर्व कुलपति डॉ सुरेश प्रसाद सिंह आमंत्रित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति डॉ तपन कुमार शांडिल्य ने पर्यावरण की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान संदर्भ में तीन पी यानी पॉपुलेशन, पावर्टी और पॉल्यूशन पर्यावरण को अत्यधिक प्रभावित करते है। उन्होंने विशेष तौर पर पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को वर्तमान संदर्भ में पर्यावरण के असंतुलन के लिए अत्यधिक जिम्मेदार माना। उन्होंने काफी तथ्यपूर्ण तरीके से पर्यावरण को प्राचीनतम इतिहास के ग्रंथ ऋग्वेद से सामंजस्य दिखाते हुए कहा कि इस प्राचीनतम ग्रंथ में भी पर्यावरण संरक्षण को अति महत्वपूर्ण कारक माना गया है। उन्होंने कई धर्म और संस्कृति में वन, पौधों और जलवायु को देवी देवता का प्रतीक चिन्ह मानने की बात कही। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के संतुलन कायम रखने से ही जीव और मानव का विकास संभव है। उन्होंने अपने उदबोधन के अंत में कवि नरेश

सक्सेना की पर्यावरण से संबंधित सारगर्भित कविता को दोहराया, जिसकी अंतिम पंक्तियां थी, लिखता हूं अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के दाहघर में हो मेरा अंतिम संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉ दीक्षा प्रसाद ने स्लाइड प्रेजेंटेशन के जरिए पर्यावरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जीवन शैली को इस प्रकार ढालने की बात कही ताकि प्रकृति से जुड़े संसाधनों का कम से कम दोहन हो। उदाहरण के तौर पर सोलर ऊर्जा का प्रयोग, ऊर्जा का अनावश्यक खर्च न करने की आदत, जल संसाधनों की बचत आदि। उन्होंने यह भी बताया कि एक्शन फॉर लाइफ मिशन के तहत कई विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण से सर्बधित कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है। वहीं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के पूर्व कुलपति डॉ सुरेश प्रसाद सिंह ने पर्यावरण से जुड़े अपने कई महत्वपूर्ण अनुभवों को विद्यार्थियों के साथ साझा किया। इसके पूर्व द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरूआत की गई। विषय प्रवेश डॉ गणेश चंद्र बास्के, धन्यवाद ज्ञापन डीएसडब्ल्यू डॉ एसएम अब्बास और मंच संचालन डॉ शुचि संतोष बरवार ने किया। कार्यक्रम के अंत में कुलपति डॉ टीके शांडिल्य के साथ उपस्थित अतिथि, शिक्षक और विद्यार्थियों ने पर्यावरण से सबंधित शपथ ली। इस अवसर पर डॉगीतांजलि सिंह, डॉ शमा सोनाली सहित अन्य शिक्षक मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के आईक्वैक, एनएसएस और एनसीसी के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। यह जानकारी पीआरओ प्रो राजेश कुमार सिंह ने दी

# गोपालगंज सैनिक स्कूल में बड़े घोटाले का खुलासा

## स्कूटी, चोरी की बाइक और ई-रिक्शा से करोड़ों की बालू ढुलाई, जांच जारी

खबर मन्त्र संवाददाता

**गोपालगंज।** गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड के सिपाया में बिहार का दूसरा सैनिक स्कूल बन रहा है। भवन अर्धनिर्मित है। इसके निर्माण में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने फेज-टू में 27 करोड़ 59 लाख 50 हजार की राशि की स्वीकृति दी, ताकि भवन का अधूरा निर्माण का काम पूरा हो सके और किराए के भवन में चल रहे सैनिक स्कूल को खुद के भवन में शिफ्ट किया जा सके। लेकिन भवन बनने से पहले ही सैनिक स्कूल की ये भवन अनियमितता की भेंट चढ़ गयी और एक करोड़ 75 लाख रुपए का बालू ढुलाई के नाम पर घोटाला कर लिया गया। गोपालगंज के प्रभारी डीएम अभिषेक रंजन के अनुसार, महालेखाकार की ऑडिट टीम ने बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्टेक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी कार्यालय का ऑडिट किया तो गोपालगंज सैनिक स्कूल के निर्माण में हुए 1.75 करोड़ की फजीर्वाड़ा सामने आया। ऑडिट टीम ने जांच में पाया कि सारण के बजाय मधेपुरा जिला से सफेद बालू खरीदा गया। यही नहीं, जांच के दौरान पता चला कि सफेद बालू को एंबुलेंस ई-रिक्शा, तिपहिया यात्री वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली, स्कूटर, चोरी की मोटर बाइक के माध्यम से ले जाया गया था, वह भी प्रत्येक वाहन से 900 ल सीएफटी बालू को परियोजना स्थल तक ढुलाई की लागत का भुगतान 1 करोड़ङ्क75 लाख का फर्जी चालान पर भुगतान किया गया। भवन निर्माण में स्कूटी, चोरी की बाईक, ई-रिक्शा और ट्रैक्टर-ट्रॉली से 1 करोड़ 75 लाख की सफेद बालू की ढुलाई कर राशि की निकासी करने के मामले में सरकार के आदेश पर इसकी जांच डीएम के स्तर से शुरू हो गयी है। प्रभारी डीएम अभिषेक रंजन ने मामले की जांच सीनियर डिप्टी कलेक्टर राधाकांत और डीटीओ मनोज कुमार रजक को दी है।

## बिहार का एक ऐसा गांव जहां इंटर पास हैं सिर्फ 3 लोग

**गया।** बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों का ड्रॉपआउट यानी बच्चों के स्कूल छोड़ने के मामले में लगातार वृद्धि देखी गई है। इसे रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने कई कदम उठाए हैं। बावजूद सरकारी विद्यालय से ड्रॉपआउट बच्चों के संख्या में कमी नहीं आ रही है। बच्चों के ड्रॉपआउट के मामले को कम करने के लिए शिक्षा विभाग बच्चों के माता-पिता की काउंसलिंग करने की योजना थी लेकिन यह धरातल पर नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि पांचवी कक्षा के बाद ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या अधिक है। हम आपको गया जिले के एक ऐसे गांव की कहानी बताने जा रहे हैं जहां इस गांव के सभी बच्चे पांचवी कक्षा की पढ़ाई पूरा करने के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं।

**पहाड़ों के बीच में बसा भुपनगर गांव, जानें को सड़क नहीं :** जी हां यह पूरी कहानी जिले के आमस प्रखंड क्षेत्र के भुपनगर गांव की है। दरअसल भुपनगर गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और इस गांव में जाने के लिए कोई सड़क नहीं है।

यहां के लोग पथरीली और जंगली रास्ते से होकर स्थानीय बाजार या प्रखंड मुख्यालय आमस पहुंचते हैं। आमस से भुपनगर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है जहां पर कक्षा एक से पांचवीं तक के बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन 5वीं की पढ़ाई पूरा करने के बाद इस गांव के बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते।

पांचवी के बाद सिर्फ 8-10 बच्चे ही आगे की पढ़ाई कर सके। इस गांव मे तकरीबन 400 से अधिक लोग हैं। सभी महादलित समुदाय से आते है। गांव में शिक्षा को लेकर कोई जागरुक नही है। पिछले 20 वर्षो में इस गांव के तकरीबन 200 लोगों ने पढ़ाई की, लेकिन पांचवी के बाद सिर्फ 8-10 बच्चे ही आगे की पढ़ाई कर सके। वह भी दूसरे गांव में रहकर।

आज भी यहां कि स्थिति ऐसी है कोई आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता हालांकि शिक्षा विभाग में हुए कुछ बदलाव के बाद अब कुछ बच्चों का नामांकन स्कूल के द्वारा ही अन्य गांव स्कूल के छठी कक्षा में कराया गया है लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। अभी तक सिर्फ 3 बच्चे ही इंटर पास।

## एक नजर में

### प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा मामला लंबित

**मधुबनी।** अगर आपका भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा मामला लंबित पड़ा हुआ है तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। क्योंकि इन सब मामलों का समाधान आप 5 जून तक करवा सकते हैं। बताया गया कि जिले में भी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। लेकिन कई किसान हाल के दिनों में इस योजना का लाभ लेने से वंचित हो गए हैं, दरअसल, मुख्य सचिव की ओर से दिए गए निर्देश के आलोक में डीएम अरविंद कुमार ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के कृषि विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान लाभुक किसानों का लंबित ईकेवाईसी, लंबित बैंक खाता को एनपीसीआई एवं आधार से लिंक कराने की जानकारी ली गई।

### आईएएस बनकर देश सेवा करना चाहती है ग्रिजली विद्यालय की पलक

**कोडरमा।** सीबीएसई के 10वीं परीक्षा के परिणाम में 97 प्रतिशत अंक प्राप्त कर कोडरमा जिले की छठी टॉपर ग्रिजली विद्यालय की पलक हिसारिया आगे चलकर आईएएस बन देश सेवा में जाना चाहती है। झुमरीतिलैया के अड्डी बंगला निवासी प्रदीप कुमार हिसारिया और नेहा हिसारिया की पुत्री पलक हिसारिया ने अपनी पढ़ाई तिलैया डैम स्थित ग्रिजली विद्यालय से की है। अपनी इस सफलता का श्रेय पलक अपने माता पिता एवं शिक्षकों को देती है। पलक ने अपने सफलता का मूल मंत्र स्वअध्ययन बताया। उसने कक्षा में दिये गये कार्यो को स्वअध्ययन के माध्यम से पूरा किया। पलक के मुताबिक वह प्रतिदिन चार घंटे का स्वअध्ययन करती थी। अगले साल के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने बाले छात्रों को वह सन्देश देना चाहती है कि क्लास की नियमित पढ़ाई के आलवे उन्हे स्वअध्ययन पर भी ध्यान देना होगा जो उन्हें सफलता दिलायेगा। पलक हिसारिया ने बताया की ग्रिजली विद्यालय के शिक्षकों ने जो पढ़ाया और जो टिप्स दिये वह बोर्ड परीक्षा में काफी काम आये।

### नवनियुक्त शिक्षकों को उपायुक्त ने दिया प्रशिक्षण

**कोडरमा।** जिला मुख्यालय स्थित परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में नवनियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों (टीजीटी) के लिए चल रहे ग्यारह दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में गुरुवार को उपायुक्त आदित्य रंजन शामिल हुए और शिक्षकों को उनके कर्तव्य और दायित्वों का बोध कराते हुए कहा की आपलोगों पर देश के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेवारी है, ऐसे में आपलोग एक जिम्मेदार शिक्षक बन कर विधालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करें और छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करें। डीसी श्री रंजन ने शिक्षकों को स्कूली व्यवस्था, प्रशासन और प्रधानाध्यापकों के दायित्वों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि विद्यालय का संस्थागत विकास हो इसका हमेशा प्रयास करें ताकि विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा एवं सकारात्मक वातावरण स्थापित हो सके। मौके लर प्रशिक्षु उप समाहर्ता सारांश जैन, पीएमयू सदस्य विशाल कुमार, अनुज सिंह, सनी कुमार आदि मौजूद थे।

### राजद ने किया जिलास्तरीय अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन

**डोमचांच (कोडरमा)।** राष्ट्रीय जनता दल कोडरमा के बैनर तले डोमचांच के विवाह भवन में गुरुवार को जिला स्तरीय अम्बेडकर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिप अध्यक्ष सह राजद जिलाध्यक्ष रामधन यादव जबकि संचालन पार्टी के दलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संजय दास ने किया। परिचर्चा की शुरुआत बाबा साहब डॉ बीआर अम्बेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। वहीं जिप अध्यक्ष सह राजद जिलाध्यक्ष ने परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के महान विभूति भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने देश ही नही दुनियां में होने वाले अत्याचार, शोषण और जातीय, धार्मिक भेदभाव का अध्ययन करने वाले सख्सियत रहे।

### प्रधानमंत्री के अड़ियल रवैया से देश की जनता को हो रही है घुटन : रवींद्र

**कोडरमा।** पूर्व प्रत्याशी विधानसभा कोडरमा सह पूर्व जिलाध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा कोडरमा रविंद्र शांडिल्य ने आक्रोश जताते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा की भारतीय जनता पार्टी नीत की केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी के अड़ियल रवैया से देश में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया है, जिससे देश की जनता घुटन महसूस कर रही है। झारखंड राज्य के प्रति गंभीर और संवेदनशील रहने वाली माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुरमू को संसद भवन के उद्घाटन में निमंत्रण नहीं दिया जाना श्री मोदी की तानाशाही रवैया को दर्शाता है। वहीं भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के द्वारा कथित तौर पर यौन शोषण का आरोपों की जांच नहीं कराने से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

### श्याम मंदिर में किया गया ताली कीर्तन का आयोजन, निकाली गई निशान यात्रा

**झुमरीतिलैया (कोडरमा)।** श्याम मंदिर पानी टंकी रोड में गुरूवार को बारस को लेकर बाबा श्याम का आलौकिक श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर अखंड ज्योत में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए एवं खीर चुरमा का भोग लगाया गया। वहीं मंदिर कमिटि के सज्जन खेतान ने बताया कि खाटु नरेश की पूजा कलयुग में घर-घर में हो रही है। इधर देर शाम ताली कीर्तन का आयोजन किया गया। मौके पर तन्मय लड्ढा ने हजारी लिखवाता हूं हर बारस को तनखा मिलती है बारस को.....द्रो दिन के बदले 30 दिनों की मौज करू अपने ठाकुर की सेवा भजनों से करू।

### पुणे में चार दिवसीय फोर्थ एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन

**दुमका।** जी ट्वेंटी के तहत महाराष्ट्र के पुणे में चार दिवसीय फोर्थ एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन होना तय है। मीटिंग 19 से 22 जून तक होगा। इस बावत छात्र-छात्राओं एवं अन्य लोगों के बीच जागरूकता फैलाने को लेकर गुरुवार को केंद्रीय विद्यालय की ओर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। जिसमें छात्र-छात्राओं के अलावे उनके अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। विद्यालय के प्राचार्या नमिता भंज ने बताया कि इसमें वर्ग 11 के विज्ञान के छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्राचार्या नमिता ने बताया कि जी ट्वेंटी की अध्यक्षता भारत कर रहा है।

### सांसद ने किया आजीवन सहयोग निधि संग्रह अभियान का शुभारंभ

**जामा।** जामा प्रखंड क्षेत्र के तारबंधा गांव स्थित सांसद आवास पर गुरुवार को भाजपा संगठन द्वारा चलायें जा रहे आजीवन सहयोग निधि संग्रह अभियान की शुभारंभ भाजपा सांसद सुनील सोरेन और प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा विनोद शर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि संगठन के लिए धन संग्रह के लिए आजीवन सहयोग निधि अभियान चलाया जाता है। इस अभियान से पार्टी का संपर्क और सामाजिक जुड़ाव बढ़ता है। सहयोग निधि दाताओं के मन में राष्ट्र सेवा के लिए समर्पण का भाव और मजबूत होता है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद शर्मा ने कहा कि अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेश एवं जिला स्तर की टोली बनाई गई है। जिला, मंडल एवं बूथ स्तर तक बैठक कर योजना बनाते हुए समाज से आर्थिक सहयोग प्राप्त करना है।

### पत्रकार सुदाम प्रधान के प्रथम पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि

**चक्रधरपुर।** चक्रधरपुर के वरिष्ठ पत्रकार सुदाम प्रधान की प्रथम पुण्यतिथि पर गुरुवार को पत्रकारों ने उनक चित्र पर पुष्प आरोपित कर श्रद्धांजलि दी। प्रखंड कार्यालय के समीप स्थित मानकी मुंडा सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रामगोपाल जेना ने स्व. सुदाम प्रधान के साथ पूर्व के दिनों में पत्रकारिता के संघर्षों को याद किया। साथ ही अन्य पत्रकारों ने भी सुदाम प्रधान के साथ बिताये गए पलों को साझा किया।

### बाइक के धक्के से भैंस मरी चालक गंभीर, रेफर

**दुमका।** शहर के नगर थाना क्षेत्र के होंडा शोरूम के समीप एक बाइक सवार युवक ने एक भैंस को धक्का मार दिया। घटना बुधवार की देर रात लगभग 2 बजे की है। दुर्घटना में मौके पर ही भैंस की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं नगर थाना पुलिस ने गंभीर रूप से घायल बाइक चालक को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जप्त कर कार्रवाई में जुट गई है।

## रात में सड़क पर उतरे दुमका के उपायुक्त

### चार वाहन ओवरलोड और पांच वाहन कागजात के अभाव में किये गये जब्त

जांच करते अधिकारी एवं जप्त वाहन

खबर मन्त्र संवाददाता

**दुमका।** अवैध खनिज संपदा के उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है। इसके बाबजूद अवैध खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। जिसका नतीजा यह है आये दिन अवैध उत्खनन और परिवहन का मामला सामने आते रहता है। उपराजधानी दुमका जिला की सीमा बिहार और पश्चिम बंगाल से लगती है। प्रशासनिक स्तर से दुमका से अन्य राज्य जाने वाली तमाम रास्तों पर चेक पोस्ट बनाया गया है। सुरक्षाकर्मियों के साथ चेक पोस्ट पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिसका काम खनिज संपदा लेकर जा रहे वाहनों की जांच करना है। शायद चेकपोस्ट पर तैनात अधिकारी और कर्मी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारीपूर्वक नहीं कर पा रहे है। तभी तो जिले के डीसी को खुद कमान संभालना पड़ रहा है। बुधवार की रात डीसी रविशंकर शुक्ला, डीटीओ पी बरला और एसएसबी के अधिकारी और जवानों की टीम को लेकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुहियाजोरी चेक पोस्ट पहुंच गए। रात करीब 11 बजे से डीसी के नेतृत्व में शुरू हुई खनिज संपदा लेकर गुजरने वाली वाहनों की जांच की गई। रात करीब डेढ़ बजे तक लगभग 54 वाहनों की जांच की गई। जिसमें से 5 वाहनों को कागजात के अभाव में जप्त किया गया। जिसमें 4 पर ओवरलोड गिट्टी लदा था। पांचवे ट्रक के चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

डीसी ने अवैध रूप से खनिजों के परिवहन को रोक लगाने और ठोस कार्रवाई के लिए डीटीओ और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया। जप्त वाहनों में जेएच10 एएफ 1119, बीआर 52जी1550, आरजे14 एन 4846, सीजी15 डीजी 9790 है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस का वाहन चलाते एक वाहन बीआर 09 जीसी 7779 के चालक को पकड़ा गया। प्रशासनिक स्तर से जब्त सभी 5 वाहनों के चालक और मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जिस क्रशर प्लांट से क्षमता से अधिक वजन में गिट्टी लोड किया गया था। उसकी भी पहचान की जा रही है। ताकि वैसे क्रशर संचालकों के खिलाफ भी जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जा सके। गौर करने वाली बात यह है कि जिले में एक डीसी होते हैं। अवैध कार्यों को रोकने के लिए इनके द्वारा निर्देश जारी किया जाता। निदेर्शों को अमली जामा पहनाने के लिए अधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

### सात के खिलाफ बिजली चोरी की प्राथमिकी, 146,024 रूपया जुमार्ना

**चक्रधरपुर।** झारखंड बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक के निर्देश पर विद्युत विभाग ने चक्रधरपुर पोटका क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान सात लोगों को बिजली चोरी करते पाया गया। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया गया है।

### फांसी के फंदे से झूलकर महिला ने की आत्महत्या

**दुमका।** फांसी के फंदे से झूल एक महिला के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोरटंगा रोड की है। जहां बुधवार देर रात विवाहिता मनीषा कुमारी (35), पति के के वर्मा है। जानकारी के अनुसार गुरूवार की सुबह पति के के वर्मा ने अपनी पत्नी को फांसी के फंदे पर झूलता पाया। पति के आवेदन के आधार पर पुलिस यूडी केस दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है।

## कल सोनुवा आएंगे बिहार के मंत्री अशोक चौधरी व सांसद खीरू महतो

खबर मन्त्र संवाददाता

**चक्रधरपुर।** बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री सह जनता दल यूनाईटेड के झारखंड प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी व राज्यसभा सांसद सह जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को तीन जून से कोल्हान प्रमंडल का दौरा शुरू हो रहा है। इस दौरान तीन जून को सोनुवा के वन विश्रामागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन सह अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे। यह जानकारी जदयू के जिलाध्यक्ष बिश्राम मुंडा ने प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि सोनुवा कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। बैद्यमारा रेलवे फाटक से लेकर सोनुवा तक कई तोरणद्वार बनाए जा रहे है। बड़ी संख्या में पश्चिमी सिंहभूम के जदयू कार्यकर्ता कार्यक्रम में भाग लेंगे। बताया कि अशोक चौधरी व खीरू महतो के अलावा को-आर्डिनेटर शैलेंद्र महतो, जिला संगठन प्रभारी कौशल कुमार व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जदयू के नेता सोनुवा कार्यक्रम के बाद चार जून को पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावां जिले के दौरे में रहेंगे। बिश्राम मुंडा ने बताया कि जिला जदयू आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तैयारी में है। सदस्यता अभियान के साथ संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे है। पार्टी नेताओं के दौरे को लेकर जिला जदयू में उत्साह है। बिश्राम ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी के दौरे से संगठन में नए रक्त का संचार होगा।

## चक्रधरपुर का भरनिया गांव सौर ऊर्जा से होगा जगमग

### ग्रामीणों को 24 घंटे मिलेगी बिजली की सुविधा

खबर मन्त्र संवाददाता

**चक्रधरपुर।** चक्रधरपुर प्रखंड का भरनिया गांव सौर ऊर्जा ग्राम के रूप में विकसित होगा। भरनिया पश्चिमी सिंहभूम जिले का एकमात्र गांव है जिसे सोलर ग्राम में विकसित करने के लिए चयनित किया गया है। दिल्ली से आए दल ने भरनिया गांव के शिक्षक, महिला स्वयं समूह, किसान एवं ग्रामीणों के साथ वार्ता कर योजना के संबंध में जानकारी दी। भरनिया गांव को सौर ऊर्जा ग्राम बनाए जाने की खबर से ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। ग्रामीणों ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। चक्रधरपुर के बीडीओ संजय कुमार सिन्हा, दिल्ली से आई ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की कार्यक्रम सहयोगी भावना त्यागी, वरिष्ठ सहयोगी अंकित पांडेय व वैभव कुमार ने भरनिया पंचायत भवन में ग्रामीणों के साथ बैठक कर योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। भरनिया गांव में 700 परिवार के करीब 3 हजार आबादी निवास करती है।

सौर ऊर्जा ग्राम के रूप में विकसित होने के बाद गांव के सभी परिवारों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी। योजना के अन्तर्गत सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट, चौक-चौराहे पर हाई मास्ट लाइट लगाए जाएंगे। इसके अलावा विद्यालय, आंगनबाड़ी भवन, स्वास्थ्य उप केंद्र के छत पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। भरनिया गांव में अधिकतर कच्चे मकान है इसलिए सोलर पावर सब स्टेशन से घरों में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। मौके पर मुखिया सरिता गागराई, कनीय अभियंता प्रकाश रंजन गुप्ता, समाजसेवी गंगाराम गागराई समेत काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

## शादी के दो दिन बाद ही उजड़ा सुहाग

**गया।** बड़ी खबर बिहार से यह है कि जहां शादी के महज दो दिन बाद ही एक युवक की हत्या कर दी गई। दो दिन पहले जो युवती दुल्हन के परिधान में आई थी, वो विधवा हो गई। शादी के दो दिन बाद ही दूल्हा अशोक कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक गया जिले के गुरुआ थाना क्षेत्र के पलूहरा पंचायत के लकराही गांव का रहने वाला अशोक यादव था जो पेशे से ठेकेदार था। युवक की शादी 29 मई को थी और 30 मई की बारात लौटी थी। इसके बाद 31 मई की शाम से वो लापता हो गया था। 31 मई की शाम उसके मोबाइल पर किसी ने फोन कर बाहर बुलाया था जिसके बाद वह चला गया, लेकिन उस दिन से वापस नहीं लौटा। इस बीच गुरुवार को अहले सुबह उसका शव गुरुआ थाना के ही गुनेरी पंचायत के नहर के किनारे फेंका मिला। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस जांच में जुट गई है। डॉग स्क्वायड की मदद से अपराधियों तक पहुंचने के लिए पुलिस मदद ले रही है।

### धूमधाम से मना विश्व दुग्ध दिवस

**दुमका।** विश्व दुग्ध दिवस फुलो-झानो मुर्मू दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में गुरूवार को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झारखंड मिल्क फेडरेशन के यूनिट हेड मिलन मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम को अतिथियों ने द्वीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिथियों ने दुग्ध व्यवसाय के असीम संभावनाओं को बताया। भारत दुग्ध उत्पादन और उपयोग में प्रथम स्थान रखता है। विश्व का 22 फीसदी दुग्ध उत्पादन केवल भारत में होने की बात कही। दुग्ध उत्पादन से रोजगार को बढ़ावा मिलने और जीविकोपार्जन की असीम संभावना बताया। डॉ आलोक कुमार पांडे ने छात्रों को पठन-पाठन ध्यानपूर्वक कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दिया।

## मुखिया हत्याकांड का खुलासा, पकड़ा गया शूटर

### 26 मई को दिनदहाड़े हुई थी मुखिया की हत्या

खबर मन्त्र संवाददाता

**मधेपुरा।** बिहार की मधेपुरा पुलिस ने मुखिया दिलीप कुमार हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। सदर अनुमंडल के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दीनापट्टी में सखुआ पंचायत के मुखिया दिलीप कुमार की बीते 26 मई को दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। हत्या के इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मधेपुरा पुलिस ने फिल्मी अंदाज में हत्याकांड में शामिल शूटर को यूपी के मिजार्पुर के निकट चलती ट्रेन से पकड़ने में सफलता पाई है। मुखिया की इस हत्या के बाद जिले में कोहराम मच गया था। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ ट्रेन रोका, सड़क जाम कर आगजनी की। एसपी के 48 घंटे के भीतर हत्यारों की गिरफ्तारी और हत्या में शामिल लोगों को बेनकाब करने के आश्वासन पर किसी तरह मामला शांत हुआ था। एसपी राजेश कुमार ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि 48 घंटे में पुलिस ने लाइनर को गिरफ्तार कर हत्या के कारणों का पता लगा लिया। दरअसल दिलीप अतिपिछड़ा के लिए सुरक्षित सीट से मुखिया बने थे।

उनको चुनाव जितवाने में वहां के दो विरोधी अपराधी गुटों की अहम भूमिका थी। दोनों गुट उनको अपने कब्जे में रखना चाहता था। एक गुट से उसकी निकटता ने दूसरे गुट को उनकी हत्या के लिए तैयार कर दिया था लेकिन जिस गुट के वो निकट थे वो भी उसे मरवाने की सोच रहा था। पुलिस ने बताया कि दिलीप मुखिया अजय के निकट था। उसका अधिकांश काम वही देख रहा था। अनिल यादव जो खुद कभी फैजान गुट का सदस्य हुआ करता था उसका बेटा बौआ हाल ही में जेल से छुटा था। बौआ को यह नागवार गुजर रहा था की मुखिया सारा लाभ सिर्फ अजय-विजय यादव को दे। उसने मुखिया से 5 लाख की रंगदारी मांग दी। मुखिया ने इस बात की शिकायत बौआ की मां से कर दी फिर क्या था बौआ चिढ़ गया। उसने अपने एक अन्य अपराधी साथी नीतीश के साथ मिलकर मुखिया के हत्या की प्लान बना डाला। नीतीश ने अजय यादव से भी सेटिंग की। अजय ने तत्काल काम करने के लिए 1000 रुपये दिए जिससे उसने बाइक में तेल भराया और हत्या को अंजाम दिया। नीतीश ने काम होने की पहली सूचना अजय को फोन से दी। एसपी राजेश कुमार की मानें तो नीतीश ने मुखिया को तीन गोलियां मारीं जबकि बौवा ने दो गोलियां चलाई थी। इसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी।

# किसानों की स्थिति पर कौन चिंता करता है?

देश की सर्वोच्च अदालत ने किसानों की आत्महत्या को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को ताकीद किया है कि वह ऐसी नीति बनाये जिससे कि किसानों को आत्महत्या के लिए विवश न होना पड़े। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि किसानों की मौत के बाद उनके पीड़ित परिवार को मुआवजा देना समस्या का हल नहीं है। इसे रोकने के लिए आत्महत्या की परिस्थितियों को ही खत्म करना होगा। भारत सरकार ने देश में किसानों और खेतिहर मजदूरों द्वारा आत्महत्या किए जाने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए इसके मूल कारणों का पता लगाने और उसका निराकरण करने के उद्देश्य से व्यापक अध्ययन शुरू कराया है। इस अध्ययन में पाया गया है कि किसानों पर बढ़ता कर्ज, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, अपर्याप्त सिंचाई व्यवस्था, छोटे-छोटे हिस्सों में बंटे खेत और फसल बीमे की समुचित व्यवस्था का अभाव कृषि क्षेत्र की बदहाली का मुख्य कारण है।

**एन के मुरलीधर**

गौरतलब है कि अदालत ने यह सख्त टिप्पणी गैर-सरकारी संगठन सिटीजन रिसोर्स एंड एक्शन एंड इनीशिएटिव द्वारा दायर याचिका पर की है जिसमें गुजरात के 619 किसानों के परिवारों को मुआवजा दिये जाने की मांग की गई है। अदालत ने सरकार को यह भी कहा है कि वह किसानों की फसल की एक निश्चित कीमत तय करे। गौर करें तो किसानों की आत्महत्या के मसले पर सरकार के रवैए को लेकर पहले भी अदालत द्वारा अपनी नाराजगी जताया जा चुका है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों की आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी गत माह पहले ही राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा खुलासा किया गया कि वर्ष 2015 में 8 हजार किसान और 12 हजार खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की है। इस रिपोर्ट में आत्महत्या के लिए कर्ज को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना गया। रिपोर्ट में कहा गया कि 2015 में कर्ज न चुका पाने के कारण 2978 किसानों ने आत्महत्या की जबकि खेती से जुड़ी अन्य समस्याओं के कारण 1494 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

2015 के आंकड़ों पर गौर करें तो महिला और पुरुष किसानों को मिलाकर आत्महत्या करने वाले की कुल संख्या 12602 है, जो कि देश में आत्महत्या के कुल मामलों का तकरीबन 9.4 फीसद है। यह आंकड़े बताते हैं कि विगत वर्ष की तुलना में साल 2015 में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं में तकरीबन तीन फीसद की बढ़ोतरी हुई है। चिंताजनक तथ्य यह है कि सरकार द्वारा किसानों और कृषि संबंधी कई लाभकारी योजनाओं को आकार दिए जाने और फसल बीमा योजना लागू किए जाने के बावजूद किसानों की आत्महत्या का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कृषि मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर गौर करें तो 2004 में 4385, 2005 में 3175 और 2006 में 1901 किसानों ने आत्महत्या की। इसी तरह 2009 में 17 हजार, 2010 में साढ़े 15 हजार, 2011 में 14 हजार और 2013 में साढ़े 11 हजार किसानों ने आत्महत्या की। एक आंकड़े के मुताबिक 1998 से लेकर अब तक तकरीबन 6 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट से भी उदघाटित हो चुका है कि देश के 9 करोड़ किसान परिवारों में से 52 फीसद कर्ज में डूबे हैं और हर किसान पर औसतन 47 हजार रुपए कर्ज है। गत वर्ष पहले 'भारत में कृषक परिवारों की स्थिति के मुख्य संकेतक' शीर्षक वाली रिपोर्ट से भी उदघाटित हुआ कि आंध्रप्रदेश में 93 फीसद, उत्तर प्रदेश में 44 फीसद, बिहार में 42 फीसद, झारखंड में 28 फीसद, हरियाणा में 42 फीसद, पंजाब में 53 फीसद और पश्चिम बंगाल में 51.5 फीसद किसान परिवार कर्ज में डूबे हैं। देश में कृषि की हालत कितनी चौपट है इसी से समझा जा सकता है कि 2001 में देश में 12 करोड़ 73 लाख किसान थे, जिनकी संख्या आज घटकर 11 करोड़ से भी कम रह गई है। यानी 86 लाख किसान कृषि कार्य से विरत हुए हैं। माना जा रहा है कि प्रकृति पर आधारित कृषि, देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, प्राकृतिक आपदा से फसल की क्षति और ऋणों के बोझ के कारण बड़े पैमाने पर किसान खेती छोड़ने को मजबूर हैं।

पिछले एक दशक के दौरान महाराष्ट्र में सर्वाधिक 7 लाख 56 हजार, राजस्थान में 4 लाख 78 हजार, असम में 3 लाख 30 हजार और हिमाचल में एक लाख से अधिक किसान खेती को तिलांजलि दिए। इसी तरह उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल जैसे छोटे राज्यों में भी किसानों की संख्या घटी है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस दौरान देश में कृषि मजदूरों की संख्या में इजाफा हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2001 में जहां 10 लाख 68 हजार कृषि मजदूर थे, उनकी संख्या 2011 में बढ़कर 14 करोड़ 43 लाख हो गई। आंकड़े बताते हैं कि देश में 1990 से 2005 के बीच 20 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि कम हुई है। 2010 से 2015 के बीच विभिन्न राज्य सरकारों ने कुल 4,842 हेक्टेयर जमीन एसईजेड के लिए अधिसूचित की है। यह अलग बात है कि 80 फीसद जमीन का उपयोग नहीं हुआ है और कंपनियां इसे गिरवी रखकर बैंक से कर्ज ले रही हैं और इस जमीन का उपयोग अन्य दूसरे कामों में कर रही हैं।

गौरतलब है कि एक हजार हेक्टेयर खेती की जमीन कम होने पर 100 किसानों और 760 खेतिहर मजदूरों की आजीविका छिनती है। आज देश में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता 0.18 हेक्टेयर रह गई है। 82 फीसद किसान लघु एवं सीमांत किसानों की श्रेणी में आ गए हैं और उनके पास कृषि भूमि दो हेक्टेयर या उससे भी कम रह गई है। कृषि क्षेत्र का विकास दर भी लगातार घट रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 1950-51 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी 51.9 थी, जो 1990-91 में 34.9 फीसद रह गई। आज 2012-13 में घटकर 13.7 फीसद पर आ गई है।

## खेतिहर मजदूर बनते किसान

हाईवे निर्माण के नाम पर लाखों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हड़पा जा चुका है। पिछले तीन दशक में कृषि पर निर्भर आबादी में इजाफा दर्शाता है कि गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का आनुपातिक फैलाव नहीं हुआ है। दूसरी ओर खेती के विकास में क्षेत्रवार विषमता का बढ़ना, प्राकृतिक बाधाओं से पार पाने में विफलता, भूजल का खतरनाक स्तर तक पहुंचना और हरित क्रांति वाले इलाकों में पैदावार में कमी आना के अलावा फसलों और बाजारों की दूरी न घटने, फसलों का उचित मूल्य न मिलने, कृषि में मशीनीकरण और आधुनिक तकनीकी का अभाव भी किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। किसान क्रेडिट कार्ड और फसलों की बीमा योजनाओं के अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गुणवत्तापूर्ण बीज के उत्पादन और वितरण, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी अनगिनत योजनाओं से भी किसानों को राहत नहीं मिली है। बेहतर होगा कि सरकार किसानों और खेतिहर मजदूरों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ठोस और कारगर उपाय करे।

अपनी जमीन गंवाने के बाद किसानों के पास जीविका का कोई साधन नहीं रह गया है और वे खानाबदोशों की तरह जीवन गुजार रहे हैं। विस्थापित किए गए किसानों के लिए सरकार के पास कोई ठोस पुनर्वास नीति नहीं है। न ही उन्हें रोजी-रोजगार से जोड़ने के लिए कोई कारगर तरीका अपनाया जा रहा है। नतीजा कल तक जो किसान थे वे खेतिहर मजदूर बनते जा रहे हैं। निश्चित रूप से विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण जरूरी है। लेकिन कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण कहां तक उचित है? देश में

### काले गेहूं के उत्पादन से किसानों को बड़ी लाभ

**काले गेहूं** की पैदावार काफी बढ़ी है। इस बार जिले में 200 से अधिक किसानों ने 250 एक-ड़ से ज्यादा क्षेत्र में काले गेहूं का उत्पादन किया है। स्थानीय स?तर पर इसे छह हजार रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदा जा रहा है जबकि बड़े शहरों में इसकी कीमत 10 से 12 हजार रुपये तक मिल रही है।जिला प्रशासन का प्रयास है कि किसानों को स?थानीय स?तर भी उनकी उपज का भरपूर लाभ मिले। तिलहर के राजापुर गांव के किसान प्रेम शंकर गंगवार ने बताया कि उन्होंने इस बार परीक्षण के तौर पर एक एकड़ क्षेत्र में काले गेहूं की पैदावार की है।उन्होंने काले गेहूं से संबंधित एक प्रसंस्करण इकाई भी लगाई है जिसमें मैदे की जगह काले गेहूं के आटे से बिस्कुट बनाये जा रहे हैं। मैदे का बेहतरीन विकल्प होने की वजह से लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। गंगवार ने बताया कि काले गेहूं में कुदरती एंटी ऑक्सिडेंट और एंटीबायोटिक गुण हैं जो मधुमेह, दिल की बीमारी, कैंसर, मानसिक तनाव, घुटनों के दर्द और एनीमिया जैसे रोगों के निदान में काफी कारगर है।

काले गेहूं का आटा छिलकेयुक्त चने के सत्तू की तरह दिखता है और इसका स्वाद साधारण गेहूं की अपेक्षा अलग होता है। मगर यह काफी पौष्टिक है। इसकी फसल साधारण गेहूं की तरह ही होती है मगर पकने पर इसकी बालियां काली हो जाती हैं। मुख्य विकास अधिकारी श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि जिले के हर गांव में किसानों को काले गेहूं की खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्हें बीज उपलब्ध कराने के अलावा कृषि विभाग की एक टीम बनाई है जो कृषकों को इस खास जिंस के उत?पादन के लिये प्रशिक्षित भी कर रही है तथा समय-समय पर काले गेहूं की फसल का निरीक्षण करने के अलावा कृषकों को फसल के रखरखाव के लिए आवश्यक दिशानिर्देश भी यही टीम दे रही है।कृषि क्षेत्र में कार्यरत एक संस्था के संचालक राकेश पांडे ने बताया कि वह 2020 से ही शाहजहांपुर के किसानों को काले गेहूं की फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसमें प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। इसी का नतीजा है कि आज जिले की कलान, तिलहर तथा पुवायां तहसीलों में एक बड़े क्षेत्रफल में किसान काले गेहूं की फसल उगा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा कृषि मित्रों तथा कृषि विभाग के अधिकारियों के जरिये किसानों को लगातार काले गेहूं की पैदावार की तकनीक और इसकी बिक्री से होने वाले वित्तीय लाभ की जानकारी दी जा रही है।

यूपी क शाहजहांपुर जिले सहित पूरे देश में काले गेहूं की खेती अब प्रचुर मात्रा में होने लगी है। पूरे जिले के लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में इसे उगाया गया है। स्थानीय प्रशासन भी किसानों को इस बेहद पोषक अनाज माने जा रहे गेहूं की खेती के लिये प्रोत्साहित कर रहा है।

# लगभग 13 करोड़ किसान परिवार की पीड़ा कौन सुनेगा, कौन समझेगा

**मनोज शर्मा**

कृषि जनगणना (2015-16) के अनुसार, भारत में लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या 12.563 करोड़ है। देश में 35 प्रतिशत किसानों के पास 0.4 हेक्टेयर से कम जमीन है, जबकि 69 फीसदी किसानों के पास एक और 87 फीसदी किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है। 0.4 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान सालाना औसतन 8,000 रुपये कमाते हैं, जबकि एक और दो हेक्टेयर के बीच जमीन वाले किसान सालाना औसतन 50,000 रुपये कमाते हैं। देश मे लघु और सीमांत किसानों की न केवल आय कम है, बल्कि इनके लिए कृषि एक जोखिम भरा कार्य भी है।

**विचार मंत्र**

देश में 35 प्रतिशत किसानों के पास 0.4 हेक्टेयर से कम जमीन है, जबकि 69 फीसदी किसानों के पास एक और 87 फीसदी किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है।

देश में अब तक कृषि क्षेत्र से संबंधित जितनी योजनाएं बनती रही हैं, उनका लाभ अधिकतर बड़े किसान ही उठाते हैं। लघु और सीमांत किसान इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उन्हें इन योजनाओं की जानकारी नहीं होती। अब प्रधानमंत्री किसान योजना में इसका ध्यान रखा गया है कि समस्त लघु और सीमांत किसानों को इसमें शामिल किया जाए। नई तकनीकी अपनाने में भी लघु एवं सीमांत किसान उनकी समस्याओं को सब्सिडी देकर हल किया जाता है, जिससे मूल समस्या का निदान नहीं हो पाता है। उनके लिए कृषि व्यवसाय मॉडल विकसित करने की जरूरत है। कम से कम लागत में अधिकतम आय कैसे प्राप्त की जाए, यह उन्हें समझाना होगा। इसमें निजी क्षेत्र को भी मुख्य भूमिका निभानी होगी।

लघु एवं सीमांत किसानों के पास छोटी जोत की जमीन है, जिससे फसल की लागत बढ़ जाती है और उन्हें बहुत कम लाभ होता है अथवा नहीं के बराबर लाभ होता है। इसलिए उन्हें संगठित होकर एकसाथ मिलकर खेती करने, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन स्वयं करने के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। देश में 87 फीसदी किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं, अगर इनकी आय बढ़ेगी, तो मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

कृषि एवं गैर कृषि, दोनों क्षेत्रों में लघु एवं सीमांत किसान की आमदनी बढ़ाकर ही उनकी आय दोगुनी की जा सकती है। जापान, वियतनाम एवं दक्षिण कोरिया में भी छोटे-छोटे खेत हैं, वहां किसान अंशकालिक कृषि करते हैं। बाकी समय वे गैर कृषि कार्य करते हैं। इसे हमारे यहां भी लागू करने पर विचार किया जा सकता है। किसानों को कहां ऋण मिलेगा, बाजार

झिझकते हैं और कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के विकास हेतु अधिकतम वित्त की व्यवस्था की है। साथ ही, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में लघु एवं सीमांत किसानों की आय को बढ़ाना आवश्यक है।

लघु एवं सीमांत किसानों की आय बढ़ाने व उनके कृषि-जोखिमों को कम करने के लिए छोटी-छोटी योजनाओं के बजाय बड़ी योजनाएं बनाने की जरूरत है। अभी लघु एवं सीमांत किसान कृषि को व्यवसाय नहीं मानते, इसलिए कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं होते। कृषि से संबंधित कहां होगा, वे कैसे कुशल हो सकते हैं, इन सबकी जानकारी उन्हें देना जरूरी है। चीन में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीचोंबीच उद्योगों को विकसित किया गया है, ताकि किसान गैर कृषि कार्य करने के अलावा अपने उत्पादों को बेच सकें। भारत में जगह-जगह ऐसे मॉडल विकसित किए जाने चाहिए।

सीमांत किसान दो एकड़ से भी कम जमीन पर सब्जी एवं फल आदि उगा सकते हैं। सूक्ष्म सिंचाई, नई-नई तकनीक के उपयोग, बाजार एवं भंडारण की व्यवस्था करके लघु एवं सीमांत किसानों के लिए छोटी-छोटी जोत को भी लाभप्रद बनाया जा सकता है।

# स्पेस तकनीक से रोकेंगे खेतों के पानी की बर्बादी

**खेतों** में होने वाली पानी की बर्बादी को रोकने के लिए अब स्पेस तकनीक की मदद ली जाएगी। फसल का तापमान बताएगा कि सिंचाई की अभी जरूरत है या नहीं। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कानपुर के गांवों पर एक साल तक शोध किया और डाटा एनालिसिस के बाद एक विस्तृत मैप तैयार किया है। इसके आधार पर फसलों में पानी की मात्रा तय की जाएगी। आईआईटी कानपुर और लीसेस्टर विश्वविद्यालय यूके के वैज्ञानिक थर्मल इमेजिंग आधारित ड्रोन पर प्रयोग कर रही है। वैज्ञानिकों की टीम संस्थान के नजदीक बनी और बंसेठी गांव में प्रयोग कर रहे हैं।

गांव में चल रहे प्रयोग को देखने मंगलवार को आईआईटी व यूके के वैज्ञानिकों के साथ प्रदेश के संयुक्त निदेशक नीरज श्रीवास्तव भी पहुंचे। आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर राजीव सिन्हा ने बताया कि देश में 80 फीसदी पानी का उपयोग खेती में किया जा रहा है, जबकि इसकी जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि शोध के तहत आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खेतों में जाकर मिट्टी से लेकर फसल का तापमान, आद्रता समेत अन्य जरूरी रिकार्ड दर्ज किए गए। प्रो. सिन्हा के मुताबिक दोनों डाटा का एनालिसिस करने के बाद एक मैप तैयार किया गया है। इस मैप के अनुसार अगर खेती की जाए तो पानी की बचत होगी और पैदावार अच्छी होगी। पायलट प्रोजेक्ट में कामयाबी मिलने के बाद इसे वृहद स्तर पर करने की तैयारी है।

सरकार ने कुछ शर्तों के साथ आंध्रप्रदेश के कृष्णापुरम इलाके की खास किस्म की प्याज निर्यात की अनुमति दे दी है। वाणिज्य मंत्रालय की विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अधिसूचना में कहा कि 31 मार्च तक 10,000 टन प्याज निर्यात किया जाएगा, जो सिर्फ चेन्नई बंदरगाह के जरिए होगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

छोटे आकार और तीखेपन के कारण घरेलू किचन में कृष्णापुरम की खास प्याज का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन थाईलैंड, हांगकांग, मलयेशिया, श्रीलंका और सिंगापुर में इसकी अच्छी मांग है। अधिसूचना के मुताबिक, निर्यातकों को आंध्र प्रदेश सरकार के बागवानी विभाग से प्रमाणपत्र लेना होगा। इसमें निर्यात किए जाने वाले प्याज की मात्रा की जानकारी होगी। निर्यातक को यह प्रमाणपत्र चेन्नई में डीजीएफटी के स्थानीय कार्यालय में पंजीकृत कराना होगा। चेन्नई का डीजीएफटी कार्यालय प्याज निर्यात की मात्रा की निगरानी करेगा और उसी हिसाब से पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

### चावल निर्यात 20 फीसदी गिरने का अनुमान

मध्य पूर्व एशियाई क्षेत्र में जारी तनाव और व्यापार नियमों में सख्ती की वजह से चालू वित्त वर्ष में भारत का चावल निर्यात 18-20 कम रह सकता है। अमेरिकी वित्त व्यापार कंपनी ट्रिप कैपिटल ने जारी रिपोर्ट में बताया कि दुनियाभर में चावल के निर्यात में कमी आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, चावल आयात के सबसे बड़े क्षेत्र मध्य पूर्व एशियाई देशों में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस कारण भारत का चावल निर्यात भी प्रभावित होगा। इससे ईरान को निर्यात में 22 फीसदी, यूएई में 33 फीसदी, यमन में 2 फीसदी, सेनेगल में 90 फीसदी, नेपाल में 23 फीसदी और बांग्लादेश में 94 फीसदी तक गिरावट का अनुमान है।

# दूध के दंश: दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक भारत की पीड़ा

**प्रिया राज**

**दुनिया** का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत अपने नागरिकों की दूध की मांग पूरी करने में मुश्किल महसूस कर रहा है। कोरोना काल में दूध आपूर्ति बाधित होने से उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार लंपी के चलते दो लाख से अधिक गौधन की क्षति हुई। स्वतंत्र पर्यवेक्षक इसकी संख्या कहीं ज्यादा बताते हैं। बहरहाल, इन आपदाओं से हुई क्षति की वजह से दूध उत्पादन में गिरावट आना स्वाभाविक था। जिसके चलते दूध उत्पादों के आयात के कयास लगाये जा रहे हैं। हालांकि, यदि बाहर से सस्ता दूध आता है तो कीमत युद्ध से देश के दुग्ध उत्पादकों का संरक्षण करना भी एक चुनौती होगा। उल्लेखनीय है कि दुनिया का चौबीस फीसदी दूध उत्पादन भारत में होता है। बीते साल 22 करोड़ टन से अधिक दूध उत्पादन के आंकड़े हैं। लेकिन उसी अनुपात में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में दूध की मांग में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि आठ से दस फीसदी बतायी जा रही है। कोरोना काल व बाद में लंपी के चलते दूध उत्पादन में जो गिरावट आई है, उससे इस साल कुल उत्पादन में गिरावट या स्थिर रहने के आसार हैं। तभी डेयरी उत्पाद मसलन मक्खन व घी के आयात की बात कही जा रही है। वहीं इस परिस्थितिजन्य संकट के अलावा राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिये दूध के मुद्दे पर भी अब खूब सियासत होने लगी है। कर्नाटक चुनाव से पहले दो दुग्ध उत्पादक ब्रांड्स को लेकर जमकर राजनीति हुई। अब यह मुद्दा तमिलनाडु में जा पहुंचा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय गृहमंत्री को पत्र

लिखकर मांग की है कि आविन के मिल्क शेड क्षेत्र में अमूल की दूध खरीद पर रोक लगायी जाये।

उल्लेखनीय है कर्नाटक चुनाव में अमूल की एंट्री को लेकर जमकर राजनीति हुई थी। कांग्रेस व जेडीएस ने यहां तक आरोप लगाया था कि गुजरात से आने वाला अमूल लोकल ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की साजिश कर रहा है। यहां तक कि एक होटल संगठन ने बाकायदा अमूल उत्पादों के बहिष्कार की घोषणा की। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन अपने ब्रांड अमूल के व्यवस्थित कारोबार के लिये जाना जाता है। जिसके चलते सहकारी दुग्ध उत्पादकों के जीवन में खासा सकारात्मक बदलाव भी आया है। वहीं ब्रांड चुनने की उपभोक्ता को आजादी है और इसके लिये बेहतर प्रबंधन भी एक शर्त है। एक पहलू यह भी है कि देश में पशुओं के चारे के दाम में खासी तेजी आई है और दुग्ध उत्पादकों का मुनाफा कम हुआ है। जिसके चलते हरियाणा समेत कई राज्यों में पशुपालक इस व्यवसाय से अपना हाथ खींच रहे हैं। यही वजह है कि मांग व आपूर्ति में असंतुलन से इसकी कीमतों में उछाल आ रहा है। कोरोना व लंपी के बाद जहां उत्पादन गिरा, वहीं मांग तेजी से बढ़ी है। हालांकि, विदेशों से दूध का आयात लाभकारी नहीं हो सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें मजबूत बनी हुई हैं। बेहतर होगा कि सरकार भी सहकारी क्षेत्र के दूध उत्पादन के आंकड़ों के साथ ही निजी व असंगठित क्षेत्र के उत्पादन का भी मूल्यांकन करे, ताकि देश की जरूरतों का न्यायसंगत मूल्यांकन हो सके। वहीं दूसरी ओर सरकार को चारे की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का भी नियमन करके दूध उत्पादकों को राहत देने प्रयास करना चाहिए। कोशिश हो कि चारे की फसल के रकबे में भी वृद्धि की जाये। साथ ही डेयरी क्षेत्र के सालाना उत्पादन व मांग में संतुलन स्थापित करने के भी गंभीर प्रयास हों। यदि दुग्ध उत्पादक किसानों की दशा सुधरेगी तो उत्पादन में सुधार निश्चित रूप से महसूस किया जायेगा।

## किरण थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में, अश्मिता बाहर

एजेंसी

**बैंकॉक।** भारत के किरण जॉर्ज ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए गुरुवार को यहां चीन के दुनिया के 26वें नंबर के खिलाड़ी वेंग होंग येंग को सीधे गेम में हराकर थाईलैंड ओपन सुपर 500 टूनार्मेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बनायी। दुनिया के 59वें नंबर के खिलाड़ी किरण ने अपने से बेहतर रैंकिंग वाले चीन के खिलाड़ी को प्री क्वार्टर फाइनल में 39 मिनट में 21-11, 21-19 से हराया। आपको बता दें की किरण पहली बार बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर सुपर 500 प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। ओडिशा ओपन 2022 के विजेता किरण शुक्रवार को अंतिम आठ के मुकाबले में हांगकांग के एनजी का लोंग एंगस और फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेंगे। हालांकि महिला एकल में अश्मिता चालिहा को पूर्व ओलंपिक और तीन बार की विश्व चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मारिन के खिलाफ 18-21 13-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी।

# धोनी की हुई घुटने की सर्जरी, दो दिन बाद मिलेगी छुट्टी

### भगवत गीता के साथ धोनी का फोटो वायरल

महेंद्र सिंह धोनी मुंबई में घुटने की सर्जरी के लिए कोकिला बेन अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इस बीच धोनी की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इसमें धोनी अपने हाथ में श्रीभगवद्गीता लिए हैं। कार में फोटो धोनी फोटोग्राफर को गीता दिखाकर मुस्कुरा रहे हैं।

### धोनी के ट्रॉफी जीतते ही खुशी से पगल हो गये फैन, तोड़ने लगे दरवाजा

नयी दिल्ली। चेन्नई सुपर किंग्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी गेंद पर जीत के लिए 4 रन चाहिए थे। गुजरात के तेज गेंदबाज मोहित शर्मा के हाथों में गेंद थी, जबकि रविंद्र जडेजा स्ट्राइक पर थे। स्टेडियम में जहां फैंस हाथ जोड़े भगवान से अपनी-अपनी टीमों की जीत के लिए दुआ कर रहे थे तो दूसरी ओर करोड़ों लोग टीवी, मोबाइल और टैब पर टकटकी लगाए बैठे थे। जो फैंस स्टेडियम से दूर थे वे भी रोमांच को उतना ही महसूस कर सकते थे।इसका उदाहरण एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है। वीडियो को देखकर लग रहा है कि हॉस्टल में कुछ बच्चे मैच देख रहे थे।

एजेंसी

**नयी दिल्ली।** चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घुटनों की सफलतापूर्वक सर्जरी हो गई है। गुरुवार को मुंबई के एक अस्पताल में माही के बायें घुटने की सर्जरी हुई। वह इस सीजन आइपीएल में काफी दर्द में रहे थे और उन्हें विकेटकीपिंग के वक्त लंगड़ा कर चलते हुये देखा गया था। ऐसे में धोनी ने आइपीएल के बाद मिले समय में सबसे पहले घुटनों की सर्जरी कराई। आइपीएल ट्रॉफी जीतने के 48 घंटे के अंदर ही उन्होंने मुंबई के नामी ऑथोर्पेडिक डॉक्टर दिनशॉ पादीर्वाला से संपर्क किया था। वह बीसीसीआइ के मेडिकल पैनल का भी हिस्सा हैं और कई दिग्गज क्रिकेटर्स की सर्जरी कर चुके हैं। इनमें भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी शामिल हैं। सीएसके के मैनेजमेंट के एक करीबी सूत्र ने नाम बताया- हां, धोनी की गुरुवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में घुटने की सफल सर्जरी हुई है। वह ठीक हैं और एक या दो दिन में उन्हें छुट्टी दे दी जायेगी। रिहैबिलिटेशन शुरू होने से पहले वह कुछ दिनों तक आराम करेंगे। अब ऐसा लगता है कि उनके पास अगले आइपीएल में खेलने के लिए फिट होने के लिए पर्याप्त समय होगा। सीएसके के सीइओ काशी विश्वनाथन ने खुलासा किया कि गुरुवार को सर्जरी के बाद उन्होंने धोनी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन के बाद धोनी से बातचीत हुई। वह ये नहीं समझ सके कि सर्जरी किस खास चीज की हुई है, लेकिन यह जरूर पता चला कि यह एक की-होल सर्जरी है। वह हमारी बातचीत में ठीक लग रहे थे। धोनी की पत्नी साक्षी अस्पताल में उनके साथ मौजूद रहीं। धोनी बुधवार (31 मई) शाम को अस्पताल में भर्ती हुए थे। सीएसके मैनेजमेंट ने धोनी के इलाज की देखरेख के लिए अपनी टीम के डॉक्टर डॉ मधु थोट्टापिल को भी मुंबई भेजा है। उनके पूरी तरह से ठीक होने का सही समय अभी भी ज्ञात नहीं है, लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि धोनी लगभग दो महीने में ठीक हो जायेंगे। सोमवार रात आइपीएल जीतने के बाद धोनी ने अगले साल वापस आने और अपने प्रशंसकों के लिए एक अंतिम सीजन खेलने की उम्मीद जताई थी। धोनी ने आइपीएल के पूरे सीजन में बाएं घुटने पर पट्टी बांधकर खेला था। बैटिंग करते हुए रन लेने के दौरान भी धोनी परेशानी में दिखते थे। बुधवार को सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा था कि धोनी सर्जरी करवाना चाहते हैं या नहीं यह पूरी तरह से उनका फैसला होगा। आइपीएल फाइनल के बाद धोनी ने कहा था, यदि आप स्थिति के अनुसार देखें तो यह रिटायरमेंट के एलान का सबसे अच्छा समय है।

### फिट होने में कम से कम दो महीने लगेंगे

महेंद्र सिंह धोनी को पूरी तरह से फिट होने में कम से कम दो महीने लगेंगे। वैसे भी धोनी अब सिर्फ आईपीएल में खेलते हैं। उन्होंने फाइनल में जीत हासिल करने के बाद कहा कि वह अगला सीजन खेलने की पूरी कोशिश करेंगे।

## टीम इंडिया की नयी जर्सी लांच : तीनों फॉर्मेट के लिए अलग-अलग डिजाइन

एजेंसी

**नयी दिल्ली।** टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च कर दी गई है। स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर है। कंपनी ने ही वीडियो जारी करके तीनों फॉर्मेट के लिए तीन अलग-अलग डिजाइन की जर्सी जारी की। टीम इंडिया 7 जून से खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इसी जर्सी में नजर जाएगी। पिछले ही महीने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एडिडास के साथ 2028 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के अलावा एडिडास विमेंस सीनियर नेशनल क्रिकेट टीम, इंडिया ए, इंडिया बी और अंडर-19 मेंस और विमेंस क्रिकेट टीम की जेर्सी को भी स्पॉन्सर करेगा।

**कश्मीर के आकिब वानी ने किया है डिजाइन**

टी-20 इंटरनेशनल मैचों के लिए टीम इंडिया डार्क ब्लू कॉलरलेस जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेगी। वहीं वनडे के लिए जर्सी में हल्के नील रंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कॉलर लगा है। वहीं, टेस्ट मैचों की जर्सी सफेद रंग की है। तीनों जर्सी के कंधे पर एडिडास की 3-3 पट्टियां बनीं हैं। इन जर्सियों को कश्मीर के डिजाइनर आकिब वानी ने डिजाइन किया है। वहीं, इस समय भारतीय क्रिकेट टीम का स्लीव स्पॉन्सर अनाउंस होना बाकी है।

**ड्रोन के जरिए जर्सी को हुआ लांच**

जर्सी को लॉन्च करने का कार्यक्रम वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया। यहां ड्रोन के जरिए विशाल जर्सियों को हवा में उड़ाकर दुनिया के सामने लाया गया। एडिडास इंडिया ने एक वीडियो ट्वीट कर इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी।

## डब्ल्यूटीसी की तैयारियों को लेकर भारतीय टीम के कोच ने दी प्रतिक्रिया

एजेंसी

**लंदन।** आइपीएल का 16वां सीजन समाप्त होने के बाद भारतीय टीम 7 जून को वर्लड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तैयारियों मे जूटी हुई है आपको बता दें की ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लंदन के ओवल मे होना है। वहीं भारतीये टीम मुकाबले के लिए इंग्लैंड पहुंच गयी है। इसी के साथ भारत के गेंदबाजी, फील्डिंग और बल्लेबाजी कोच ने टीम की तैयारियों को लेकर प्रतिक्रिया दी है और बीसीसीआई ने इसका विडीयो शेयर किया है। भारत के गेंदबाजी कोच पारस म्हाम्ब्रे ने कहा तैयारी अच्छी चल रही है। पहला सेशन थोड़ा मुश्किल रहा लेकिन उसके बाद के दोनों सेशन अच्छे रहे। हम गेंदबाजों के वर्कलोड को टेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से कम करने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम और मैदान दोनों अच्छे हैं और हमें इन परिस्थितियों में खेलने की आदत डालनी होगी। वहीं टीम के फील्डिंग कोच टी दिलीप ने प्रतिक्रिया दी और कहा सभी खिलाड़ी आइपीएल खेल कर आ रहे हैं ऐसे में हमारी पहली कोशिश उनके वर्कलोड को कम करने की होगी। आईपीएल के मुकाबले टेस्ट में फील्डिंग कंडीशंस थोड़ी अलग होती है। इस समय हम स्लिप और फ्लैट कैचिंग के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। भारत के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने भी टीम की तैयारियों को लेकर बोला- इन सभी ने एक काफी बड़ा टूनार्मेंट खेला है। आईपीएल खेलने के बाद रेड बॉल क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता। इसकी आदत डालने में उन्हें कुछ सेशन लगेंगे। वहीं तीनों कोचों का ये भी कहना है कि अभी मैच को शुरू होने में कुछ दिनों का समय बाकी है, ऐसे में टीम जितना ज्यादा परैक्टिस करेगी उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। हमारी कोशिश हर सेशन में खिलाड़ियों से उनका बेस्ट निकालने की रहेगी।

### डब्ल्यूटीसी फाइनल में पोंटिंग को गिल से प्रदर्शन की उम्मीद

दुबई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना है कि शानदार फॉर्म में चल रहे युवा प्रतिभावान बल्लेबाज शुभमन गिल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल में भारत के लिये महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। पॉन्टिंग ने आईसीसी की रिव्यू पॉडकास्ट पर कहा, ऑस्ट्रेलियाई टीम विराट के बारे में बात कर रही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर वे पुजारा के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन वह (शुभमन गिल) शानदार खिलाड़ी है।

### आइपीएल में ही ड्यूक से अभ्यास शुरू कर दिया था : अक्षर

**पोर्ट्समाउथ।** अक्षर पटेल ने बताया कि इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान लाल गेंद से अभ्यास करने से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल में सामंजस्य बैठाने में मदद मिलेगी। भारत हालांकि दोहरी चुनौतियों के लिए अच्छी तरह से तैयार है। इंग्लैंड में इस्तेमाल होने वाली ड्यूक गेंदों से सामंजस्य बैठाने पर भारतीय टीम ने काम किया है। अक्षर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) से कहा, हम इसके बारे में आईपीएल शुरू होने से पहले ही जानते थे इसलिए आइपीएल के दौरान भी चर्चा होती थी कि हम लाल गेंद से गेंदबाजी करेंगे। उन्होंने कहा, हमारे पास लाल गेंदें थीं इसलिए हम उनका इस्तेमाल कर रहे थे। आप जानते हैं कि कब और कैसे खेलना है, आपके पास कितना समय है। सफेद गेंद से लाल गेंद की ओर मानसिक रूप से बदलाव करना स्पष्ट रूप से कठिन है लेकिन हमारे पास पर्याप्त समय है।

### फ्रेंच ओपन : जेपियेरी को हराकर तीसरे दौर में रूड

**पेरिस।** नॉर्वे के कैस्पर रूड ने गुरुवार को यहां इटली के गिउलियो जेपियेरी को 6-3, 6-2, 4-6, 7-5 से हराकर फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। कोर्ट फिलिप-चैटरियर पर खेले गये मुकाबले में चौथी सीड रूड ने मजबूत शुरूआत की, लेकिन तीसरे सेट में खराब प्रदर्शन के कारण उन्होंने जेपियेरी को वापसी का मौका दिया।

## फ्रेंच ओपन 2023 से हटे मोनफिल्स

एजेंसी

**पेरिस।** फ्रांस के स्टार टेनिस खिलाड़ी गेल मोनफिल्स बाएं हाथ की चोट के कारण चल रहे फ्रेंच ओपन 2023 से हट गये हैं। फ्रांसीसी खिलाड़ी मोनफिल्स ने कोर्ट फिलिप-चैटरियर पर देर रात पहले दौर में सेबस्टियन बैज को हराया था। मोनफिल्स को गुरुवार शाम तीसरे दौर में छठी वरीयता प्राप्त होल्गर रून से भिड़ना था। मोनफिल्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वास्तव में, शारीरिक रूप से, मैं काफी ठीक हूं। मैं आज सुबह काफी खुश था। मैं काफी अच्छे से उठा, लेकिन मेरी कलाई में एक

समस्या थी जिसे मैंने पहले दौर के मैच के दौरान महसूस किया था। डॉक्टर ने कहा इस प्रकार की चोट के साथ खेलना अच्छा नहीं था। कल वास्तव में बहुत जोखिम भरा था, और फिर आज निश्चित रूप से डॉक्टर ने कहा कि मुझे रुक जाना चाहिये। मोनफिल्स कितने समय कोर्ट से बाहर रहेंगे, इसे लेकर अनिश्चित हैं, हालांकि उन्हें ग्रास-कोर्ट सीजन के लिए वापसी की उम्मीद है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, इसलिए जब मैं कोर्ट से बाहर रहूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना समय लगेगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मैं ग्रास कोर्ट सीजन में खेल सकूंगा।

## पीएसजी कोच ने लियोनेल मेसी के क्लब से अलग होने की पुष्टि की

**पेरिस।** फ्रांस की शीर्ष घरेलू फुटबॉल लीग की टीम पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) के कोच क्रिस्टोफ गैल्टर ने गुरुवार को कहा कि दिग्गज लियोनेल मेसी इस सत्र के आखिरी से क्लब से अलग हो जाएंगे। मेसी पिछले दो साल से इस क्लब के साथ है। गैल्टर ने शनिवार को क्लेरमोंट के खिलाफ खेले जाने वाले पीएसजी मैच से पहले कहा कि पार्स डेस प्रिंसेस में यह मेसी का आखिरी मैच होगा।गैल्टर ने कहा कि मुझे फुटबॉल के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कोचिंग देने का सौभाग्य मिला। पार्स डेस प्रिंसेस में यह उनका आखिरी मैच होगा और मुझे उम्मीद है कि उनका गर्मजोशी से स्वागत होगा।

### खेलो इंडिया गेम्स में एसएस मेमोरियल के छात्र को कांस्य पदक

**(खबर मन्त्र ब्यूरो) रांची।** एसएस मेमोरियल कॉलेज के छात्र विशाल बहादुर ने लखनऊ में हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ब्रांज मेडल जीता है। ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में यह मेडल मिला है। विशाल इंग्लिश ऑनर्स का छात्र है। प्रिंसिपल डॉ. वदना राय ने कहा कि हमारे लिए यह खुशी का पल है। हमारे कॉलेज के छात्र पढ़ाई के साथ खेल में भी आगे हैं। विशाल रांची विश्वविद्यालय के साथ ही राज्य का भी नाम रोशन किया है। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ अजीत कुमार सिन्हा ने भी बधाई देते हुए आरयू के छात्रों के लिए एथलेटिक्स, खेल का समर्थन करने के लिए हरसंभव पहल करने का आश्वासन दिया।

## मोंटिएल ने पेनाल्टी पर दागा गोल, सेविला ने जीता यूरोपा लीग का खिताब

**बुडापेस्ट।** विश्व कप फाइनल में अर्जेन्टीना की ओर से निर्णायक पेनल्टी को गोल में बदलने के बाद गोंजालो मोंटिएल ने यहां एक बार फिर पेनल्टी पर गोल दागकर सेविला को यूरोपा लीग फुटबॉल फाइनल में रोमा पर जीत दिलाई। सेविला का यह सातवां यूरोपा लीग खिताब है। बुडापेस्ट में अतिरिक्त समय के बाद भी मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद पेनल्टी शूट आउट में सेविला ने 4-1 से जीत दर्ज की। रोमा के लिए जियानलुका मेनसिनी और रोजर इबानेज गोल करने में नाकाम रहे। मोंटिएल पहले प्रयास में गोल करने से चूक गए थे लेकिन विरोधी गोलकीपर रुई पैट्रिशियो के फाउल के कारण उन्हें दोबारा मौका मिला जिसका उन्होंने फायदा उठाते हुए गोल दागा।

## ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तीन फुटबॉल ट्रेनिंग केंद्रों का किया उद्घाटन

एजेंसी

**भुवनेश्वर।** ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आगामी इंटरकॉन्टिनेंटल कप से पहले गुरुवार को भुवनेश्वर में तीन आधुनिक फुटबॉल ट्रेनिंग केंद्रों का उद्घाटन किया जिससे राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। इन तीन केंद्रों ओडिशा फुटबॉल अकादमी, भुवनेश्वर फुटबॉल अकादमी और कैपिटल फुटबॉल एरेना के विकास में 90 लाख रुपये का खर्च आया है और इनमें खेल की वैश्विक संस्था फीफा से प्रमाणित छह टर्फ होंगे। इसमें पांच प्राकृतिक और एक सिंथेटिक फुटबॉल मैदान, एलईडी फ्लड लाइट, खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम, गैलरी कोच रूम के अलावा अन्य सुविधाएं भी होंगी।ये तीनों केंद्र शहर में एक दूसरे के पास स्थित हैं जिससे कई टीमों को एक साथ ट्रेनिंग करने की सुविधा मिलेगी विशेषकर टूनार्मेंट के दौरान। ये तीन केंद्र राष्ट्रीय अंडर-16 और अंडर-19 टीम, ओडिशा एफसी (पुरुष, महिला और युवा) और राज्य की सभी टीम (पुरुष और महिला दोनों) के लिए ट्रेनिंग मैदान होगा। मुख्यमंत्री पटनायक ने कहा कि ये देश में फुटबॉल प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में काम करेंगे। पटनायक ने विज्ञप्ति में कहा, ओडिशा फुटबॉल अकादमी, भुवनेश्वर फुटबॉल अकादमी और कैपिटल फुटबॉल एरेना का उद्घाटन करना बहुत खुशी और गर्व की बात है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि ये नई सुविधाएं ना केवल युवाओं को फुटबॉल के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी बल्कि देश में फुटबॉल प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र के रूप में भी काम करेंगी। इन केंद्रों में रैफरी और कोच शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। पटनायक ने घोषणा की कि केंद्रपाड़ा जिले में कृत्रिम टर्फ वाली लड़कियों की फुटबॉल अकादमी भी बनाई जाएगी।

### पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पुरुष हॉकी चैंपियन

**लखनऊ।** पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने गुरूवार को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पुरुष हॉकी का खिताब शूटआउट तक चले रोमांचक मुकाबले में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को 3-2 से हराकर जीता। मैच में निर्धारित समय में दोनों टीमें 3-3 से बराबरी पर थी।

पेज 1 का शेष

### रामगढ़ : जबरन दोस्ती में...

मेरे विरोध करने के बाद वह मेरे साथ मारपीट करने लगा। उसने मेरा गला दबाते हुए मुझे जान मारने की कोशिश की। साथ ही, उसने मेरे ऊपर चाकू से हमला किया। हालांकि, मैं उसके चाकू के वार से बचती रही। वह मुझसे जबरदस्ती दोस्ती करने का बार बार धमकी देता रहा। दोस्ती नहीं करने पर जान मारने की धमकी देता रहा। पीड़िता ने प्राथमिकी में लिखा है कि वह किसी तरह जान बचाकर भागी और शोर मचाने लगी।

### दो लाख का इनामी नक्सली ...

इसमें माओवादी कमांडर रंथू उरांव के दस्ते का सक्रिय सदस्य दो लाख का इनामी राजेश उरांव मारा गया। मुठभेड़ आंजन व मड़वा जंगल के बीच में हुई है। बताया गया कि पुलिस की ओर से लगभग 20 से 25 चक्र गोलियां चलायी गयीं, जबकि राजेश उरांव ने अपने रायफल से आठ से दस चक्र गोलियां चलायी। पुलिस के अनुसार, माओवादी दस्ते में कई सदस्य शामिल थे, लेकिन मुठभेड़ के समय राजेश उरांव ही सामने आया। अन्य नक्सली भाग निकले। इधर, घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस सर्च अभियान चला रही है।

स्पीड न्यूज

## चीन रेशम मार्ग अब बनेगा फौलादी पथ

**गंगटोक।** सदियों पहले से तिब्बत के साथ व्यापार के सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग को 21वीं सदी में रेल लाइन बिछा कर आयरन रूट यानी फौलादी पथ बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है तथा अगले साल सिक्किम के रंगपो तक और एक दशक में चीन शासित तिब्बत की सीमा पर नाथू ला तक रेल लाइन तैयार हो जाएगी। बंगाल के उत्तरी भाग में चार देशों - नेपाल, बंगलादेश, भूटान एवं चीन की सीमाओं से घिरे चिकेन नेक क्षेत्र में सिलीगुड़ी के सिवोक से सिक्किम की सीमा पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र रंगपो तक करीब 45 किमी तक रेलवे लाइन बिछाने का काम वर्ष 2024 दिसम्बर तक पूरा हो जाएगा।

## मणिपुर के नये डीजीपी बने राजीव सिंह

**इंफाल।** भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी राजीव सिंह को गुरुवार को मणिपुर का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई। आधिकारिक आदेश के अनुसार, त्रिपुरा कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी सिंह को तीन साल के लिए अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति पर मणिपुर भेजा गया है।

## पाकिस्तान के पंजाब में विस्फोट, छह मरे

**लाहौर।** पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गुरुवार को एक घर में हुए विस्फोट में एक ही परिवार के कम से कम छह लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हुए। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना पंजाब प्रांत के कोट अड्डू जिले में हुई। इस घटना में इकबाल, उनकी पत्नी हसीना, उनके दो बच्चों और दो महिला रिश्तेदारों की मौत हो गई।

## बारामूला में आतंकियों के दो सहयोगी अरेस्ट

**श्रीनगर।** जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षाबलों ने गुरुवार को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया। पुलिस के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि फ्रेशितहार क्रीरी गांव में आतंकवादियों की आवाजाही के संबंध में मिली विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षाबलों ने फ्रेशितहार वारीपोरा क्रॉसिंग पर एक मोबाइल वाहन जांच चौकी (एमवीसीपी) स्थापित की।.

## यूपी के जिलों में तैनात होंगे आपदा मित्र : योगी

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरूवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के नये भवन का शिलान्यास किया और कहा कि सरकार के प्रयास से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल हुयी है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में कभी 40 जिले बाढ़ प्रभावित माने जाते थे, आज हमने इस खतरे को 4-5 जिलों में समेटने का काम किया है। आज अगर कहीं आपदा आती है तो लोगों को ये विश्वास रहता है कि सरकार की ओर से राहत भी आ रही होगी। उन्होने प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आपदा मित्रों की बात कहते हुए अच्छा कार्य करने वालों को व्यवस्था के साथ जोड़ते हुए उचित मानदेय देने के लिए भी राजस्व विभाग को कहा।

## 'मेरे नैना तेरे नैना' आज होगी रिलीज

**मुंबई।** खेसारीलाल यादव अभिनीत अवाधी फि ल्म मेरे नैना तेरे नैना शुक्रवार को रिलीज होगी। लाल विजय शाहदेव निर्देशित मेरे नैना तेरे नैना में खेसारीलाल यादव के साथ खुशबू शर्मा, कामाक्षी ठाकुर, रीतू शर्मा, नीना चीमा, निशिकांत दीक्षित और चुनु मेहरा ,रवि भाटिया भी एक अहम रोल में हैं। निर्देशक लाल विजय ने बताया कि एक अनाथ लड़की और एक अनाथ लड़का अनोखी प्रेम कहानी की रहस्यमयी विषय पर आधारित फिल्म है।

# भारत-नेपाल में फिर सुपरहिट होंगे रिश्ते

### हम अपने संबंध को हिमालय जैसी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे : प्रधानमंत्री

**एजेंसी**

**नयी दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को अपने नेपाली समकक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के साथ व्यापक वार्ता के बाद कहा कि भारत और नेपाल अपने द्विपक्षीय संबंधों को हिमालयी ऊंचाइयों पर ले जाने और सीमा मुद्दे सहित सभी मामलों को इसी भावना के साथ हल करने का प्रयास करेंगे। मोदी ने कहा कि उन्होंने और प्रचंड ने भविष्य में दोनों देशों के बीच साझेदारी को सुपर हिट बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। वार्ता के बाद मोदी और प्रचंड ने संयुक्त रूप से कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरूआत की। उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और कुछ का शिलान्यास भी किया।

दोनों पक्षों ने सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन के विस्तार, एकीकृत जांच चौकियों के विकास और पनबिजली में सहयोग बढ़ाने सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सात समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए।

दोनों नेताओं ने भारत के रुपईडीहा और नेपाल के नेपालगंज में एकीकृत जांच चौकियों का

**पनबिजली समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को सात समझौतों पर दोनों देशों ने किया हस्ताक्षर**

**10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करेगा भारत**

डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड के लिए एक मालवाहक रेलगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाई। प्रचंड की मौजूदगी में मोदी ने कहा कि हम अपने संबंधों को हिमालय की ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास जारी रखेंगे। और इसी भावना के साथ हम सभी मुद्दों का समाधान करेंगे, चाहे वह सीमा से जुड़ा हो या कोई अन्य मुद्दा।

हस्ताक्षरित प्रमुख समझौतों में से एक ट्रांजिट की संशोधित भारत-नेपाल संधि थी। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रेल मार्गों के साथ ही भारत की अंतरदेशीय जलमार्ग सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने नए रेल लिंक स्थापित कर



भौतिक संपर्क बढ़ाने का निर्णय किया। साथ ही भारतीय रेल संस्थानों में नेपाल के रेलकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय किया गया है। नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से संपर्क को बढ़ावा देने के लिए शिरशा और जुलाघाट में और दो पुल बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तीन आईसीपी (इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट) के निर्माण से संपर्क सुदृढ़ होगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष हमने बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक दृष्टिपत्र दस्तावेज अपनाया था। इसे आगे बढ़ाते हुए आज भारत औ? नेपाल के बीच दीर्घकालीन बिजली व्यापार समझौता किया गया है। इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि मोतिहारी अमलेहगंज पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन तक ले जाने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक और एक नई पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। साथ साथ चितवन और झापा में नए स्टोरेज टर्मिनल भी लगाए जाएंगे।

मोदी ने नौ साल पहले प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद नेपाल के साथ संबंधों को मजबूत करने में अपनी प्राथमिकता का भी जिक्र किया।

उन्होंने कह कि मुझे याद है, नौ साल पहले 2014 में पदभार संभालने के तीन महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत-नेपाल संबंधों के लिए हिट फॉमूर्ला दिया था- राजमार्ग, आई-वे और ट्रांस-वे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि हम भारत और नेपाल के बीच ऐसे संबंध स्थापित करेंगे कि हमारी सीमाएं हमारे बीच बाधा न बनें।

उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के बीच संबंध सदियों पुराने और बहुआयामी हैं। यह संबंध एक तरफ सभ्यतागत, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक संबंधों की समृद्ध परंपरा से निर्मित ठोस नींव पर खड़ा है तो दूसरी तरफ संप्रभु समानता, आपसी सम्मान, समझ और सहयोग के समय की कसौटी पर खरे उतरे सिद्धांत के प्रति दोनों देशों की दृढ़ प्रतिबद्धता पर ।

### रामायण सर्किट में आयेगी तेजी

मोदी ने कहा कि उन्हें नौ साल बाद यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी साझेदारी वास्तव में हिट रही है। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने और मजबूत हैं। इस सुन्दर कड़ी को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड और मैंने निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। प्रचंड ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि उन्होंने और मोदी ने संबंधों में प्रगति की व्यापक समीक्षा की और संबंधों एवं सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा कि वह मोदी की पड़ोस पहले की नीति की सराहना करते हैं।

# मणिपुर में जातीय हिंसा की होगी न्यायिक जांच

**एजेंसी**

**इंफाल।** केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को घोषणा की कि मणिपुर में हुई जातीय हिंसा की जांच के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्तर के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा। लगातार तीन दिनों तक राज्य के विभिन्न हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने और राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों से चर्चा के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन में शाह ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति के गठन और हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे के साथ ही राहत और पुनर्वास पैकेज की भी घोषणा की। गृह मंत्री ने कहा कि हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों को भारत सरकार की ओर से पांच-पांच लाख रुपये और राज्य सरकार की ओर से पांच-पांच लाख रुपये

**हाइकोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग होगा गठित : गृह मंत्री**

**हिंसा में मारे गये लोगों के परिजनों को मुआवजा**

की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ये राशि पीड़ित परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। शाह ने कहा कि मणिपुर में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, इसके लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और अलग-अलग मंत्रालयों के पांच निदेशक स्तर के अधिकारी मणिपुर में उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि भारत-म्यांमार सीमा मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए दोनों देशों के बीच सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा करने की जरूरत होगी।उन्होंने कहा कि खोंगसांग रेलवे स्टेशन पर एक अस्थायी प्लेटफॉर्म बनाकर मणिपुर को देश के बाकी हिस्सों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी।

**मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मी घायल :** इस बीच, अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में बुधवार रात संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ बुधवार रात को कुंबी पुलिस थाने के अंतर्गत तांगजेंग में हुई। सेना और पुलिस छिपे हुए हथियारों के जखीरे के लिए राज्यव्यापी तलाशी अभियान चला रही हैं। अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन द्वारा निगरानी और सुरक्षा बलों की तैनाती भी जारी है।

## 2000 रुपये के नोट पर शीघ्र सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

**नयी दिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी वैध पहचान पत्र के 2000 रुपये के नोट बदलने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की अनुमति संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने से गुरुवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर अपील पर शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टियों के बाद मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस मामले का उल्लेख कर सकते हैं। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बुधवार को सिर्फ अदालत में अपील दायर की थी। उन्होंने आज इस मामले को विशेष उल्लेख के दौरान उठाया था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि 19 और 20 मई को जारी आरबीआई की अधिसूचना ने अवैध धन को वैध बनाने का अवसर दिया है।

# चंद्रशेखर राव ने विपक्षी एकता की कोशिश छोड़ी

**एजेंसी**

**अब देश में तेलंगाना विकास के मॉडल को पेश करेगी बीआरएस**

**हैदराबाद।** भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने गुरुवार को कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश छोड़ दी है। राज्य सरकार में मंत्री केटी रामा राव ने बताया कि पार्टी अब देश में तेलंगाना विकास मॉडल को पेश करने पर ध्यान देगी। रामा राव ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब उनके पिता चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी बीआरएस का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर करने की कोशिशों में जुटे हैं।पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामा राव ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का परोक्ष हवाला देते हुए कहा कि देश को एक पार्टी या एक व्यक्ति के खिलाफ घृणा के आधार पर नहीं, बल्कि शासन के सकारात्मक मॉडल के आधार पर विपक्षी एकता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम यह सारी

कोशिशें करने बाद कह रहे हैं। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक नई राष्ट्रीय पार्टी हो (जिसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा), क्योंकि इस देश में एक बहुत बड़ा शून्य है। मूल बात है कि विपक्ष बुरी तरह विफल रहा है। चंद्रशेखर राव ने गैर भाजपा व गैर कांग्रेस दलों को एकजुट करने के लिए कई नेताओं से मुलाकात की थी, जिनमें एम के स्टालिन , नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल समेत कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। उनका आरोप था कि दोनों राष्ट्रीय दल देश का विकास करने में नाकाम रहे हैं।

## मई में जीएसटी संग्रह 12 प्रतिशत बढ़कर 1.57 लाख करोड़ पर

**नयी दिल्ली।** माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मई में 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.57 लाख करोड़ रुपये रहा। यह लगातार तीसरी महीना है जब जीएसटी संग्रह 1.50 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा है।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सभी राज्यों में पिछले एक वर्ष से लगातार अच्छे आर्थिक प्रदर्शन को बताता है। मई, 2022 में जीएसटी संग्रह 1.41 लाख करोड़ रुपये रहा था। इससे पहले अप्रैल, 2023 में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया था। मंत्रालय ने बताया कि मई में सकल जीएसटी राजस्व 1,57,090 करोड़ रुपये रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी 28,411 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 35,828 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी 81,363 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए 41,772 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,489 करोड़ रुपये (माल आयात पर जुटाए गए 1,057 करोड़ रुपये सहित) रहा है।

## उर्वशी रौतेला ने 190 करोड़ में खरीदा बंगला

**मुंबई।** बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने मुंबई में 190 करोड़ में बंगला खरीदा है। उर्वशी रौतेला अपने नए घर को लेकर चर्चा में है।वह अब मुंबई में दिवंगत फिल्म निमार्ता यश चोपड़ा के घर के बगल में स्थित एक शानदार बंगले में रहने लगी हैं, जिसकी कीमत 190 करोड़ रुपए है। मुंबई के मध्य में स्थित, यह आलिशान बंगला चार माले का है, जहां उर्वशी के लिए सभी तरीके की सुविधाएं मौजूद है।बंगले का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है और क्लासी है , जबकि बंगले का इंटीरियर भाग आधुनिक तस्वीरो और कलाकीर्तियो से सजा हुआ है

चार मंजिल के इस भव्य बंगले में, बंगले में एक भव्य गार्डन, जिम और भिन्न सुविधाएँ मौजूद है। उर्वशी ने अपने घर से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।

### आलिया के नाना राजदान का निधन

**मुंबई।** अभिनेत्री आलिया भट्ट के नाना और सोनी राजदान के पिता नरेंद्रनाथ राजदान का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण गुरुवार को निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। सोनी राजदान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पिता के निधन की खबर साझा की। अभिनेत्री सोनी राजदान ने उन्हें एक शौकीन गोल्फर, संगीत प्रेमी और हमारे जीवन का प्रकाश कहते हुए लिखा कि उनका परिवार भाग्यशाली है कि उनके जैसे दलायु और सब को प्यार करने वाले इंसान का आशीर्वाद मिला।

## तेलंगाना में बन रहा दुनिया का पहला थ्री-डी प्रिंटेड मंदिर

**हैदराबाद।** विश्व का पहला थ्री-डी प्रिंटेड हिंदू मंदिर तेलंगाना में बनाया जा रहा है। शहर की रियल एस्टेट कंपनी अप्सुजा इंफ्राटेक, सिद्दिपेट के बुरुगुपल्ली में 3,800 वर्ग फुट क्षेत्र में इसका निर्माण कर रही है। अप्सुजा इंफ्राटेक इस परियोजना के लिए थ्री-डी प्रिंटेड निर्माण कंपनी सिम्पलीफोर्ज क्रिएशंस की मदद ले रही है और चारविथा मीडोज परियोजना क्षेत्र में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अप्सुजा इंफ्राटेक के प्रबंध निदेशक हरि कृष्णा जीदीपल्ली ने बताया कि ढांचे के अंदर तीन गर्भगृह मोदक के प्रतीक हैं, जो भगवान गणेश को प्रिय माना जाता है। एक शिवालय है और, कमल की आकृति का एक कक्ष देवी पार्वती के लिए है। मार्च में सिम्पलीफोर्ज क्रिएशंस ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), हैदराबाद के साथ मिलकर दो घंटे से भी कम समय में भारत का प्रथम प्रोटोटाइप पुल निर्मित किया था। सिम्पलीफोर्ज क्रिएशंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ध्रुव गांधी ने बताया कि इसे भी चारविथा मीडोज, सिद्दिपेट में अंतिम रूप दिया गया था।

## बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का प्रशिक्षण प्रक्षेपण सफल

**एजेंसी**

**बहुत ऊंचाई से लक्ष्य को भेदने में सक्षम है मिसाइल**

**अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों के कई रूपों को किया गया डेवलप**

**नयी दिल्ली।** भारत ने गुरुवार को अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया, जिससे रणनीतिक हथियार के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सत्यापित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सामरिक बल कमान (एसएफसी) ने ओडिशा में ए. पी. जे. अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल का प्रक्षेपण किया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक जून, 2023 को ए. पी. जे. अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा से सामरिक बल कमान द्वारा एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया गया। इसमें कहा गया है कि यह सिद्ध हो चुका है कि यह मिसाइल बहुत ऊंचाई से लक्ष्य को भेदने में सक्षम हैं। इस प्रक्षेपण के जरिये मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। भारत पिछले दो दशकों में विभिन्न बैलिस्टिक मिसाइलों, सटीक-निर्देशित युद्ध सामग्री और संबंधित प्लेटफार्म को विकसित करके अपनी सामरिक क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत ने अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों के विभिन्न रूपों को विकसित किया है। पिछले दिसंबर में, भारत ने परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, जो 5,000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। अग्नि 1

से 4 मिसाइलों की रेंज 700 किलोमीटर से 3,500 किलोमीटर तक है और उन्हें पहले ही तैनात किया जा चुका है।

## बाजार में गिरावट जारी सेंसेक्स 194 अंक टूटा

**मुंबई।** घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को भारी उतार-चढ़ाव के बीच लगातार दूसरे दिन गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स 194 अंक टूटकर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में मिले-जुले रुख के बीच बैंक,धातु और ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से बाजार नुकसान में रहा। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स शुरू में बढ़त के साथ खुला। लेकिन अंत में यह 193.70 अंक यानी 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 62,428.54 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 263.1 अंक तक लुढ़क गया था। निफ्टी भी 46.65 अंक यानी 0.25 की गिरावट के साथ 18,487.75 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में भारती एयरटेल 3.42 प्रतिशत और कोटक महिंद्रा बैंक 3.31 प्रतिशत नीचे आया।